

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5—जनवरी 11, 2019 (पौष 15, 1940)=

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5—JANUARY 11, 2019 (PAUSA 15, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4=

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2019

रक्षा (एम एस)

सं. 01, दिनांक 3 दिसम्बर 2018—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जून, 2018 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

पैदल सेना:

आईसी-38266डब्ल्यू ले. जन. सुरिन्दर सिंह, अ.वि.से.मे**, वि.से.मे., यांत्रिक पैदल सेना

आईसी-35904वाई ले. जन. सरत चन्द, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे, अ.वि.से.मे, वि.से.मे, पैदल सेना (सेवानिवृत्त), के स्थान पर

रेवती रमन

अवर सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कोर/एम एस (एएनओ)

सं. 02, दिनांक 4 दिसम्बर 2018—नीचे दिए गए कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:—

क्र. सं.	कुलपति का नाम	निदेशालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति पद पर नियुक्ति की तारीख
1	प्रो० सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कुलपति	ओडिसा	ओडिशा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	28.03.2016
2	प्रो० जी नागेश्वरा राव कुलपति	एपी व टी	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	17.07.2016
3	डॉ० ए एम पाटूरकर कुलपति	महाराष्ट्रा	महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपूर	22.01.2018
4	डॉ० तपस भट्टाचार्य कुलपति	महाराष्ट्रा	डॉ० बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	06.11.2015
5	डॉ० के पी विश्वनाथा कुलपति	महाराष्ट्रा	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	28.12.2015
6	डॉ० बी व्यंकटेशवरलू कुलपति	महाराष्ट्रा	वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी	01.02.2014
7	प्रो० एन राजेन्द्रन कुलपति	टीएनपी व एएन	अलगम्पा विश्वविद्यालय, करयकुडी	05.06.2018
8	प्रो० टी वी कटटीमनी कुलपति	म० प्र० एवं छग	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	16.01.2014
		(कुल—08 कुलपति)		

अजय कुमार
ब्रिगेडियर
ब्रिगेडियर (एम एस)

सेना शाखा

सं. 03, दिनांक 5 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशन दिया जाता है

कृणाल विलास देशभ्रतार	टीए—43111एल	इन्जीनियर (टीए)	30 जून 17
कन्हैया राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	टीए—43112एन	इन्जीनियर (टीए)	18 सितम्बर 17
सचिन चन्द्रकांत डोलसे	टीए—43113डब्ल्यू	इन्जीनियर (टीए)	01 नवम्बर 17
गौरव एस वाघमारे	टीए—43114वाई	इन्जीनियर (टीए)	01 नवम्बर 17
वामषीशरण पल्लेरला	टीए—43115एफ	इन्जीनियर (टीए)	04 नवम्बर 16

सुदर्शन कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 04, दिनांक 6 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

लै० कर्नल बनाया जाता है

मेजर मनोज कुमार देवलाल	टीए(एम)—1212	एमसी (टीए)	31 अक्टूबर 2016
------------------------	--------------	------------	-----------------

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन सर्वज्ञ बैरवा	टीए—42704	इन्जीनियर (टीए)	24 जनवरी 2018
कैप्टन आकाश दीप	टीए—42760	इन्जीनियर (टीए)	01 फरवरी 2018
कैप्टन दीपक गुप्ता	टीए—42763	इन्जीनियर (टीए)	12 अप्रैल 2018

कैप्टन बनाया जाता है

लै० जैश राम	टीए—42699	(इन्जीनियर टीए)	17 दिसम्बर 2011
लै० सुरेंद्र कुमार साहनी	टीए—42717	(इन्जीनियर टीए)	16 जुलाई 2012
लै० राहुल सुधांशु	टीए—42895	(इन्जीनियर टीए)	05 नवम्बर 2017
लै० गौरव अग्रवाल	टीए—42897	(इन्जीनियर टीए)	11 नवम्बर 2017
लै० शिरोले सागर नामदेव	टीए—42900	(इन्जीनियर टीए)	06 जनवरी 2018
लै० एन विश्वकार्तिक	टीए—42901	(इन्जीनियर टीए)	06 जनवरी 2018
लै० सुब्रता दास	टीए—42902	(इन्जीनियर टीए)	16 जनवरी 2018
लै० संजीव कुमार गुप्ता	टीए—42903	(इन्जीनियर टीए)	06 दिसम्बर 2017
लै० हिमांशु जोशी	टीए—42906	(इन्जीनियर टीए)	06 फरवरी 2018
लै० दिनेश कुमार	टीए—42911	(इन्जीनियर टीए)	24 फरवरी 2018
लै० अमीत स्वामी	टीए—42914	(इन्जीनियर टीए)	06 मार्च 2018
लै० अमीत गुप्ता	टीए—42952	(इन्जीनियर टीए)	20 जनवरी 2018
लै० दीपक सदाशिव खोट	टीए—42953	(इन्जीनियर टीए)	20 जनवरी 2018

सूबेदार बनाया जाता है

वर्तमान टी.जे.नं.	रैंक	नाम	यूनिट	कब से
6209एम	नायब सूबेदार	प्रीतपाल सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	08 जुलाई 2016
6259एम	नायब सूबेदार	अशोक कुमार	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	22 सितम्बर 2016
6326एम	नायब सूबेदार	धर्म प्रकाश	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	22 अक्टूबर 2016
5959एन	नायब सूबेदार	जगदीश सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	30 मार्च 2016
5960एच	नायब सूबेदार	जगदीश सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	08 अप्रैल 2016
6099एक्स	नायब सूबेदार	पवन कुमार	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	09 नवम्बर 2016
6225वाई	नायब सूबेदार	मनोज कुमार	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	03 फरवरी 2017
6294पी	नायब सूबेदार	जय शंकर	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	03 फरवरी 2017
6295एक्स	नायब सूबेदार	रणबीर सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	01 जून 2017
6296पी	नायब सूबेदार	हरी केश	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	31 मई 2017
6297एच	नायब सूबेदार	सतबीर सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	04 जून 2017

5925ए	नायब सूबेदार	राजपाल	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	19 फरवरी 2014
5926एच	नायब सूबेदार	धन चन्द	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	16 अप्रैल 2014
5965एफ	नायब सूबेदार	शेर सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	23 अक्तूबर 2014
6058एन	नायब सूबेदार	करण सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	16 जून 2014
6096के	नायब सूबेदार	रंनताज सिंह चन्देल	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	26 नवम्बर 2014
6146के	नायब सूबेदार	उपेन्द्र सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	10 जुलाई 2015
6174एम	नायब सूबेदार	परवीण कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	17 जुलाई 2015
6208वाई	नायब सूबेदार	कुलबीर सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	23 अक्तूबर 2015
6231एम	नायब सूबेदार	बलविन्द्र कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	28 दिसम्बर 2015
6245एम	नायब सूबेदार	राज कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	04 फरवरी 2016
6249एच	नायब सूबेदार	देश राज	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	22 फरवरी 2016
6314एक्स	नायब सूबेदार	पवन सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	30 अप्रैल 2016
6325के	नायब सूबेदार	नरेश कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	16 जून 2016
6405एफ	नायब सूबेदार	पुन्नु राम	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	05 जुलाई 2016
6480एल	नायब सूबेदार	जगमोहन लाल	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	10 सितम्बर 2016
6481एन	नायब सूबेदार	किशोर लाल	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	10 सितम्बर 2016
6378एच	नायब सूबेदार	झिलमिल सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	23 जनवरी 2017
6333एच	नायब सूबेदार	मनबीर सिंह	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	12 जुलाई 2014
4790एक्स	नायब सूबेदार	सुदर्शन कुमार	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	05 मार्च 2004
4852एम	नायब सूबेदार	बलवीर सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	05 मार्च 2004
4856एच	नायब सूबेदार	पुरशोत्तम लाल	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	05 मार्च 2004
4939एन	नायब सूबेदार	सोम राज	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 सितम्बर 2004
4940डब्ल्यू	नायब सूबेदार	रमेश कुमार	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 सितम्बर 2004
4942एन	नायब सूबेदार	सतेन्द्र सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 सितम्बर 2004
5015एम	नायब सूबेदार	रामेश्वर सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	30 जून 2006
5030एफ	नायब सूबेदार	अर्जुन सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	18 फरवरी 2008
5089एफ	नायब सूबेदार	ब्रह्मा नन्द	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	05 जून 2008
5090डब्ल्यू	नायब सूबेदार	धर्म चन्द जोरिया	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	26 फरवरी 2009
5402एफ	नायब सूबेदार	देवी सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	15 सितम्बर 2010
5403के	नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	30 सितम्बर 2011
5411एच	नायब सूबेदार	देश राज	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	29 अक्तूबर 2012
5559एफ	नायब सूबेदार	दयाल सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	03 जनवरी 2013
5627के	नायब सूबेदार	अर्जुन सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	28 जुलाई 2013
5628एम	नायब सूबेदार	प्रेम दास	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 सितम्बर 2013
5653एल	नायब सूबेदार	राजपाल कुमार	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 जनवरी 2014
5723वाई	नायब सूबेदार	कबल सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 अगस्त 2014
5855एम	नायब सूबेदार	किशोरी लाल ठाकुर	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	13 जनवरी 2015
5890पी	नायब सूबेदार	नरेश कुमार	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	13 जनवरी 2015
5902वाई	नायब सूबेदार	ओम प्रकाश	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	08 अगस्त 2015

6026एल	नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	19 जनवरी 2015
6124एल	नायब सूबेदार	छतर सिंह चौहान	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	06 अक्तूबर 2015
6184ए	नायब सूबेदार	बलदेव सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	09 अक्तूबर 2015
6185ए	नायब सूबेदार	कामेश्वर सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	14 जनवरी 2016
6247एक्स	नायब सूबेदार	गोपाल दास	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	14 जनवरी 2016
6272डब्ल्यू	नायब सूबेदार	मोहिन्द्र सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	30 मार्च 2016
6280पी	नायब सूबेदार	ज्योति शर्मा	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 जनवरी 2017
6357एम	नायब सूबेदार	रविन्द्र सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 जनवरी 2017
6412एक्स	नायब सूबेदार	मस्त राम	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 जनवरी 2017
5604एच	नायब सूबेदार	लक्ष्मन सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	02 जून 2015
5783एन	नायब सूबेदार	जगतार सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	22 अगस्त 2015
5888एक्स	नायब सूबेदार	पुलविन्द्र सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	22 अक्तूबर 2015
6018एम	नायब सूबेदार	गुलजार सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	22 अक्तूबर 2015
6019पी	नायब सूबेदार	अशोक कुमार	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	05 मई 2016
6020के	नायब सूबेदार	राजविन्द्र सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	16 सितम्बर 2016
6193एफ	नायब सूबेदार	बलदेव राज	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	21 नवम्बर 2016
6285एन	नायब सूबेदार	यश पाल	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 फरवरी 2016
6290वाई	नायब सूबेदार	ओम प्रकाश वर्मा	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	15 फरवरी 2017
6100एफ	नायब सूबेदार	रंजीत कुमार सिंह	157 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख	12 सितम्बर 2016
5033पी	नायब सूबेदार	मूल चन्द	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	19 अक्तूबर 2006
5313पी	नायब सूबेदार	सतीश कुमार	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	24 जून 2010
5315एन	नायब सूबेदार	राजेश कुमार वर्मा	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	06 अगस्त 2012
5316डब्ल्यू	नायब सूबेदार	नेत्र पाल	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	06 अगस्त 2012
5137वाई	नायब सूबेदार	पी के पटनायक	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	01 सितम्बर 2012
5444एन	नायब सूबेदार	भूपेन्द्र पाल	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	13 फरवरी 2013
5445डब्ल्यू	नायब सूबेदार	राजेश पासवान	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	29 दिसम्बर 2014
5588डब्ल्यू	नायब सूबेदार	जगदीश कुमार	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	15 अप्रैल 2015
6221एच	नायब सूबेदार	सतीश चन्द्रा	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	23 अगस्त 2015
6222एल	नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	28 अगस्त 2015

6223एन	नायब सूबेदार	सन्तोष कुमार	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	23 अगस्त 2015
6624डब्ल्यू	नायब सूबेदार	उमेद सिंह	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	24 अगस्त 2015
6258के	नायब सूबेदार	परणबीर सिंह	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	22 दिसम्बर 2015
6342के	नायब सूबेदार	अशोक कुमार	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	12 अप्रैल 2017
6462एच	नायब सूबेदार	सतनारायण	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एण्ड एच) सिख लाई	05 जून 2017
5733एच	नायब सूबेदार	जगदम्बा प्रसाद शुक्ला	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	25 जुलाई 2014
6555एक्स	नायब सूबेदार	बी एस राय	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	16 जनवरी 2016
6088एल	नायब सूबेदार	मुकेश कुमार	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	28 जुलाई 2014
6130वाई	नायब सूबेदार	शिव कुमार सिंह	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	28 जुलाई 2014
6131एफ	नायब सूबेदार	अमीत थापा	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	14 अगस्त 2014
6132के	नायब सूबेदार	रितेश सेमवाल	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	14 अगस्त 2014
6162एफ	नायब सूबेदार	कृपा शंकर	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	18 दिसम्बर 2014
6163के	नायब सूबेदार	शक्वीर सिंह	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	18 दिसम्बर 2014
6202एक्स	नायब सूबेदार	मुकेश चन्द्रा त्रिपाठी	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	27 फरवरी 2015
6203ए	नायब सूबेदार	राकेश कुमार	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	22 जुलाई 2015
6254एन	नायब सूबेदार	जय प्रकाश शर्मा	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	01 नवम्बर 2015
6255डब्ल्यू	नायब सूबेदार	धर्मेन्द्र सिंह	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	01 नवम्बर 2015
6257एफ	नायब सूबेदार	वरक सेन कुमार	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	27 जनवरी 2016
6343एम	नायब सूबेदार	रमाकान्त	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	03 जून 2016
6344पी	नायब सूबेदार	नन्हे लाल यादव	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	21 नवम्बर 2016
6359एक्स	नायब सूबेदार	हरी सागर	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	28 नवम्बर 2016
6360एन	नायब सूबेदार	राज पाल सिंह	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	28 नवम्बर 2016
6416एन	नायब सूबेदार	देव राज	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	17 फरवरी 2017
6421वाई	नायब सूबेदार	विक्रम सिंह	114 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जाट)	09 मई 2016
5715ए	नायब सूबेदार	बिजय कुमार सतपती	120 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	20 अगस्त 2015
5833एन	नायब सूबेदार	दिब्यासिंह जैना	120 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	06 फरवरी 2016
6499के	नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	07 नवम्बर 2016
6543वाई	नायब सूबेदार	अजय कुमार झा	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	16 दिसम्बर 2016
6544एन	नायब सूबेदार	संजय कुमार	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	17 दिसम्बर 2016
6548एफ	नायब सूबेदार	होशियार सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	18 मार्च 2017
6549के	नायब सूबेदार	इन्द्र राज	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	20 मार्च 2017
5923पी	नायब सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्तूबर 2015
5924एक्स	नायब सूबेदार	जगदीश राज	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्तूबर 2015
5954पी	नायब सूबेदार	केहर सिंह	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्तूबर 2015
6030एन	नायब सूबेदार	जोगिन्द्र लाल	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्तूबर 2015

6071एच	नायब सूबेदार	कमल किशोर	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	20 नवम्बर 2015
6398डब्ल्यू	नायब सूबेदार	बोध राज	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	22 नवम्बर 2016
6194के	नायब सूबेदार	करण सिंह	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	04 जनवरी 2016
6307एफ	नायब सूबेदार	अश्विनी कुमार	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	05 अगस्त 2016
6108एन	नायब सूबेदार	धोजराज नवनाथ	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	04 फरवरी 2017
6160डब्ल्यू	नायब सूबेदार	शिन्धे दनयान्दो	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	04 फरवरी 2017
6275के	नायब सूबेदार	भावस्कर गजानन	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	30 जनवरी 2017
6189वाई	नायब सूबेदार	हनुमान सिंह तनवर	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	31 अक्टूबर 2015
6207डब्ल्यू	नायब सूबेदार	श्री विजय बहादुर सिंह	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	02 नवम्बर 2015
6233एक्स	नायब सूबेदार	श्री लखन लाल कुशवाहा	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	02 नवम्बर 2015
6319डब्ल्यू	नायब सूबेदार	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	10 जनवरी 2016
6320एल	नायब सूबेदार	श्री नरेन्द्र प्रसाद मिश्रा	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	18 जुलाई 2016
6346ए	नायब सूबेदार	श्री राजेन्द्र राजपूत	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	22 जून 2016
6419एफ	नायब सूबेदार	श्री जय राम पाण्डे	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	09 जुलाई 2016
6422एफ	नायब सूबेदार	श्री प्रमोद कुमार बालमिकि	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	17 जून 2016
6450एन	नायब सूबेदार	श्री राम लखन हरीजन	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	21 अक्टूबर 2016
6530एल	नायब सूबेदार	श्री प्रभाकर माने	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	24 दिसम्बर 2016
5968पी	नायब सूबेदार	रायमाने रुद्रनाथ मारुती	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	23 अप्रैल 2015
5997के	नायब सूबेदार	संखागोण्ड सुरेश कदप्पा	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	10 जुलाई 2015
6106के	नायब सूबेदार	मोरे अकरम बाबू	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	11 जनवरी 2016
6107एल	नायब सूबेदार	बीरादर मालकप्पा मालगोण्डा	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	12 जनवरी 2016
6195एम	नायब सूबेदार	पाटील रमेश श्रीपति	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	11 जनवरी 2016
6197एक्स	नायब सूबेदार	पाटील शिवाजी सदाशिव	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 फरवरी 2017
6219एल	नायब सूबेदार	आई मोहन राज	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	02 नवम्बर 2015
6286डब्ल्यू	नायब सूबेदार	बी अशोकन	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 फरवरी 2016
6386एफ	नायब सूबेदार	सन्तोष कुमार सी	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 जून 2016
6361पी	नायब सूबेदार	उमेश ए	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	10 अक्टूबर 2016
6345एक्स	नायब सूबेदार	जयप्रकाश एम	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	24 जुलाई 2016
5476डब्ल्यू	नायब सूबेदार	पगी पाण्डूरंग राया	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	14 जून 2012
5826एक्स	नायब सूबेदार	निनगप्पा गंगी	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	05 जून 2013
5921के	नायब सूबेदार	रामाप्पा कोहली	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	12 मार्च 2014
5975एल	नायब सूबेदार	इरप्पा हवलदार	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	10 नवम्बर 2014
5976एल	नायब सूबेदार	गोपाल पँवार	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	10 नवम्बर 2014
5984एम	नायब सूबेदार	पवनप्पा देसाई	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	01 मार्च 2015
6070ए	नायब सूबेदार	अर्जुन कोहले	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	05 जुलाई 2016
6336डब्ल्यू	नायब सूबेदार	संजय आन्नद	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	15 अक्टूबर 2016
6105ए	नायब सूबेदार	सतीश कुमार	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	10 दिसम्बर 2015

6262एम	नायब सूबेदार	देवराज सिंह	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	14 दिसम्बर 2015
6485के	नायब सूबेदार	राज कुमार	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	23 जुलाई 2016
6486एम	नायब सूबेदार	केदार यादव	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	23 जुलाई 2016
6487पी	नायब सूबेदार	बैजु वी आर	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	24 जुलाई 2016
6488एक्स	नायब सूबेदार	विनोद कुमार	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	20 अगस्त 2016
6489ए	नायब सूबेदार	वरुंगसे मचिन्दनाथ भैरव	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	23 जुलाई 2016
6490पी	नायब सूबेदार	मिलाप सिंह	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	23 अगस्त 2016
6491एक्स	नायब सूबेदार	वरुंगसे राजाराम दामोदर	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पारा	27 अक्टूबर 2016
5488एल	नायब सूबेदार	सेलवराज पी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	01 जुलाई 2016
5546के	नायब सूबेदार	मैथयू पी के	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	16 अक्टूबर 2016
5547एम	नायब सूबेदार	एम दुरासमी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	28 जुलाई 2010
5663एन	नायब सूबेदार	एन सुब्रमण्यम	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	08 दिसम्बर 2011
5798डब्ल्यू	नायब सूबेदार	वी रामचन्द्रन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	01 अक्टूबर 2012
5799वाई	नायब सूबेदार	पी पुन्नामूरती	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	22 अक्टूबर 2013
5800एच	नायब सूबेदार	गणेश टी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	22 अक्टूबर 2013
5801एल	नायब सूबेदार	ए गणानदूर्ई	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	22 अक्टूबर 2013
5885के	नायब सूबेदार	के जान केनडी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	13 फरवरी 2014
6154एच	नायब सूबेदार	एस धनाबालन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	27 सितम्बर 2014
6044एन	नायब सूबेदार	पी चिन्नाराज	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	21 नवम्बर 2014
6155एल	नायब सूबेदार	आर मदास्वामी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	07 अगस्त 2016
6269डब्ल्यू	नायब सूबेदार	टी गजेन्द्रन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	04 दिसम्बर 2015
6270एल	नायब सूबेदार	एम अगस्टन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	07 जनवरी 2017
6271एन	नायब सूबेदार	पी चिन्नाय	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	07 जनवरी 2017
3674एच	नायब सूबेदार	शेसराव मुरोदिया	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	01 अक्टूबर 1997
3675एल	नायब सूबेदार	चन्द्रकान्त तायडे	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	22 नवम्बर 1997
3923डब्ल्यू	नायब सूबेदार	विरेन्द्र सिंह	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	15 मई 2000
5294एच	नायब सूबेदार	मोहन सिंह	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	07 फरवरी 2012
5372पी	नायब सूबेदार	जगदीश अहीर	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	15 अक्टूबर 2012
5556एन	नायब सूबेदार	अंगीरा प्रसाद निवास तिवारी	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	02 नवम्बर 2012
5009एन	नायब सूबेदार	महिपाल सोनावाने	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	10 जनवरी 2014
6069ए	नायब सूबेदार	नवल किशोर शर्मा	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	21 अप्रैल 2014
5080वाई	नायब सूबेदार	सरजीत सिंह	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	12 जुलाई 2014
6166एक्स	नायब सूबेदार	राजेश कुमार देग	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	12 नवम्बर 2014
6167ए	नायब सूबेदार	सन्तोष कुमार येदे	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	14 मार्च 2015
6213के	नायब सूबेदार	रामनिवास खाटी	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	26 सितम्बर 2015
6299एन	नायब सूबेदार	श्रवण सिंह	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	01 सितम्बर 2016
6318एन	नायब सूबेदार	मनोज कुमार शर्मा	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	01 जुलाई 2016

6315ए	नायब सूबेदार	दशरथ लाल	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनिडियर्स	01 दिसम्बर 2016
4774ए	नायब सूबेदार	राजन पी वी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	13 मार्च 2006
5093के	नायब सूबेदार	मुरलीधरन ई	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	15 अगस्त 2016
5096एक्स	नायब सूबेदार	अरोकयास्वामी पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	15 अगस्त 2016
5099एल	नायब सूबेदार	गोविन्दन के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	16 नवम्बर 2009
5100पी	नायब सूबेदार	रामचन्द्रन एम	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	06 जनवरी 2010
5101एक्स	नायब सूबेदार	गोरगे पी एम	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	26 दिसम्बर 2010
5441ए	नायब सूबेदार	अशोकन पी एन पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	15 अगस्त 2016
5442एच	नायब सूबेदार	वरघोश सी जे	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 मई 2012
5443एल	नायब सूबेदार	सुधीर कुमार एम पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 मई 2012
5551पी	नायब सूबेदार	रवीनरण पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	20 मई 2014
5725के	नायब सूबेदार	पवित्रण पी के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	06 मार्च 2015
5819एफ	नायब सूबेदार	अरुण कुमार एन	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	06 मार्च 2015
5946डब्ल्यू	नायब सूबेदार	राय जोशफ	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	06 मार्च 2015
5987ए	नायब सूबेदार	प्रभाकरन ई वी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	10 जून 2015
6036पी	नायब सूबेदार	शाजी टी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	26 सितम्बर 2015
6037एक्स	नायब सूबेदार	विनोद कन्न्थ	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 अक्तूबर 2015
6109डब्ल्यू	नायब सूबेदार	कार्तीकेयन पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	12 जुलाई 2016
6110एल	नायब सूबेदार	कमलकशन पी वी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	12 जुलाई 2016
6321एन	नायब सूबेदार	प्रकाश के पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	04 नवम्बर 2016
6439पी	नायब सूबेदार	प्रदीप पी सी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	04 नवम्बर 2016
6440के	नायब सूबेदार	उन्नीकृष्णन पी के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	04 नवम्बर 2016
6441एम	नायब सूबेदार	सन्तोष वी वी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	04 नवम्बर 2016
6464एन	नायब सूबेदार	जयराज एम	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	04 नवम्बर 2016
5955एक्स	नायब सूबेदार	जी एस प्रमेशवर दयाल	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	01 अप्रैल 2013
6009एल	नायब सूबेदार	कोमलपती अदीआ	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	06 सितम्बर 2013
6216एक्स	नायब सूबेदार	राजेशवर रेड्डी एस	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	20 जून 2015
6218एच	नायब सूबेदार	सहदेवन जी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	01 नवम्बर 2015
6232पी	नायब सूबेदार	कुनापु देवादसु	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	01 मार्च 2016
6240एन	नायब सूबेदार	ई माधव रेड्डी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	01 अप्रैल 2016
6241डब्ल्यू	नायब सूबेदार	नरेश कुमार जी एम	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	01 दिसम्बर 2016
6385वाई	नायब सूबेदार/ क्लर्क	भास्कर सी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	26 अप्रैल 2016
6425वाई	नायब सूबेदार	पी जगत रेड्डी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	01 अप्रैल 2017
6433एन	नायब सूबेदार	चन्द्राला एल एन कुमार	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्ड्स	10 अगस्त 2017
5578एम	नायब सूबेदार	कुन्हीकृष्णन एम	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 दिसम्बर 2012
5579पी	नायब सूबेदार	एस रविचन्द्रन	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जनवरी 2014
5580के	नायब सूबेदार	एस के बच्चन	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जनवरी 2014

5581एम	नायब सूबेदार	दीवान सिंह दानु	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जनवरी 2014
5599एच	नायब सूबेदार	आर सी मारथा	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जनवरी 2014
5664एक्स	नायब सूबेदार	एस के मिश्रा	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	03 अगस्त 2013
5973ए	नायब सूबेदार	नन्दा किशोर सेट्टी	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 सितम्बर 2014
5986एक्स	नायब सूबेदार	सतेशन टीवी	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जून 2015
6077वाई	नायब सूबेदार	बिजू मारकोसे	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जून 2015
6169एल	नायब सूबेदार	सुदर्शन पात्रा	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	13 अक्टूबर 2015
6281एक्स	नायब सूबेदार	डी के सिंह	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 अगस्त 2016
6282ए	नायब सूबेदार	नारायण एम	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जनवरी 2017
6283एच	नायब सूबेदार	राय जोशफ	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 अप्रैल 2017
6547वाई	नायब सूबेदार	इन्द्र कुमार शर्मा	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	16 दिसम्बर 2016
5103एच	नायब सूबेदार	मुकेश गौड	414 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ए एस सी (मार्केटिंग)	21 नवम्बर 2003
4819पी	नायब सूबेदार	पी एन लेले	414 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ए एस सी (मार्केटिंग)	19 नवम्बर 2001
4818एम	नायब सूबेदार	अनुराग आर जाधव	414 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ए एस सी (मार्केटिंग)	16 सितम्बर 2001
5058ए	नायब सूबेदार	रमेश कोकाने	414 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ए एस सी (मार्केटिंग)	07 जुलाई 2003
5950वाई	नायब सूबेदार	बिशणु बीडीआर लिम्बू	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	15 मार्च 2011
5951एफ	नायब सूबेदार	लालजान	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	15 मार्च 2011
5952के	नायब सूबेदार	बिशवजित सिन्हा	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	15 मार्च 2011
6023एक्स	नायब सूबेदार	एल श्यामल के आर सिन्हा	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	27 सितम्बर 2011
6170ए	नायब सूबेदार	ए रोमियो सिंह	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	21 नवम्बर 2012
6243एफ	नायब सूबेदार	नगेलचुंगगुनुंग	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	15 जुलाई 2013
6469एम	नायब सूबेदार	निरमल दास	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	12 जून 2015
5904के	नायब सूबेदार	डी सुन्दरया	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	08 नवम्बर 2010
5983के	नायब सूबेदार	डीएस परमार	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	20 जून 2011
6049के	नायब सूबेदार	गुरुदेव भूवनागीरी	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	01 जनवरी 2012
6350एच	नायब सूबेदार	बाबुल राजबोनगशी	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	23 अगस्त 2014
6358पी	नायब सूबेदार	परमेश्वर दास	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	22 सितम्बर 2014
6382एल	नायब सूबेदार	गणपत प्रसाद यादव	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	05 नवम्बर 2014

6383एन	नायब सूबेदार	जाकीर हुसैन चौधरी	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	05 नवम्बर 2014
6435वाई	नायब सूबेदार	केशव पातर	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	23 मार्च 2015
6514एन	नायब सूबेदार	नरेन्द्र सिंह	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	23 सितम्बर 2015
6562एन	नायब सूबेदार	मनोज प्रसाद यादव	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (एच एंड एच) आसाम	11 जनवरी 2016
6534एफ	नायब सूबेदार	उमा शंकर यादव	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 दिसम्बर 2017
6555एक्स	नायब सूबेदार/क्लर्क	बिवाव शंकर राय	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	16 जनवरी 2017
6570एम	नायब सूबेदार	टुनटुन प्रसाद गुप्ता	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 मार्च 2018
6608एल	नायब सूबेदार	अभय वीर सिंह	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 मार्च 2018

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने को अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

नायब सूबेदार पद पर सीधे नियुक्ति

वर्तमान टी.जे.नं.	नाम	यूनिट	कब से
5728एक्स	श्री घन श्याम	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राज रिफ	31 जनवरी 2009
6267एल	एक्स सूबेदार जगबीर सिंह	132 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इको राजपूत	30 दिसम्बर 2016
6268एन	एक्स नायब सूबेदार करण सिंह यादव	132 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इको राजपूत	30 दिसम्बर 2016
5892ए	एक्स सूबेदार सतीश कुमार	133 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इको डोगरा	07 जुलाई 2015
5893एच	एक्स सूबेदार बलराज सिंह	133 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इको डोगरा	07 जुलाई 2015
5953एम	एक्स सूबेदार गगन सिंह	133 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इको डोगरा	07 जुलाई 2015
6624एच	एक्स नायब सूबेदार अशोक कुमार बराओ	133 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इको डोगरा	31 मई 2016
5786एफ	श्री नगेन्द्र सिंह	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	01 मई 2016
5787के	श्री दानियल सिंह	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	01 जुलाई 2009
5788एम	श्री विपुल नौटियाल	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	02 जुलाई 2009
5790के	श्री अशोक कुमार	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	01 जुलाई 2009
5908ए	श्री जशवंत सिंह	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	06 सितम्बर 2010
5909एच	श्री सतीश गोंडवाल	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	06 सितम्बर 2010
6238डब्ल्यू	श्री कन्हीया लाल मीणा	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	16 अगस्त 2012
6274एच	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	25 सितम्बर 2015
6250एक्स	श्री सुनील प्रसाद बहुगुणा	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	01 अगस्त 213
6563डब्ल्यू	श्री अनील कुमार	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	01 फरवरी 2016
5598डब्ल्यू	श्री बी सुब्बुरमन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	01 नवम्बर 2017
6694डब्ल्यू	श्री अमेन्द्रा शर्मा	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	15 मार्च 2016
6625एल	एक्स सूबेदार/क्लर्क सदाशिवन के	128 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना इकोराज रिफ	16 मई 2016

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने को अनुमति प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

नायब सूबेदार बनाया जाता है

आर्मी नं.	वर्तमान टी.जे.नं.	रैंक	नाम	यूनिट	कब से
10466992एम	6327पी	हवलदार	लोक राज	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	21 जून 2014
10466987एफ	6328एक्स	हवलदार	हरजिन्दर सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	21 जून 2014
10466953एन	6329ए	हवलदार	सुधिर सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	21 जून 2014
10466956एफ	6415एल	हवलदार	तरसिम सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	15 जून 2015
10467138एच	6584एम	हवलदार	विक्रम सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	22 फरवरी 2016
10467134डब्ल्यू	6585पी	हवलदार	सतबीर सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	22 फरवरी 2016
10467169एम	6586एक्स	हवलदार	राजेन्द्र पाल	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	22 फरवरी 2016
10467211ए	6638एच	हवलदार	हेम राज	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	14 जुलाई 2016
10467251एफ	6690एल	हवलदार	महाबीर	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	24 अक्टूबर 2016
10467318पी	6691एन	हवलदार	गजेन्द्र दत्त	102 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	18 नवम्बर 2016
10480422एफ	6390के	हवलदार	यशवीर सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	26 नवम्बर 2014
10480450एन	6411पी	हवलदार	सुरजीत सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख) लाई	03 जनवरी 2015
10480655एच	6556ए	हवलदार	एमानोल	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	21 जून 2014
10480650के	6616के	हवलदार	अरुण कुमार	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	21 जून 2014
10480651एम	6617एम	हवलदार	कुलदीप सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	21 जून 2014
10480714के	6715एल	हवलदार	यश पाल सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	15 जून 2015
104680739डब्ल्यू	6748एक्स	हवलदार	जगजीत सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	22 फरवरी 2016
10135290एच	6086ए	हवलदार	देवन्द्र कुमार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	22 फरवरी 2016
10135289वाई	6115के	हवलदार	राम किशन	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	22 फरवरी 2016
10135346पी	6122ए	हवलदार	अजीत सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	14 जुलाई 2016
10135347एक्स	6136ए	हवलदार	गुलाब सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	24 अक्टूबर 2016
10135348ए	6142एन	हवलदार	नरेश कुमार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	18 नवम्बर 2016
10135713डब्ल्यू	6178एम	हवलदार	सुरेन कुमार माझी	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	26 नवम्बर 2014
10135451एल	6179पी	हवलदार	शेर सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	03 जनवरी 2015
10135777पी	6291एफ	हवलदार	विरेन्द्र	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	11 अक्टूबर 2013

10135665एफ	6293एम	हवलदार	महेश सिंह राठौर	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	15 फरवरी 2014
10135686एक्स	6332ए	हवलदार	जोगिन्दर सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	06 जुलाई 2014
10135693एन	6396एल	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	24 नवम्बर 2014
10135702के	6397एन	हवलदार	महावीर सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	24 नवम्बर 2014
10135715एफ	6420डब्ल्यू	हवलदार	राज वीर सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	23 जनवरी 2015
10135726एन	6430ए	हवलदार	रामावतार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	22 फरवरी 2015
10135759वाई	6515डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	05 जनवरी 2015
10135767एक्स	6516वाई	हवलदार	जुगल किशोरे	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	09 सितम्बर 2015
10135830एम	6587ए	हवलदार	आन्नद कुमार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	24 फरवरी 2016
10135859के	6588एच	हवलदार	जितेन्द्र कुमार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	24 फरवरी 2016
10135925एफ	6592एल	हवलदार	राजेश कुमार	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	12 मार्च 2016
10135858एफ	6663एफ	हवलदार	विजय कुमार तिवारी	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	01 सितम्बर 2016
10135881पी	6664के	हवलदार	भगवान सिंह यादव	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	01 सितम्बर 2016
10135866ए	6665एम	हवलदार	सुभाष सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (राज रिफ)	05 सितम्बर 2016
10198683वाई	6557एच	हवलदार	सतीश कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	30 दिसम्बर 2015
10198686एम	6576एन	हवलदार	रेशम सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	16 फरवरी 2016
10198690पी	6577डब्ल्यू	हवलदार	लाभ सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	16 फरवरी 2016
10198692ए	6578वाई	हवलदार	संजीव कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	12 फरवरी 2016
10198715डब्ल्यू	6579एफ	हवलदार	विजय कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	11 फरवरी 2016
10198729डब्ल्यू	6623ए	हवलदार	दलबीर सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	07 जून 2016
10198725ए	6646एफ	हवलदार	बलविन्द्र सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	30 जुलाई 2016
10198751एफ	6647के	हवलदार	दीप कुमार	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	30 जुलाई 2016
10198802के	6671ए	हवलदार	रविन्द्र सिंह	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	10 सितम्बर 2016
10198814वाई	6672ए	हवलदार	महान वीर	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोगरा)	10 सितम्बर 2016
10315116के	6126डब्ल्यू	हवलदार	महाबीर सिंह	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	11 जून 2012
10315316ए	6165के	हवलदार	राज कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	22 अक्तूबर 2012
10315216एफ	6276एम	हवलदार	धर्मपाल	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	21 दिसम्बर 2013
10315387एफ	6287वाई	हवलदार	प्रमोद कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	26 जनवरी 2014

10315478एल	6334एल	हवलदार	हरभजन सिंह	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	12 जुलाई 2014
10315498एक्स	6341एफ	हवलदार	सतीश	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	02 सितम्बर 2014
10315499एफ	6519एम	हवलदार	किरण कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	28 अक्टूबर 2015
10315571एम	6538एक्स	हवलदार	हर्षपती	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 दिसम्बर 2015
10315493ए	6539ए	हवलदार	त्रिलोक चन्द	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 दिसम्बर 2015
10315496एन	6540पी	हवलदार	आन्नद सिंह	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 दिसम्बर 2015
10315567के	6575एल	हवलदार	शोकेन्द्र सिंह	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	24 फरवरी 2016
10315486के	6694एफ	हवलदार	हेम राज	112 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (डोंगरा)	01 नवम्बर 2016
10315495एल	6695के	हवलदार	सतीश कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 नवम्बर 2016
10315502एल	6696एम	हवलदार	राकेश कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	03 नवम्बर 2016
10315509एल	6697पी	हवलदार	देवा नन्द	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 नवम्बर 2016
10315642एच	6698एक्स	हवलदार	सुशील कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 नवम्बर 2016
10315617के	6727एफ	हवलदार	सतपाल कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	02 जनवरी 2017
10362228पी	6220ए	हवलदार	वकील राज	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	01 मई 2013
10362522पी	6413ए	हवलदार	नानक चन्द	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	13 जनवरी 2015
10362530एन	6414एच	हवलदार	हरदेव सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	13 जनवरी 2015
10362533एफ	6526एच	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	06 अक्टूबर 2015
10362539एच	6527एल	हवलदार	सेवा सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	06 अक्टूबर 2015
10362562डब्ल्यू	6568पी	हवलदार	मोहीन्द्र सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	14 जनवरी 2016
10362563वाई	6569वाई	हवलदार	जोगिन्दर पाल	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	14 जनवरी 2016
10362572ए	6607एच	हवलदार	दर्शन लाल	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	23 अप्रैल 2016
10362691डब्ल्यू	6602के	हवलदार/ क्लर्क	करण वीर सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (जैक रिफ)	12 अप्रैल 2016
10167188एक्स	6634एम	हवलदार	देश राज	150 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	17 जून 2016
10467480एम	6637ए	हवलदार/ क्लर्क	नरेन्द्र कुमार	150 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	06 जुलाई 2016
10467208ए	6631के	हवलदार	वजीर सिंह	150 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	29 दिसम्बर 2016
10466608वाई	6000डब्ल्यू	हवलदार	जय वीर	150 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (पंजाब)	29 दिसम्बर 2016
10315274वाई	6330पी	हवलदार	गयान चन्द	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	30 जून 2014
10315528एल	6444ए	हवलदार	विनोद कुमार	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	30 मार्च 2015
10315650एफ	6507एक्स	हवलदार	सतनाम सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	22 अगस्त 2015
10315482एन	6550वाई	हवलदार	जय चन्द	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 जनवरी 2016
10480761एफ	6551एफ	हवलदार	रतन सिंह	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना (सिख)	01 जनवरी 2016
10315638ए	6552के	हवलदार	अनुरुद्ध प्रसाद	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख	01 जनवरी 2016

10315649एम	6610एच	हवलदार	रतन चन्द	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख	01 जून 2016
10315689एन	6686एच	हवलदार	धन्नजय प्रसाद	152 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख	01 नवम्बर 2016
10291244वाई	6510एक्स	हवलदार	शिवदसन कोठारोन	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	09 अगस्त 2015
10291412एन	6511ए	हवलदार	कार्तिकेय एम	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	29 अगस्त 2015
10480230के	6512एच	हवलदार	कुलवन्त सिंह	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	29 अगस्त 2015
10315080डब्ल्यू	6558एल	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	06 जनवरी 2016
10315224एन	6559एन	हवलदार	राकेश कुमार सिंह	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	06 जनवरी 2016
10260477ए	6650के	हवलदार	एस के साहु	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	15 अगस्त 2016
10291414वाई	6714के	हवलदार	ओमानाकुत्तन	158 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना सिख लाई	06 दिसम्बर 2016
12371535	5758पी	हवलदार	जे पी उप्पल	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	01 सितम्बर 2009
12085315	5773के	हवलदार	विजय कुमार उप्पल	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	01 सितम्बर 2009
12031403	5794ए	हवलदार	अशोक कुमार	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	08 नवम्बर 2010
12024478	5856पी	हवलदार	संजय कुमार शर्मा	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	06 सितम्बर 2010
12031425	5857एक्स	हवलदार	तिलक राज	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	06 सितम्बर 2010
12367930	5858ए	हवलदार	डी एस परमार	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	06 सितम्बर 2010
12367934	5859एच	हवलदार	हंस राज	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	07 जुलाई 2010
12367965	5860एक्स	हवलदार	अवनेश चंदेर	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	08 फरवरी 2011
12368000	5862एच	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	07 जुलाई 2010
12368001	5863एल	हवलदार	सुबे सिंह	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	06 सितम्बर 2010
12371562	5969एक्स	हवलदार	विजय कुमार	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	05 सितम्बर 2011
12367952	5970एम	हवलदार	संजीव कुमार	1101 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना	05 सितम्बर 2011
10260530ए	6503एफ	हवलदार	शयद जुमेर रहमान	120 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	20 अगस्त 2015
10260594एल	6573ए	हवलदार	अरक्षीता कुन्तीआ	120 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	29 जनवरी 2016
10390361एन	6500एन	हवलदार	श्री राकेश	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	20 अगस्त 2015
10406113के	65291डब्ल्यू	हवलदार	अनील कुमार तिवारी	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	12 अक्टूबर 2015
10390430वाई	6639एल	हवलदार	नगेन्द्र प्रसाद मिश्रा	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	19 जुलाई 2016
10390450एम	6640ए	हवलदार	पंच राज सिंह	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	19 जुलाई 2016
10390478एम	6687एल	हवलदार	रूप चंद पटेल	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	10 अक्टूबर 2016
10390488डब्ल्यू	6688एन	हवलदार	अमीत कुमार त्रिपाठी	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	10 अक्टूबर 2016

10390571एन	6689डब्ल्यू	हवलदार	मथयेश सिलवेशटर	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	10 अक्टूबर 2016
10505183एल	6741एन	हवलदार/ क्लर्क	राजीव कुमार झा	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	17 जनवरी 2017
10390587वाई	6773डब्ल्यू	हवलदार	श्री सज्जन यादव	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	01 अप्रैल 2017
10274965एन	6787ए	हवलदार	अनुप सिंह	151 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जाट	30 जून 2017
10198824एच	6600वाई	हवलदार	हरजीत सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	04 अप्रैल 2016
10480812के	6603एम	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	01 मई 2016
10480840डब्ल्यू	6604डब्ल्यू	हवलदार	लीलू राम जाट	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	18 मई 2016
10525122पी	6605एक्स	हवलदार	सरवेश तिवारी	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	01 मई 2016
10525129वाई	6606ए	हवलदार	ब्रह्म दत्त शर्मा	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	04 मई 2016
10525130एन	6703एक्स	हवलदार	बलिन्द्र सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	04 नवम्बर 2016
10525142एच	6704ए	हवलदार	परशोत्तम सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	16 नवम्बर 2016
10525156एच	6778पी	हवलदार	रवि सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना डोगरा	01 मई 2016
10362519पी	6353डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	27 अगस्त 2016
10362584पी	6407एम	हवलदार	परमजीत सिंह	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	30 दिसम्बर 2014
10362537एक्स	6522एम	हवलदार	सतपाल	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्टूबर 2015
10362602एम	6523पी	हवलदार	विजय कुमार	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्टूबर 2015
10362623एच	6524एक्स	हवलदार	नरेन्द्र सिंह	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्टूबर 2015
10362652एक्स	6525ए	हवलदार	नरेन्द्र कुमार	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	01 अक्टूबर 2015
10362664एक्स	6537पी	हवलदार	शरण दास	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	20 नवम्बर 2015
10362667ए	6564वाई	हवलदार	यादव चन्द	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	11 जनवरी 2016
10362749एक्स	6654ए	हवलदार	राजेन्द्र कुमार	155 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना जैक रिफ	05 अगस्त 2016
10119980एन	6108एन	हवलदार	भोजराव नवनाथ	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	03 मई 2012
10120067वाई	6160डब्ल्यू	हवलदार	सिंधे दयानंदो	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	03 अक्टूबर 2012
10120077डब्ल्यू	6275के	हवलदार	भावसकर गजानन	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	04 दिसम्बर 2013
10119999एम	6072ए	हवलदार	सलुंके रंजीव	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	01 दिसम्बर 2011
10120221ए	6448डब्ल्यू	हवलदार	उत्तेकर मुकेश	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	18 अप्रैल 2015
10120108एल	6449वाई	हवलदार	घाडगे वैजिनाथ	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	18 अप्रैल 2015
10120146एफ	6465डब्ल्यू	हवलदार	भौरा राजेन्द्र	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	12 जून 2015
10120145वाई	6574एच	हवलदार	अहिरे संदीप	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	10 फरवरी 2016
10120209एच	6595वाई	हवलदार/ क्लर्क	नायक किरण	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	26 मार्च 2016
10120173एल	6721ए	हवलदार	रनखम्ब वेंकेट	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 जनवरी 2017

10120224एन	6722एच	हवलदार	भौरै नन्दकुमार	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 जनवरी 2017
10120232एम	6723एल	हवलदार	घोगे सचिन	101 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 जनवरी 2017
10390371के	6531एन	हवलदार	श्री गजराज सिंह लोधी	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	06 नवम्बर 2015
10390509एफ	6565एफ	हवलदार	दिनेश कुमार दिगरशे	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	20 जनवरी 2016
10390468एच	6566के	हवलदार	धरम पाल	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	16 जनवरी 2016
10390323एच	6626एन	हवलदार	श्री मोहन सिंह	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	10 जून 2016
10390469एल	6627डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद रहीम खान	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	20 जून 2016
10390535एच	6628वाई	हवलदार	गोविन्द प्रसाद यादव	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	09 जुलाई 2016
10390541डब्ल्यू	6629एफ	हवलदार	राजीव लोचन पटेल	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	10 जून 2016
10390542वाई	6630वाई	हवलदार	लीलाधर कुशवाहा	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	11 जून 2016
10390428एफ	6680वाई	हवलदार	राज कुमार पटेल	108 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	21 अक्टूबर 2016
10150374वाई	6196पी	हवलदार	महादेव शंकर पाटील	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	19 फरवरी 2013
10150698के	6310एफ	हवलदार	बोडेकर गणपत साहु	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	01 अप्रैल 2014
10150570वाई	6446एल	हवलदार	मरदानेशिवाजी केशव	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	08 अप्रैल 2015
10150523एफ	6447एन	हवलदार	बारावाकर भगवान बबन	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	08 अप्रैल 2015
10150529एच	6460एक्स	हवलदार	पाटील दत्तात्रेय आन्नदा	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	16 मई 2015
10150552डब्ल्यू	6482डब्ल्यू	हवलदार	पाटील तनाजी हिन्दूराव	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	21 जुलाई 2015
10150586के	6614वाई	हवलदार	सावंत राजेश विठ्ठल	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	15 जून 2016
10150615एन	6674एन	हवलदार	पाटील संजु पाण्डुरंग	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	24 सितम्बर 2016
10150606एम	6675डब्ल्यू	हवलदार	सालवी शमराओ विठोबा	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	24 सितम्बर 2016
10150622के	6749ए	हवलदार	पवार मंगेश मारुती	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 फरवरी 2017
10150623एम	6750पी	हवलदार	मानेअनाशो बच्चाराम	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 फरवरी 2017
10150626ए	6751एक्स	हवलदार	अवगडे संजय पाण्डुरंग	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	14 फरवरी 2017
10150641पी	6752ए	हवलदार	उदादे अन्तेशवर तातेराव	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 फरवरी 2017

10150646एन	6753एच	हवलदार	नायक उत्तम बिकाजी	109 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मराठा लाई	09 फरवरी 2017
10166728ए	6219एल	हवलदार	आई मोहन राज	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	08 अप्रैल 2013
10166736वाई	6286डब्ल्यू	हवलदार	बी अशोकन	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	20 जनवरी 2014
10166944एन	6386एफ	हवलदार	संतोष कुमार सी	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	31 अक्टूबर 2014
10166803वाई	6361पी	हवलदार	उमेश ए	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 अक्टूबर 2014
10166756एम	6345एक्स	हवलदार	जयप्रकाश एम	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	23 जून 2016
10166929वाई	6535के	हवलदार	एन नल्लामनी	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	30 नवम्बर 2015
10166898के	6561एल	हवलदार	साजी जोशफ	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	11 नवम्बर 2016
10166951डब्ल्यू	6699ए	हवलदार	विजया कुमार पी एम	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	31 अक्टूबर 2016
10166952डब्ल्यू	6700के	हवलदार	सुरेश कुमार पी	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	31 अक्टूबर 2016
10166959डब्ल्यू	6733पी	हवलदार	एम जोथीश कुमार	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	31 अक्टूबर 2016
10166964एफ	6734एक्स	हवलदार	के वी अजेश	110 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	30 दिसम्बर 2016
10421117एक्स	6337वाई	हवलदार	राजू कुम्बर	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	13 जुलाई 2014
10421247पी	6338वाई	हवलदार	बाबू पाटील	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	13 जुलाई 2014
10421212के	6354वाई	हवलदार	केमपन्ना पाटील	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	01 अक्टूबर 2014
10421219एन	6461ए	हवलदार	अन्नासाहेब पाटील	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	01 जून 2015
10421214पी	6536एम	हवलदार	सुरेश यक्कुण्डी	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	29 अक्टूबर 2016
10505293ए	6599पी	हवलदार	विकास कुमार मिश्रा	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	14 अप्रैल 2016
10421241वाई	6673एल	हवलदार	शेखर पाटील	115 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना महार	29 सितम्बर 2016
10437611एक्स	6546डब्ल्यू	हवलदार	तेली अन्ना काशीनाथ	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	15 दिसम्बर 2015
10437547एल	6553एम	हवलदार	शिंधे विलास दादा	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	22 दिसम्बर 2015
10437572के	6554एन	हवलदार	लगाड सुभाष श्रीरंग	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	22 दिसम्बर 2015
10437677एन	6661डब्ल्यू	हवलदार	कदभाने बाबन आन्नदा	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	23 अगस्त 2016
10437698के	6662वाई	हवलदार	बोराडे सोपान कच्छेश्वर	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	23 अगस्त 2016
10437560पी	6692डब्ल्यू	हवलदार	शेवारे हिरामन नामदेव	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	21 अक्टूबर 2016
10437719पी	6693वाई	हवलदार	भोनडागे मारुती त्रिमबक	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	21 अक्टूबर 2016
10437701वाई	6717एक्स	हवलदार	पागर मासू त्रिमबक	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	08 दिसम्बर 2016
10437574पी	6742डब्ल्यू	हवलदार	सोनावाने प्रमोद गणपत	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	19 जनवरी 2017
10437624पी	6743वाई	हवलदार	तुपके विठ्ठल दादा	116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरा	01 फरवरी 2017
10452474एफ	5488एल	हवलदार	शेलवराज पी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	23 अक्टूबर 2006
10452517एल	5546के	हवलदार	मैथ्यू पीके	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	25 अप्रैल 2007

10452502एच	5547एम	हवलदार	एम दुरास्वामी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	25 अप्रैल 2007
10452586एफ	5663एन	हवलदार	एन सुब्रमन्यम	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	25 जुलाई 2008
10452640के	5798डब्ल्यू	हवलदार	वी रामाचन्द्रन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	26 अक्टूबर 2009
10452682डब्ल्यू	5799वाई	हवलदार	पी पुनीमुरती	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	26 अक्टूबर 2009
10452577ए	5800एच	हवलदार	गणेश टी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	26 अक्टूबर 2009
10452677एल	5801एल	हवलदार	ए गणानाडुरई	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	26 अक्टूबर 2009
10452623के	5885के	हवलदार	के जॉन केन्नडी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	28 जुलाई 2010
10452778वाई	6154एच	हवलदार	सी धनाबालन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	16 सितम्बर 2012
10452726वाई	6044एन	हवलदार	पी चिन्नाराज	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	08 दिसम्बर 2011
10452820एम	6155एल	हवलदार	आर मादास्वामी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	05 अक्टूबर 2012
10452825एल	6269डब्ल्यू	हवलदार	टी गजेन्द्रन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	09 नवम्बर 2013
10452807एच	6270एल	हवलदार	एम आगस्टीन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	09 नवम्बर 2013
10452840ए	6271एन	हवलदार	पी चिन्नाऊ	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	09 नवम्बर 2013
10452899ए	6475ए	हवलदार	एम विजयराजन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	27 जून 2015
10452903एक्स	6476एच	हवलदार	एस जेम्स पप्पू एक्सडरनन्दन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	27 जून 2015
10452905एच	6477एल	हवलदार	एस मुरुगनानन्दन	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	27 जून 2015
10452954एल	6761एफ	हवलदार	ए रामालिंगम	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	18 फरवरी 2017
10452968एल	6762के	हवलदार	वेंकेटसन आर	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	18 फरवरी 2017
10452969एन	6763एम	हवलदार	एस मुथुरामु	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	18 फरवरी 2017
10452974वाई	6764पी	हवलदार	राजू पी	117 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	18 फरवरी 2017
10228267एम	6339के	हवलदार	प्रमोद कनोजे	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	01 जनवरी 2017
10228274एच	6384डब्ल्यू	हवलदार	माल सिंह	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	29 अक्टूबर 2017
10228200एन	6445ए	हवलदार	जशवंत सिंह गोधरा	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	01 मार्च 2015
10228211ए	6541एक्स	हवलदार	शिव कुमार शर्मा	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	01 अगस्त 2015
10228304पी	6679एम	हवलदार	प्रवीण कुमार ठाकरे	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	01 जुलाई 2016
10228278वाई	6711डब्ल्यू	हवलदार	महिन्द्र सिंह	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	01 सितम्बर 2016
10228302के	6767एच	हवलदार	हरेन्द्र टेकम	118 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना ग्रेनेडियर्स	01 जनवरी 2017
10291447के	6518के	हवलदार	सतीशन पी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	26 सितम्बर 2015
10291711एम	6542ए	हवलदार	अभिलाश एके	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 अक्टूबर 2015
10291493वाई	6641एच	हवलदार	विजू सी के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 अगस्त 2016
10291502एल	6642एल	हवलदार	राजन के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 अगस्त 2016
10291518ए	6643एन	हवलदार	प्रवीण कुमार पी वी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 अगस्त 2016
10291730एक्स	6644डब्ल्यू	हवलदार	रामेशन के के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	18 जुलाई 2016
10291525डब्ल्यू	6705एच	हवलदार/ क्लर्क	सुजीश कुमार के के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 नवम्बर 2016
10291528के	6706एल	हवलदार	बीजू के जी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 नवम्बर 2016
10291536एच	6707एन	हवलदार	सीरजीथ के एस	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 नवम्बर 2016

10291543वाई	6708डब्ल्यू	हवलदार	विनोदन के वी	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	09 नवम्बर 2016
10291623के	6712वाई	हवलदार	राजेश के	122 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना मद्रास	01 दिसम्बर 2016
10329187डब्ल्यू	5955एक्स	हवलदार	जी एस प्रमेशवर दयाल	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	22 मार्च 2011
10329244एम	6009एल	हवलदार	कोमालपती अदीया	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	01 सितम्बर 2011
10329240डब्ल्यू	6216एक्स	हवलदार	राजेशवर रेड्डी एस	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	08 अप्रैल 2013
10329260के	6218एच	हवलदार	सहदेवन जी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	08 अप्रैल 2013
10329271डब्ल्यू	6232पी	हवलदार	कुनापु देवादसु	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	18 जून 2013
10329290एफ	6240एन	हवलदार	ई महादेव रेड्डी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	05 जुलाई 2013
10329301एच	6241डब्ल्यू	हवलदार	नरेश कुमार जी एम	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	05 जुलाई 2013
10329551के	6385वाई	हवलदार	भास्कर सी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	03 नवम्बर 2014
10329295ए	6425पी	हवलदार/	पी जगत रेड्डी	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	05 फरवरी 2015
10329351एन	6433एन	क्लर्क	चन्द्राला एल एन कुमार	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	25 फरवरी 2015
10329398वाई	6533वाई	हवलदार	बी गोपाल	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	03 नवम्बर 2015
10329382के	6590ए	हवलदार	एल बालामाशर्मा	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	01 मार्च 2016
10329350एल	6601एफ	हवलदार	एन श्रीनिवासुलु	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	08 अप्रैल 2016
10329452एफ	6720एक्स	हवलदार	वी विकास कुमार	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	22 दिसम्बर 2016
10329496वाई	6780एम	हवलदार	जोगा राव कूना	125 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना गार्डस	22 अप्रैल 2017
10260349एच	6169एल	हवलदार	सुदर्शन पात्रा	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 दिसम्बर 2012
10260419डब्ल्यू	6281एक्स	हवलदार	डी के सिंह	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	08 जनवरी 2014
10291367एम	6282ए	हवलदार	नारायण एम	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	08 जनवरी 2014
10291377डब्ल्यू	6283एच	हवलदार	राय जोशफ	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	08 जनवरी 2014
10260461पी	6284एल	हवलदार	के सी प्रधान	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	08 जनवरी 2014
10260465एल	6298एल	हवलदार	राजकिशोर रथ	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	19 फरवरी 2014
10260617एफ	6371वाई	हवलदार	मुधाकार जानी	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	19 सितम्बर 2014
102660674एच	6468के	हवलदार	मनोज समल	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 जून 2015
10260635के	6467एफ	हवलदार	राजलाल सोरन	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	03 जून 2015
10260605एम	6513एल	हवलदार	जे पी मानसिंह	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	08 सितम्बर 2015
10228273ए	6547वाई	हवलदार	इन्द्र कुमार शर्मा	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	11 दिसम्बर 2015
10260753एक्स	6649एन	हवलदार	जे एन महान्ता	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 अगस्त 2016
10260760एन	6754एल	हवलदार/ क्लर्क	पदमालोचन नायक	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	08 फरवरी 2017
10267067एक्स	6779एक्स	हवलदार	रमेश कुमार सिंह	154 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना बिहार	01 मई 2017
12867034एल	4521एल	हवलदार	के एन देशाई	414 ए एस सी मार्केटिंग प्रादेशिक सेना	03 जुलाई 1998
10245569पी	6483वाई	हवलदार	भारत दखार	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	27 जुलाई 2015
10245573एक्स	6484एफ	हवलदार	एम प्रिया कुमार सिंह	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	23 जुलाई 2015
10245578डब्ल्यू	6492ए	हवलदार	एल भोगेन सिंह	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	01 अगस्त 2015
10245594एन	6493एच	हवलदार	दिपेन पटगिरी	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	05 अगस्त 2015

10245689एन	6676वाई	हवलदार	दिलिप सिन्हा	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	01 सितम्बर 2016
10245713एक्स	6494एल	हवलदार	एस के पान्डब	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	01 अगस्त 2015
10245702एन	6677एफ	हवलदार	बासुदेब देव	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	01 सितम्बर 2015
10245738एल	6746एम	हवलदार/ क्लर्क	जिम सेंकली	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	01 फरवरी 2017
10245740एच	6747पी	हवलदार	बाबुल कुमार नाथ	119 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना आसाम	01 फरवरी 2017
10274940एफ	6613डब्ल्यू	हवलदार	एस के सिंह	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	19 मई 2016
10198815एफ	6648एम	हवलदार	काका राम	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	19 अगस्त 2016
10260515एल	6652पी	हवलदार/ क्लर्क	साहिद महापात्रा	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	19 अगस्त 2016
10260527ए	6653एक्स	हवलदार	सत्यनारायण	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	19 अगस्त 2016
10245543ए	6651एम	हवलदार	बाबुल सी एच देब	166 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	20 अगस्त 2016
10182530एल	6656एल	हवलदार	राजबीर सिंह यादव	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 अगस्त 2016
10182531एन	6657एन	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 अगस्त 2016
10182570एम	6769एन	हवलदार	राम कुमार	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 जनवरी 2017
10182574एच	6770एच	हवलदार	मनीष कुमार	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 जनवरी 2017
10182631वाई	6830एम	हवलदार	उदय प्रताप सिंह	111 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना कुमाऊ	01 दिसम्बर 2017
10374783पी	6631वाई	हवलदार	सी बी थापा	164 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	15 फरवरी 2016
10535129एम	6758एफ	हवलदार	सत्यजीत पात्रा	164 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	21 दिसम्बर 2016
10535343पी	6768एल	हवलदार	कोशिक सेन	164 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	14 मार्च 2017
10245796पी	6781पी	हवलदार	ए के सिन्हा	164 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना एच एंड एच आसाम	28 अप्रैल 2017

सुदर्शन कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

नियमित सेना

कोर आफ मिलिट्री पुलिस

सं. 05, दिनांक 7 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

सूबेदार मेजर (सेना पुलिस) के रैंक में

सूबेदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	(जेसी 819125एन)	1 जनवरी 2014
सूबेदार	प्रकाशन टी	(जेसी 819182पी)	1 मार्च 2014
सूबेदार	महाबीर सिंह नेगी	(जेसी 819187एन)	1 मार्च 2014

सूबेदार	नरेश कुमार	(जेसी 819195एम)	1 अप्रैल 2014
सूबेदार	नवाले लक्ष्मण जोतिराम	(जेसी 819206एन)	1 अप्रैल 2014
सूबेदार	राम देव सिंह	(जेसी 819286डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2014
सूबेदार	जितेन्द्र कुमार सिंह	(जेसी 819348एल)	1 अप्रैल 2014
सूबेदार	राजेश कुमार यादव	(जेसी 819341एफ)	1 जुलाई 2014
सूबेदार	ज्योतिरमोय नन्दा	(जेसी 819343एम)	1 सितम्बर 2014
सूबेदार	धरमपाल सिंह	(जेसी 819360एम)	1 सितम्बर 2014
सूबेदार	राघव राम सिंह	(जेसी 819368वाई)	1 नवम्बर 2014
सूबेदार	सुरेश कुमार फोगाट	(जेसी 819125एन)	1 जनवरी 2015
सूबेदार	होशियार सिंह	(जेसी 819259एम)	1 फरवरी 2015
सूबेदार	चथुकुट्टी थेका दवन	(जेसी 819326एम)	1 मई 2015
सूबेदार	हरि शंकर सिंह	(जेसी 819342के)	23 मई 2015*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
सूबेदार	शीश राम मुनिया	(जेसी 819369एफ)	1 जुलाई 2015
सूबेदार	रामस्वरूप बगारिया	(जेसी 819346ए)	1 जुलाई 2015
सूबेदार	दिलीप कुमार सक्सेना	(जेसी 819398डब्ल्यू)	1 अगस्त 2015
सूबेदार	नीला कंडन के	(जेसी 819406के)	1 सितम्बर 2015
सूबेदार	स्वपन कुमार दास	(जेसी 819405एफ)	1 अक्टूबर 2015
सूबेदार	दिनेश कुमार सिंह	(जेसी 819449वाई)	1 जनवरी 2016
सूबेदार	गोबिन्द कुमार तिवारी	(जेसी 819453एफ)	1 फरवरी 2016
सूबेदार	एम नन्दा मोहन सिंघा	(जेसी 819462एच)	1 फरवरी 2016
सूबेदार	सुरेन्द्र पाल सिंह	(जेसी 819491एक्स)	1 जुलाई 2016
सूबेदार	लीला राम सैनि	(जेसी 819496डब्ल्यू)	1 अगस्त 2016
सूबेदार	तारा चन्द यादव	(जेसी 819498एफ)	1 अगस्त 2016
सूबेदार	जाधव शंकर रामा चन्द्र	(जेसी 819499के)	1 अगस्त 2016
सूबेदार	सत्या पाल	(जेसी 819500एन)	1 नवम्बर 2016
सूबेदार	शीश राम	(जेसी 819505एम)	1 दिसम्बर 2016

सूबेदार मेजर (लिपिक : एस डी) के रैंक में

सूबेदार	राम प्रताप	(जेसी 818744पी)	1 फरवरी 2014
सूबेदार	पी जयकरन	(जेसी 819146के)	1 जुलाई 2014
सूबेदार	अपूर्वा चन्द्र घोष	(जेसी 819188डब्ल्यू)	1 जून 2015
सूबेदार	समर पाल सिंह	(जेसी 819296ए)	1 अक्टूबर 2016

सूबेदार (सेना पुलिस) के रैंक में

नायब सूबेदार	गोधान सिंह बिष्ट	(जेसी 819506पी)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	जे पी मिश्रा	(जेसी 819508ए)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	रघुभन्श कुमार सिंह	(जेसी 819509एच)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	विरेंद्र सिंह	(जेसी 819514एन)	1 जनवरी 2014

नायब सूबेदार	अखिलेश शुक्ला	(जेसी 819515डब्ल्यू)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	नरेश कुमार	(जेसी 819516वाई)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	ओमबीर सिंह	(जेसी 819517पी)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	दिलीप कुमार वी	(जेसी 819518के)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	तारसेम लाल	(जेसी 819519एम)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	अभिजीत कुमार	(जेसी 819520एफ)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	सुरेश चन्द सिंह	(जेसी 819521के)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	अबिनाश सिंह	(जेसी 819528एन)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	हरेन्द्र एस चौहान	(जेसी 819527एल)	1 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	नन्दा राम	(जेसी 819529डब्ल्यू)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	पुरुषोत्तम पी	(जेसी 819530एल)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	के एच कुशर्ण भाईबीबी	(जेसी 819531एन)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	विमल प्रकाश सिंह	(जेसी 819532डब्ल्यू)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	(जेसी 819533वाई)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	एस शंकर कडेमनी	(जेसी 819534एफ)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	महेन्द्र सिंह यादव	(जेसी 819537पी)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	सरूप सिंह	(जेसी 819538एक्स)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	पेरमेन्द्र कुमार	(जेसी 819539ए)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	रजी जी	(जेसी 819540पी)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	एस के उपाध्याय	(जेसी 819536एम)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	भगत राम देवरा	(जेसी 819541एक्स)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	राधे श्याम पाठक	(जेसी 819542ए)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	जी वरघेसे यू	(जेसी 819543एच)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	घन श्याम सिंह	(जेसी 819544एल)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सुराकेसल रेड्डी	(जेसी 819545एन)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	मांगे राम	(जेसी 819546डब्ल्यू)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	मुकेश कुमार	(जेसी 819547वाई)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	मलखान सिंह	(जेसी 819548एफ)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	मोहन कुमार बीएस	(जेसी 819553एम)	1 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सफीउर रहमान	(जेसी 819554पी)	18 मार्च 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	कमल सिंह	(जेसी 819555एक्स)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	राज कुमार चेची	(जेसी 819556ए)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	एस काली गौडान	(जेसी 819557एच)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुना श्रीनिवासा राव	(जेसी 819558एल)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	के पी त्रिपाठी	(जेसी 819559एन)	7 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	एस के सब्रति	(जेसी 819560एच)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	रामदुलर सिंह	(जेसी 819561एल)	4 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2014 से दी जाती है)			

नायब सूबेदार	एस के चतुर्वेदि	(जेसी 819562एन)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	पटेल गामा श्यामदेव	(जेसी 819563डब्ल्यू)	3 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	एम वेंकट रेड्डी	(जेसी 819567एम)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	राज कुमार पंडित	(जेसी 819568पी)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	ए नारायणा स्वामी	(जेसी 819569एक्स)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	राम पाल	(जेसी 819570एम)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	बी हेमा चन्द्र रेड्डी	(जेसी 819571पी)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	ओंकार नाथ मिश्रा	(जेसी 819572एक्स)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	मनोज कुमार	(जेसी 819573ए)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	रोहतास सिंह	(जेसी 819577डब्ल्यू)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	हरिद्वार राय	(जेसी 819578वाई)	5 मई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	दिलीप सिंह खाती	(जेसी 819581वाई)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	ढेलाईय्य	(जेसी 819583के)	1 मई 2014
नायब सूबेदार	अलाउद्दीन मिया	(जेसी 819584एम)	6 जून 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	संजय कुमार	(जेसी 819585पी)	1 जून 2014
नायब सूबेदार	एन प्रसाद त्रिवेदी	(जेसी 819586एक्स)	1 जून 2014
नायब सूबेदार	श्री राम यादवा	(जेसी 819587ए)	2 जून 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	स्वामी नाथ गुप्ता	(जेसी 819589एल)	1 जून 2014
नायब सूबेदार	बिम्बन चन्द्र रॉय	(जेसी 819590ए)	1 जून 2014
नायब सूबेदार	ए के दुबे	(जेसी 819591एच)	1 जून 2014
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	(जेसी 819595वाई)	30 जून 2014
नायब सूबेदार	दिनेशन के वी	(जेसी 819596एफ)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	भागमल	(जेसी 819598एम)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	सीता राम	(जेसी 819600वाई)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	अमरेश कुमार	(जेसी 819602के)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	चावडा जे भगवान	(जेसी 819603एम)	7 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	गंगा सागर सिंह	(जेसी 819601एफ)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	वाई जे के दलपत सिंह	(जेसी 819599पी)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	बलेश कुमार	(जेसी 819597के)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	विजय प्रसाद	(जेसी 819604पी)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	ए के शर्मा	(जेसी 819605एक्स)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	एन बी वीरा रेड्डी	(जेसी 819608एल)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	मनमोहन राम शर्मा	(जेसी 819609एन)	7 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			

नायब सूबेदार	बिरेन्द्र कुमार	(जेसी 819610एच)	10 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	विरेंद्र सिंह	(जेसी 819611एल)	10 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	राज मनी	(जेसी 819612एन)	2 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	जस्विन्दर सिंह	(जेसी 819613डब्ल्यू)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सथीसन टी	(जेसी 819614वाई)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	धनसेकर एस	(जेसी 819615एफ)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	बजरंग सिंह एस	(जेसी 819617एम)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	उपेन कलिटा	(जेसी 819618पी)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	प्रेम दत्त	(जेसी 819624एच)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	गाइक्वाड पांडुरंग ए	(जेसी 819616के)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सादिक खान	(जेसी 819619एक्स)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	रखल चन्द्र कोले	(जेसी 819620एम)	21 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	ब्रिज नन्दन मिश्रा	(जेसी 819623ए)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	प्रभाकर चतुर्वेदि	(जेसी 819625एल)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार मिश्रा	(जेसी 819626एन)	23 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार सिंह	(जेसी 819627डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	श्याम पाल सिंह	(जेसी 819628वाई)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	बीर बहदूर यादवा	(जेसी 819629एफ)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	रामानुज पांडे	(जेसी 819632एफ)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	आर तिरुपति	(जेसी 819634एम)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	जय नारायन ठाकुर	(जेसी 819635पी)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	अरयेन्द्र पाल सिंह	(जेसी 819637ए)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	डी पी चौबे	(जेसी 819638एच)	9 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	जबर सिंह	(जेसी 819641एच)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	क्षेत्रा मोहन होटा	(जेसी 819642एल)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	महेंदर कुमार	(जेसी 819643एन)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	लक्ष्मन सिंह	(जेसी 819630डब्ल्यू)	11 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	महंत कुमार नामदेव	(जेसी 819639एल)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	भंवर लाल	(जेसी 819633के)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	दिलीप कुमार राय	(जेसी 819645वाई)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	भुवनेश्वर पाठक	(जेसी 819640ए)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	सूजित कुमार नाथ	(जेसी 819644डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2014

नायब सूबेदार	राम केश	(जेसी 819646एफ)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	रोहताश	(जेसी 819636एक्स)	1 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	वी संथाना कृष्णन	(जेसी 819535के)	2 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	शिव जानम मिश्रा	(जेसी 819647के)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	प्रेम कुमार एन	(जेसी 819648एम)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	प्रसन्ता कुमार नायक	(जेसी 819649पी)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	राम बिनोद शर्मा	(जेसी 819650के)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	रेजि जोसफ	(जेसी 819651एम)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	थीमाइयाह सी जी	(जेसी 819652पी)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	लाकेस्वर बारुआ	(जेसी 819653एक्स)	1 अक्तूबर 2014
नायब सूबेदार	धरम पाल सिंह	(जेसी 819654ए)	1 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	गोपु सी	(जेसी 819655एच)	1 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	पलवरपु श्रीहरि	(जेसी 819656एल)	1 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	रघु नाथ साहू	(जेसी 819657एन)	1 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	राधा चरण शर्मा	(जेसी 819658डब्ल्यू)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	राजा राम यादव	(जेसी 819659वाई)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार उपाध्याय	(जेसी 819660एन)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	जय कुमार सिंह	(जेसी 819661डब्ल्यू)	9 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	उदई प्रताप	(जेसी 819666पी)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	गजराज सिंह	(जेसी 819662वाई)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	जय प्रकाश शुक्ला	(जेसी 819664के)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	अखिलेश कुमार सिंह	(जेसी 819665एम)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	संजीवन पी वी	(जेसी 819667एक्स)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	स्योम पाल सिंह	(जेसी 819668ए)	15 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	श्री राजा राम	(जेसी 819669एच)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	बिरेन्द्र कुमार सिंह	(जेसी 819670एक्स)	1 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	कृशन कुमार	(जेसी 819671ए)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	राम चंदर	(जेसी 819672एच)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार मण्डल	(जेसी 819673एल)	5 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार सिंह	(जेसी 819674एन)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	आदर्श कुमार	(जेसी 819675डब्ल्यू)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	भनवर सिंह राजपूत	(जेसी 819676वाई)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	पाटिल जीवा भाई बदर भाई	(जेसी 819678के)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	मुपपला सिवा राव	(जेसी 819679डब्ल्यू)	29 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2015 से दी जाती है)			

नायब सूबेदार	अरुंदर कुमार धर दुबे	(जेसी 819680एफ)	6 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	दुलाल राय चौधरी	(जेसी 819683पी)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	शाम राव कोकातिकर	(जेसी 819684एक्स)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	जनार्दन प्रसाद सिंह	(जेसी 819686एच)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	सजीव वी	(जेसी 819687एल)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	पटेल फतेसिंह बोड़ाभाई	(जेसी 819685ए)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	जय कुमार	(जेसी 819677एफ)	12 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	दीना दयालन सी	(जेसी 819688एन)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	राजा कसब मुलतानी	(जेसी 819695के)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	अर्जुन सिंह	(जेसी 819690एल)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	महावीर सिंह	(जेसी 819691एन)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	राम निवास	(जेसी 819694एफ)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	मोती लाल	(जेसी 819696एम)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	सर्वेश कुमार	(जेसी 819704ए)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	राजेंद्र कुमार प्रजापति	(जेसी 819705एच)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	गुलजारी लाल साहू	(जेसी 819717एक्स)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	तलगापु वसुदेवु	(जेसी 819719एच)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	राम प्रताप	(जेसी 819723एल)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	रस्मी रंजन कर	(जेसी 819724एन)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार वी	(जेसी 819728के)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	ई एडु कौंडालु	(जेसी 819697पी)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	राम पाल सिंह	(जेसी 819699ए)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	पूरन सिंह	(जेसी 819707एन)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	उम्मेद सिंह	(जेसी 819706एल)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	ठाकुर प्रसाद	(जेसी 819710एन)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	हिरामनी प्रसाद	(जेसी 819712वाई)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	जाट प्रभु सिंह रतन सिंह	(जेसी 819722एच)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	विद्या भूसन त्रिपाठी	(जेसी 819701एम)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	रोहताश यादव	(जेसी 819702पी)	3 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	सुखबीर सिंह	(जेसी 819703एक्स)	1 फरवरी 2015

नायब सूबेदार	राधाकृष्ण पिल्लई	(जेसी 819711डब्ल्यू)	10 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	बलवींदर सिंह	(जेसी 819718ए)	2 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	सिया राम	(जेसी 819721ए)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	(जेसी 819713एफ)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	सुरेशन पी पी	(जेसी 819729एम)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	जय प्रकाश सिंह	(जेसी 819730एफ)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	नीमे चन्द्र रोय	(जेसी 819732एम)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	चितरंजन शर्मा	(जेसी 819738एन)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	दिलीप कुमार सिंह	(जेसी 819739डब्ल्यू)	2 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	कंवर पाल	(जेसी 819740एल)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	राम चन्द्र मिश्रा	(जेसी 819741एन)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	लक्ष्मनन कोयतन	(जेसी 819742डब्ल्यू)	2 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	(जेसी 819745के)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	किशोरी कुमार नायक	(जेसी 819746एम)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	सुधांशु शाखेर	(जेसी 819747पी)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	रवींद्र सिंह	(जेसी 819751एक्स)	1 मार्च 2015
नायब सूबेदार	शेष नाथ यादवा	(जेसी 819753एच)	2 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	रुपेन्द्र कुमार सिंह	(जेसी 819754एल)	2 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	देवेन्द्र कुमार सिंह	(जेसी 819755एन)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	अंजनी कुमार यादव	(जेसी 819759के)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	मौ. जावेद अख्तर	(जेसी 819760वाई)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	(जेसी 819765एक्स)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	विजय कुमार	(जेसी 819770एच)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार सिंह	(जेसी 819777एम)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	दिनकर ठाकुर	(जेसी 819767एच)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	थंगवेलु के	(जेसी 819768एल)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	एम सी जयचंद्र	(जेसी 819769एन)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	लक्ष्मी प्रसाद	(जेसी 819774वाई)	10 अप्रैल 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	अमूल्य सरकार	(जेसी 819775एफ)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	रमन कुमार चौधरी	(जेसी 819776के)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	हैंदर बैग	(जेसी 81779एक्स)	16 अप्रैल 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			

नायब सूबेदार	संजय कुमार	(जेसी 819787डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	सुभाष चंद	(जेसी 819791वाई)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	मोहम्मद जमाल	(जेसी 819792एफ)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	लक्ष्मन सिंह पनवर	(जेसी 819778पी)	15 अप्रैल 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	मनोज कुमार आर्य	(जेसी 819773डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार राय	(जेसी 819788वाई)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	देवेन्द्र सिंह देवोरि	(जेसी 819789एफ)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	सुरेंद्र सिंह	(जेसी 819790डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	विजय सिंह	(जेसी 819793के)	1 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	बरोट अरविंद भाई जाशु भाई	(जेसी 819794एम)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	सत्येंद्र कुमार	(जेसी 819795पी)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	विनोद कुमार शर्मा	(जेसी 819802ए)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	शिव सिंह गुर्जर	(जेसी 819803एच)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	राम नारायण	(जेसी 819805एन)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	रविन्द्रन के वी	(जेसी 819806डब्ल्यू)	2 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	सत्यविर सिंह	(जेसी 819807वाई)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	श्याम प्रकाश पांडे	(जेसी 819808एफ)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	शंकर शर्मा	(जेसी 819812के)	16 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	इंदरजीत सिंह	(जेसी 819804एल)	15 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	अरविंद कुमार मिश्रा	(जेसी 819813एम)	1 जून 2015
नायब सूबेदार	मनी राम	(जेसी 819814पी)	1 जून 2015
नायब सूबेदार	अजय कुमार पाठक	(जेसी 819815एक्स)	1 जून 2015
नायब सूबेदार	सुरेन्द्रन एम बी	(जेसी 819816ए)	1 जून 2015
नायब सूबेदार	सूखा राम बंगरा	(जेसी 819817एच)	2 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	अमर सिंह	(जेसी 819819एन)	1 जून 2015
नायब सूबेदार	सर्तेंद्र कुमार	(जेसी 819820एच)	1 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	धनविर सिंह	(जेसी 819766ए)	2 जुलाई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	महेंद्र सिंह	(जेसी 819821एल)	1 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	एन वेंकटेश्वरा राव	(जेसी 819822एन)	1 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	बिस्वजित दास	(जेसी 819823डब्ल्यू)	5 अगस्त 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	जिऔल करीम	(जेसी 819825पी)	1 अगस्त 2015

नायब सूबेदार	जयराजन के वी	(जेसी 819826के)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	जबबर खान संभारिया	(जेसी 819829एक्स)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	विलसन पी जे	(जेसी 819831पी)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	मनोज कुमार कुमावत	(जेसी 819834एच)	8 अगस्त 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	यादव सुल्तान सिंह रामनारायन	(जेसी 819836एन)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार दास	(जेसी 819828पी)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	प्रसांत कुमार पांडा	(जेसी 819830एम)	3 अगस्त 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	प्रवाश कुमार राय	(जेसी 819835एल)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	राजू पी पी	(जेसी 819824वाई)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	सरवैया महेन्द्र सिंह भोज राज सिंह	(जेसी 819797ए)	14 अगस्त 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	जीवन कुमार मंडल	(जेसी 819796एक्स)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	ललित मोहन	(जेसी 819827एम)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	राजमनीकम जे	(जेसी 819832एक्स)	8 अगस्त 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	ब्रज नन्दन प्रसाद पटेल	(जेसी 819837डब्ल्यू)	8 अगस्त 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	बीजित कुमार बोराह	(जेसी 819838वाई)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	एस मुरुगेसन	(जेसी 819840डब्ल्यू)	15 सितम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	सुभाष सिंह	(जेसी 819841वाई)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	ओम दुत्त शर्मा	(जेसी 819842एफ)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	ब्रिजेश कुमार दुबे	(जेसी 819843के)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	मुरारि प्रसाद यादव	(जेसी 819844एम)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	आरुन कुमार मैती	(जेसी 819845पी)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	मोहन लाल	(जेसी 819848एच)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	खोट प्रकाश मनोहर	(जेसी 819849एल)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	सुशील कुमार	(जेसी 819852एल)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	बिजू पी एस	(जेसी 819854डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	अजित कुमार मिश्रा	(जेसी 819846एक्स)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	पवन कुमार	(जेसी 819851एच)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	विंध्याचल सिंह कुशवाहा	(जेसी 819847ए)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	(जेसी 819855वाई)	23 सितम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	बारिया तखत सिंह चन्द्र सिंह	(जेसी 819856एफ)	1 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	अनिल कुमार एन के	(जेसी 819857के)	1 अक्टूबर 2015

नायब सूबेदार	सलेंदर सिंह	(जेसी 819858एम)	1 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	देवेन्द्र कुमार उपाध्याय	(जेसी 819859पी)	1 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	मोहन कुमार सिंह	(जेसी 819860के)	1 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	मनोज कुमार सिंह	(जेसी 819861एम)	1 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	रंजीत कुमार सिंह	(जेसी 819862पी)	2 नवम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	मुनेन्द्र नारायणा सिंह	(जेसी 819863एक्स)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	मोहम्मद ओबैदुल इस्लाम	(जेसी 819864ए)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	अशोक कुमार मेहता	(जेसी 819865एच)	2 नवम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	राम जीत यादवा	(जेसी 819867एन)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	इन्द्र कमल तमूति	(जेसी 819868डब्ल्यू)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	उमेश सिंह	(जेसी 819870एन)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	सत्येन्द्र कुमार	(जेसी 819871डब्ल्यू)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	बिरेन्द्र प्रसाद	(जेसी 819873एफ)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	सतेन्द्र सिंह नेगि	(जेसी 819874के)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	अमर कुमार सिंह	(जेसी 819869वाई)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	देवेन्द्र सिंह	(जेसी 819872वाई)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम अवतार मिश्रा	(जेसी 819875एम)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार परिदा	(जेसी 819866एल)	1 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	गिरधारी लाल ठाकुर	(जेसी 819876पी)	1 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	निषाद घनश्याम गंगाराम	(जेसी 819877एक्स)	1 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	रवींद्र पाई	(जेसी 819878ए)	1 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	प्रतापन के	(जेसी 819879एच)	1 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	(जेसी 819881ए)	1 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	गिजी वी जे	(जेसी 819882एच)	1 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	अंबिका प्रसाद तिवारी	(जेसी 819883एल)	10 दिसम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	बिष्णु राम नाथ	(जेसी 819880एक्स)	14 दिसम्बर 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	दयानन्द	(जेसी 819884एन)	1 जनवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	किशन सिंह	(जेसी 819886वाई)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	मृत्युंजोय चौधरी	(जेसी 819887एफ)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	जगनारायन दास	(जेसी 819888के)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	श्रीदेव यादव	(जेसी 819890एफ)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	रामाधर चौधरी	(जेसी 819891के)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	रणवीर सिंह	(जेसी 819892एम)	1 जनवरी 2016

नायब सूबेदार	प्रेमानन्दा सरकार	(जेसी 819893पी)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	राम मणि दुबे	(जेसी 819894एक्स)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	विजयन के वी	(जेसी 819895ए)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	भूपिंदर सिंह	(जेसी 819896एच)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	एम प्रेम कुमार सिंह	(जेसी 819885डब्ल्यू)	1 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	राजीव कुमार	(जेसी 819897एल)	7 जनवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	तीर्थ राज यादव	(जेसी 819898एन)	1 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	चन्द्र भान यादवा	(जेसी 819900ए)	1 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	राजेश कुमार सिंह	(जेसी 819901एच)	1 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	गोरख नाथ यादवा	(जेसी 819902एल)	1 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	एम वी चेरियन	(जेसी 819903एन)	1 मार्च 2016
नायब सूबेदार	छाबि नाथ सिंह यादव	(जेसी 819899डब्ल्यू)	10 फरवरी 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	के सी दिनेश	(जेसी 819904डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	गोविन्द किशोर	(जेसी 819905वाई)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	श्याम सिंह जाट	(जेसी 819907के)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	सतेन्द्र कुमार	(जेसी 819908एम)	6 अप्रैल 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	मौनिजी पांडे	(जेसी 819910के)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	राजेश कुमार झा	(जेसी 819909पी)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	पूंदारे राम तुकाराम	(जेसी 819911एम)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	डी आरोकिया सामी	(जेसी 819912पी)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	शिव सागर	(जेसी 819906एफ)	13 अप्रैल 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	चिवाटे संजय गुरुनाथ	(जेसी 819915एच)	1 मई 2016
नायब सूबेदार	विडुल गुगरट्टी	(जेसी 819916एल)	1 मई 2016
नायब सूबेदार	ए बालमुरुगन	(जेसी 819917एन)	1 जून 2016
नायब सूबेदार	गौरि दनमाइयाह	(जेसी 819918डब्ल्यू)	8 जुलाई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	मेजनूर रहमान	(जेसी 819919वाई)	1 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	शशि पाल सिंह	(जेसी 819920एन)	1 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	नारायण बनेर्जी	(जेसी 819921डब्ल्यू)	1 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	वेंकटेशन बी	(जेसी 819922वाई)	9 अगस्त 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	राम चन्द्र	(जेसी 819923एफ)	1 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सुशील चन्द्र डे	(जेसी 819924के)	1 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	(जेसी 819925एम)	1 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	मुंढे सूर्यकान्त नागो राव	(जेसी 819926पी)	1 नवम्बर 2016

नायब सूबेदार	मुनेन्द्र कलिटा	(जेसी 819927एक्स)	1 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	मोहन सिंह शेखावत	(जेसी 819929एच)	1 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	अजय कुमार सिंह	(जेसी 819928ए)	1 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	हिरनमोय मण्डल	(जेसी 819930एक्स)	1 दिसम्बर 2016

सूबेदार (म्यूजिक) के रैंक में

नायब सूबेदार	लक्ष्मीधर महापात्रा	(जेसी 819780एम)	18 नवम्बर 2016*
--------------	---------------------	-----------------	-----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जाती है)

सूबेदार (लिपिक : एस डी) के रैंक में

नायब सूबेदार	विजयेन्द्र कुरूप के	(जेसी 819682एम)	1 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद यादव	(जेसी 819692डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सतीश चन्द्र शर्मा	(जेसी 819693वाई)	21 मई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्र	(जेसी 819700के)	1 जून 2014
नायब सूबेदार	चेतन्य राव सिंह	(जेसी 819708डब्ल्यू)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	सोनलाल साह	(जेसी 819709वाई)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	आलोक कुमार मैति	(जेसी 819714के)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	धनंजय दाइमरी	(जेसी 819716पी)	1 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	रमाकान्त यादव	(जेसी 819720एक्स)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	किसन सिंह	(जेसी 819725डब्ल्यू)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	पाटिल सुरेश बरुकु	(जेसी 819726वाई)	1 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	शंकारलाल पातीदार	(जेसी 819727एफ)	6 अक्टूबर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	लिछमना राम चौधरी	(जेसी 819733पी)	1 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	राधे श्याम	(जेसी 819734एक्स)	1 फरवरी 2015
नायब सूबेदार	शशि भूसन शितांशु	(जेसी 819735ए)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	राम अवतार बोयल	(जेसी 819736एच)	12 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	गौरि शंकर भादु	(जेसी 819737एल)	1 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार	कुंवर सिंह	(जेसी 819744एफ)	1 मई 2015
नायब सूबेदार	राजेश कुमार बाजपई	(जेसी 819750पी)	24 जुलाई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	एन अरुल राज	(जेसी 819752ए)	13 जून 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2015 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	विजय पाल नागर	(जेसी 819758एफ)	1 जुलाई 2015
नायब सूबेदार	सुरेंद्र सिंह	(जेसी 819761एफ)	1 अगस्त 2015
नायब सूबेदार	मथुरा प्रसाद पटेल	(जेसी 819762के)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	बलबीर महला	(जेसी 819763एम)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	बोलाडे दीपक कृष्ण	(जेसी 819764पी)	1 सितम्बर 2015
नायब सूबेदार	देवा नन्द यादव	(जेसी 819771एल)	1 अक्टूबर 2015

नायब सूबेदार	अशोक कुमार गौड़ा	(जेसी 819772एन)	1 मार्च 2016
नायब सूबेदार	चन्द्र भूषन गुप्ता	(जेसी 819781पी)	1 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार सिंह	(जेसी 819782एक्स)	1 जून 2016
नायब सूबेदार	अशोक कुमार यादव	(जेसी 819738ए)	4 जून 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	ए पुष्पा राज	(जेसी 819785एल)	8 जुलाई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	राकेश कुमार त्रिपाठी	(जेसी 819784एच)	21 जून 2016*
नायब सूबेदार	गुलाब सिंह	(जेसी 819786एन)	1 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार अहलावत	(जेसी 819798एच)	1 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	देबाशीश सेन	(जेसी 819799एल)	1 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	बहोरन सिंह	(जेसी 819800पी)	3 अक्टूबर 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जाती है)			
नायब सूबेदार	खेनत किरण ज्ञानदेव	(जेसी 819801एक्स)	1 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	मोरे मंगेश काशीराम	(जेसी 819810वाई)	1 दिसम्बर 2016

नायब सूबेदार (सेना पुलिस) के रैंक में

हवलदार	अनिल कुमार वी	(नं. 7775714एच अब जेसी 819728के)	2 अप्रैल 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2013 से दी जाती है)			
हवलदार	सुरेशन पीपी	(नं. 7775829डब्ल्यू अब जेसी 819729एम)	1 अप्रैल 2012
हवलदार	जय प्रकाश सिंह	(नं. 7775704क्स अब जेसी 819730एफ)	1 अप्रैल 2012
हवलदार	राम गोपाल शर्मा	(नं. 7775739पी अब जेसी 819731के)	1 अप्रैल 2012
हवलदार	निमय चन्द्र रोय	(नं. 7775756पीअब जेसी 819732एम)	1 मई 2012
हवलदार	चितरंजन शर्मा	(नं. 7775795एनअब जेसी 819738एन)	1 जुलाई 2012
हवलदार	दिलीप कुमार सिंह	(नं. 7775871पी अब जे. सी. 819739डब्ल्यू)	1 जुलाई 2012
हवलदार	कनवर पाल	(नं. 7775889एल अब जेसी 819740एल)	1 जुलाई 2012
हवलदार	रामचंद्रा मिश्रा	(नं. 7775741एम अब जेसी 819741एन)	1 अगस्त 2012
हवलदार	लक्ष्मनन कोयटन	(नं. 7775830एलअब जेसी 819742डब्ल्यू)	1 अगस्त 2012
हवलदार	पटेल भूपेंद्र कुमार छोटाभाई	(नं. 7775786एम अब जेसी 819743ई)	1 अगस्त 2012
हवलदार	अशोक कुमार	(नं. 7775891एच अब जेसी 819745 के)	1 सितम्बर 2012
हवलदार	किशोर कुमार नायक	(नं. 7775895वाई अब जेसी 819746एम)	1 सितम्बर 2012
हवलदार	सुधेंशु शेखर	(नं. 7775901एफ अब जेसी 819747पे)	1 सितम्बर 2012
हवलदार	बिरेन्द्र प्रसाद	(नं. 7776431एन अब जेसी 819873एफ)	1 जनवरी 2014
हवलदार	सतेन्द्र सिंह नेगी	(नं. 7776434एफ अब जेसी 819874के)	1 जनवरी 2014
हवलदार	राम अवतार मिश्रा	(नं. 7776436एम अब जेसी 819875एम)	1 जनवरी 2014
हवलदार	गिरधारी लाल ठाकुर	(नं. 7776351डब्ल्यू अब जेसी 819876पी)	1 जनवरी 2014
हवलदार	निशाद घनश्याम गंगाराम	(नं. 7776367एफ अब जेसी 819877के)	1 जनवरी 2014
हवलदार	रवींद्र पाई	(नं. 7776385के अब जेसी 819878ए)	1 जनवरी 2014
हवलदार	प्रतापन के	(नं. 7776428एन अब जेसी 819879एच)	1 जनवरी 2014

हवलदार	बिष्णु राम नाथ	(नं. 7776456ए अब जेसी 819880क्स)	1 जनवरी 2014
हवलदार	अशोक कुमार	(नं. 7776470एम अब जेसी 819881ए)	1 जनवरी 2014
हवलदार	गिगी वी जे	(नं. 7776478वाई अब जेसी 819882एच)	8 जनवरी 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	अम्बिका प्रसाद तिवारी	(नं. 7776540ए अब जेसी 819883एल)	1 जनवरी 2014
हवलदार	दयानन्द	(नं. 7776546एफ अब जेसी 819884एन)	1 जनवरी 2014
हवलदार	एम प्रेम कुमार सिंह	(नं. 7776535पी अब जे. सी.819885डब्ल्यू)	1 जनवरी 2014
हवलदार	किशन सिंह	(नं. 7776576वाई अब जेसी 819886वाई)	1 जनवरी 2014
हवलदार	मृत्युंजय चौधुरी	(नं. 7776582एम अब जेसी 819887एफ)	3 जनवरी 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	जगनारायन दास	(नं. 7776588एन अब जेसी 819888क्स)	1 जनवरी 2014
हवलदार	श्रीदेव यादव	(नं. 7776602पी अब जेसी 819890एफ)	1 फरवरी 2014
हवलदार	रामधर चौधरी	(नं. 7776603क्स अब जेसी 819891के)	1 फरवरी 2014
हवलदार	रणवीर सिंह	(नं. 7776404के अब जेसी 819892एम)	1 फरवरी 2014
हवलदार	प्रेमानंद सरकार	(नं. 7776581के अब जेसी 819893पी)	1 फरवरी 2014
हवलदार	राम मनी दुबे	(नं. 7776593वाई अब जे. सी.819894एक्स)	1 फरवरी 2014
हवलदार	विजयन के वी	(नं. 7776628के अब जेसी 819895ए)	1 फरवरी 2014
हवलदार	भूपिन्दर सिंह	(नं. 7776633पी अब जेसी 819896एच)	1 फरवरी 2014
हवलदार	राजिव कुमार	(नं. 7776636एच अब जेसी 819897एल)	1 फरवरी 2014
हवलदार	तीर्थ राज यादव	(नं. 7776640एल अब जेसी 819898एन)	1 फरवरी 2014
हवलदार	छबि नाथ सिंह यादव	(नं. 7776694एम अब जे. सी.819899डब्ल्यू)	1 फरवरी 2014
हवलदार	चन्द्र भान यादवा	(नं. 7776695पी अब जेसी 819900ए)	1 फरवरी 2014
हवलदार	राजेश कुमार सिंह	(नं. 7776701एक्स अब जे. सी.819901एक्स)	1 मार्च 2014
हवलदार	गोरख नाथ यादवा	(नं. 7776692एफ अब जेसी 819902एल)	1 मार्च 2014
हवलदार	एम वी चेरियन	(नं. 7776594एफ अब जेसी 819903एन)	1 मार्च 2014
हवलदार	के सी दिनेश	(नं. 7776637एल अब जेसी 819904डब्ल्यू)	1 मार्च 2014
हवलदार	गोविंद किशोर	(नं. 7776662के अब जेसी 819905वाई)	1 मार्च 2014
हवलदार	शिव सागर	(नं. 7776664पी अब जेसी 819906एफ)	1 मार्च 2014
हवलदार	श्याम सिंह जाट	(नं. 7776665एक्स अब जेसी 819907के)	1 मार्च 2014
हवलदार	सतेन्द्र कुमार	(नं. 7776709के अब जेसी 819908एम)	18 नवम्बर 2014
हवलदार	राजेश कुमार झा	(नं. 7776676के अब जेसी 819909पी)	1 मार्च 2014
हवलदार	मौनजी पांडे	(नं. 7776710वाई अब जेसी 819910के)	1 मार्च 2014
हवलदार	पन्डारे राम तुकाराम	(नं. 7776686एन अब जेसी 819911एम)	1 मार्च 2014
हवलदार	डी आरोकिया सामी	(नं. 7776719एन अब जेसी 819912पी)	1 मार्च 2014
हवलदार	सी संजय गुरुनाथ	(नं. 7776728पी अब जेसी 819915एच)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	विठ्ठल गुजराती	(नं. 7776741वाई अब जेसी 819916एल)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	ए बालामुरुगन	(नं. 7776747ए अब जेसी 819917एन)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	गौरी दनामइया	(नं. 7776758एम अब जेसी 819918डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	मेजानूर रहमान	(नं. 7776766एल अब जेसी 819919वाई)	1 अप्रैल 2014

हवलदार	सशि पाल सिंह	(नं. 7776767एन अब जेसी 819920एन)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	नारायण बनेरजी	(नं. 7776768डब्ल्यू)अब जेसी 819921डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	वैकटेशन बी	(नं. 7776769वाई अब जेसी 819922वाई)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	राम चंद्रा	(नं. 7776771एल अब जेसी 819923फ)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	सुशील चन्द्र डे	(नं. 7776773एफ अब जेसी 819924के)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	कुलदीप सिंह	(नं. 8033033एच अब जेसी 819925एम)	1 मई 2014
हवलदार	मुंडे सूर्याकांत नागोराव	(नं. 7776783एल अब जेसी 819926पी)	1 मई 2014
हवलदार	मुनिन्द्र कलिता	(नं. 7776777एक्स अब जे. सी.819927एक्स)	1 मई 2014
हवलदार	अजय कुमार सिंह	(नं. 7776379डब्ल्यू अब जेसी 819928ए)	1 मई 2014
हवलदार	मोहन सिंह शेखावत	(नं. 7776234एल अब जेसी 819929एच)	1 मई 2014
हवलदार	हिरनमोय मंडल	(नं. 7776796एच अब जेसी 819930एक्स)	1 मई 2014
हवलदार	सुनिल कुमार सिंह दलाल	(नं. 7776798एन अब जेसी 819931ए)	1 मई 2014
हवलदार	जाला बलराम सिंह रणधीर सिंह	(नं. 7776808एम अब जेसी 819932एच)	1 मई 2014
हवलदार	अनिल कुमार	(नं. 7776820एन अब जेसी 819933एल)	1 मई 2014
हवलदार	ईश्वर सिंह	(नं. 7776822वाई अब जेसी 819934एन)	1 मई 2014
हवलदार	सी मुनिरत्नम	(नं. 7776829एच अब जेसी 819935डब्ल्यू)	1 मई 2014
हवलदार	मधवेन्द्र कुमार सारस्वत	(नं. 7776667एच अब जेसी 819938के)	3 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	जोन्नावरपु रमना रेड्डी	(नं. 7776757के अब जेसी 819939एम)	2 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	भालेकर संदीपन सोपान	(नं. 7776832एच अब जेसी 819940एफ)	2 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	सतीश कुमार एस	(नं. 7776836वाई अब जेसी 819941के)	1 जून 2014
हवलदार	एस संकरा श्रीनिवासा राव जी	(नं. 7776840एफ अब जेसी 819942एम)	1 जून 2014
हवलदार	राजेश कुमार सिंह	(नं. 7776856एम अब जेसी 819943पी)	3 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	पटेल महेश भाई दाह्य भाई	(नं. 7776774के अब जेसी 819944एक्स)	1 जून 2014
हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	(नं. 7776539एल अब जेसी 819945ए)	30 जून 2014
हवलदार	सुशील भण्डारी	(नं. 7776843पे अब जेसी 819951एन)	1 जुलाई 2014
हवलदार	जगदीश सुथर	(नं. 7776854एफ अब जे. सी.819952डब्ल्यू)	1 जुलाई 2014
हवलदार	जितेंद्र कुमार बाना	(नं. 7776865एन अब जेसी 819953वाई)	1 जुलाई 2014
हवलदार	ए मोहन राज	(नं. 7776868एफ अब जेसी 819954एफ)	1 जुलाई 2014
हवलदार	नंद कुमार विस्वाकर्मा	(नं. 7776875एक्स अब जेसी 819955के)	1 जुलाई 2014
हवलदार	हनुमान राम	(नं. 7776884वाई अब जेसी 819956एम)	1 जुलाई 2014
हवलदार	अजित कुमार मण्डल	(नं. 7776881एल अब जेसी 819957पी)	1 जुलाई 2014
हवलदार	सूरदा लक्ष्मना राव	(नं. 7776842एम अब जेसी 819958एक्स)	1 जुलाई 2014
हवलदार	रघुवीर सिंह	(नं. 7776873एम अब जेसी 819959ए)	1 जुलाई 2014
हवलदार	दिलीप कुमार बक्सला	(नं. 7776894एच अब जेसी 819960पी)	1 जुलाई 2014
हवलदार	वद्दीना राम राव	(नं. 7776897डब्ल्यू अब जे. सी.819961एक्स)	1 जुलाई 2014

हवलदार	संजीव कुमार	(नं. 7776898वाई अब जेसी 819962ए)	1 जुलाई 2014
हवलदार	मनीकंधन पी नायर	(नं. 7776831ए अब जेसी 819963एच)	1 जुलाई 2014
हवलदार	यशवीर सिंह	(नं. 7776082पी अब जेसी 819964एल)	1 जुलाई 2014
हवलदार	नवीन चन्द्र	(नं. 7776902डब्ल्यू अब जेसी 819965एन)	1 जुलाई 2014
हवलदार	रमा कान्त सिंह	(नं. 7776911एक्स अब जे. सी.819966डब्ल्यू)	1 जुलाई 2014
हवलदार	अशोक कुमार सिंह	(नं. 7776913एच अब जेसी 819967वाई)	13 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	महेन्द्र यादव	(नं. 7776914एल अब जेसी 819968एफ)	1 जुलाई 2014
हवलदार	कमला सिंह	(नं. 7776915एन अब जेसी 819969के)	1 जुलाई 2014
हवलदार	आघव अबा पांडुरंग	(नं. 7776916डब्ल्यू अब जेसी 819970वाई)	8 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	गम्भीर दाना भाई हाजा भाई	(नं. 7776937एम अब जेसी 819974पी)	1 अगस्त 2014
हवलदार	रतन लाल	(नं. 7776920वाई अब जेसी 819975एक्स)	1 अगस्त 2014
हवलदार	संतोष कुमार	(नं. 7776941पी अब जेसी 819976ए)	1 अगस्त 2014
हवलदार	मटरू यादव	(नं. 7776928एल अब जेसी 819977एच)	1 अगस्त 2014
हवलदार	सूजोय घोष	(नं. 7776943ए अब जेसी 819978एल)	1 अगस्त 2014
हवलदार	नंद किशोर सिंह	(नं. 7776940एम अब जेसी 819979एन)	1 अगस्त 2014
हवलदार	मन्विथगिरी नर्जरी	(नं. 7776852डब्ल्यू अब जेसी 819980एच)	1 अगस्त 2014
हवलदार	बिजू एम अब्राहम	(नं. 7776951वाई अब जेसी 819981एल)	1 अगस्त 2014
हवलदार	राजेन्द्र सिंह चौहान	(नं. 7776952एफ अब जेसी 819982एन)	1 अगस्त 2014
हवलदार	शाजी छेनियन्तीईल परईक्कन्दी	(नं. 7776959एल अब जेसी 819983डब्ल्यू)	1 अगस्त 2014
हवलदार	सुदानन्दा पी	(नं. 7776960ए अब जेसी 819984वाई)	1 अगस्त 2014
हवलदार	संतोष कुमार पाठक	(नं. 7776967के अब जेसी 819985एफ)	1 अगस्त 2014
हवलदार	योगेन्द्र प्रसाद	(नं. 7776972पी अब जेसी 819986के)	1 अगस्त 2014
हवलदार	मिटू कुमार सामंता	(नं. 7776977एन अब जेसी 819987एम)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	सुनील कुमार यादव	(नं. 7776980एन अब जेसी 819988पी)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	बलत्तर सिंह यादव	(नं. 7776981डब्ल्यू अब जे. सी.819989एक्स)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	निर्मल कुमार	(नं. 7776876ए अब जेसी 819990एम)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	रविन्दर कुमार	(नं. 7776895एल अब जेसी 819991पी)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	उमा शंकर यादव	(नं. 7776918एफ अब जेसी 819992एक्स)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	सेखावत भवानी सिंह भागीरथ	(नं. 7776983एफ अब जेसी 819993ए)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	रणबीर प्रसाद सिंह	(नं. 7776987एक्स अब जेसी 819994एच)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	लाल बहादुर यादव	(नं. 7776988ए अब जेसी 819995एल)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	मुनिरथीनम के	(नं. 7776949एफ अब जेसी 819996एन)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	बिजेंद्र सिंह	(नं. 7779828एल अब जेसी 819997डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	हरी प्रकाश यादव	(नं. 7776639डब्ल्यू अब जे. सी.819998वाई)	9 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	संजय कुमार सामल	(नं. 7776994एन अब जेसी 819999एफ)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	आर पी साँथना कृष्णन	(नं. 7777002वाई अब जेसी 820000एच)	1 सितम्बर 2014

हवलदार	ओम प्रकाश प्रसाद	(नं. 7777003एफ अब जेसी 820001एल)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	नन्द लाल राम	(नं. 7777008ए अब जेसी 820002एन)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	येदुरु रामा कृष्णा	(नं. 7777011ए अब जेसी 820003डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	सैनापुरम लक्ष्मा रेड्डी	(नं. 7777013एल अब जेसी 820004वाई)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	ओम प्रकाश	(नं. 7777014एन अब जेसी 820005एफ)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	अशोक कुमार यादव	(नं. 7777017एफ अब जेसी 820006के)	1 सितम्बर 2014
हवलदार	बी हरी	(नं. 7776989एच अब जेसी 820007एम)	13 अक्टूबर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	जे जोथी	(नं. 7777024एक्स अब जेसी 820008पी)	1 अक्टूबर 2014
हवलदार	बिरदी लाल मीना	(नं. 7777025ए अब जेसी 820009एक्स)	1 अक्टूबर 2014
हवलदार	नरेन्द्र कुमार	(नं. 7777026एच अब जेसी 820010एम)	1 अक्टूबर 2014
हवलदार	मनोज कुमार पांडे	(नं. 7777029डब्ल्यू अब जेसी 820011पी)	1 अक्टूबर 2014
हवलदार	मसीह होरो	(नं. 7777030एल अब जेसी 820012एक्स)	26 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	जगदीश चन्दर	(नं. 7777031एम अब जेसी 820013ए)	1 अक्टूबर 2014
हवलदार	महेन्द्र उपाध्याय	(नं. 7777033वाई अब जेसी 820015एल)	1 नवम्बर 2014
हवलदार	कमलेश प्रसाद	(नं. 7776699एल अब जेसी 820016एन)	21 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	प्रकाश रंजन राय	(नं. 7776587एल अब जेसी 820017डब्ल्यू)	1 नवम्बर 2014
हवलदार	अरुण कुमार उपाध्याय	(नं. 7777009एच अब जेसी 820018वाई)	1 नवम्बर 2014
हवलदार	कृष्णा कान्त ओझा	(नं. 7777006पी अब जेसी 820019एफ)	3 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	रामजी सिंह	(नं. 7776346एल अब जेसी 820020डब्ल्यू)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	चन्द्र सेकरण ए	(नं. 7777023पी अब जेसी 820021वाई)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	आर सी मधुसूदनन पिल्लई	(नं. 7777038एक्स अब जेसी 8200022एफ)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	दिबाकर दास	(नं. 7777042ए अब जेसी 820023के)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	रमेश एस	(नं. 7777045एन अब जेसी 820024एम)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(नं. 7777049के अब जेसी 820025पी)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	देबाब्रता दास	(नं. 7777055एक्स अब जेसी 820026एक्स)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	राजू शर्मा	(नं. 7777057एच अब जेसी 820027ए)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	जितेन्द्र शर्मा	(नं. 7777063डब्ल्यू अब जेसी 820028एच)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	मनोज कुमार ठाकुर	(नं. 7777067एम अब जेसी 820029एल)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	राजेश कुमार	(नं. 7777070एम अब जेसी 820030ए)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार	गंगा दत्त मेलकानि	(नं. 7777072एक्स अब जेसी 820032एल)	1 जनवरी 2015
हवलदार	प्रताप होरो	(नं. 7777076एम अब जेसी 820033एन)	1 जनवरी 2015
हवलदार	पबीत्र कुमार भौमिक	(नं. 7777078वाई अब जेसी 820034डब्ल्यू)	1 जनवरी 2015
हवलदार	अमरजीत थापर	(नं. 7777083के अब जेसी 820035वाई)	1 जनवरी 2015
हवलदार	रमेश चंद	(नं. 7777046डब्ल्यू अब जेसी 820036एफ)	1 जनवरी 2015
हवलदार	संजय कुमार राय	(नं. 7777094डब्ल्यू अब जेसी 820037के)	1 जनवरी 2015

हवलदार	व्यास सिंह	(नं. 7777095वाई अब जेसी 820038एम)	1 जनवरी 2015
हवलदार	जय प्रकाश मिश्रा	(नं. 7776435के अब जेसी 820039पी)	1 जनवरी 2015
हवलदार	सुरेश कुमार	(नं. 7776954एम अब जेसी 820040के)	1 जनवरी 2015
हवलदार	किशोर राय	(नं. 7777020एफ अब जेसी 820041एम)	1 जनवरी 2015
हवलदार	सुप्रकाश बेरा	(नं. 777056ए अब जेसी 820042पी)	1 जनवरी 2015
हवलदार	वी रामू	(नं. 7777064वाई अब जेसी 820043एक्स)	1 जनवरी 2015
हवलदार	अरुण बर्थवाल	(नं. 7777048एफ अब जेसी 820044ए)	1 जनवरी 2015
हवलदार	बीरम सिंह	(नं. 7777097के अब जेसी 820045एच)	1 जनवरी 2015
हवलदार	मृत्युंजय देबे	(नं. 7777098एम अब जेसी 820046एल)	7 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	राजेन्द्र कुमार कुशवाहा	(नं. 7777104पी अब जेसी 820048डब्ल्यू)	1 फरवरी 2015
हवलदार	राम राजा यादवा	(नं. 7777100वाई अब जेसी 820049वाई)	1 फरवरी 2015
हवलदार	कृष्ण कुमार एम	(नं. 7777109एम अब जेसी 820050एन)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	प्रदीप कुमार सिंह	(नं. 7777110एच अब जेसी 820051डब्ल्यू)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	एम राजा शेखर बाबू	(नं. 7777111एल अब जेसी 820052वाई)	1 फरवरी 2015
हवलदार	मनोज कुमार तिवारी	(नं. 7777113डब्ल्यू अब जेसी 820053एफ)	1 फरवरी 2015
हवलदार	कश्मीर सिंह	(नं. 7777114वाई अब जेसी 820054के)	1 फरवरी 2015
हवलदार	एमडी लोकमन हाकिम खान	(नं. 7777115एफ अब जेसी 820055एम)	1 फरवरी 2015
हवलदार	एन कृष्णन	(नं. 7777116के अब जेसी 820056पी)	1 फरवरी 2015
हवलदार	टी एम राजीवाक्षन	(नं. 7777118पी अब जेसी 820057एक्स)	1 फरवरी 2015
हवलदार	पावन कुमार	(नं. 7777119 एक्सअब जेसी 820057एक्स)	3 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	मकसूद अली	(नं. 7777121पी अब जेसी 820059एच)	10 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	सुरेश कुमार सामल	(नं. 7777123ए अब जेसी 820060एक्स)	1 फरवरी 2015
हवलदार	बरहते नितिन नाथु	(नं. 7777124एच अब जेसी 820061ए)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	दिवाकर कुमार सिंह	(नं. 7777125एल अब जेसी 820062एच)	25 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	सरवन सिंह यादव	(नं. 7777126एन अब जेसी 820063एल)	1 फरवरी 2015
हवलदार	महेश यादवा	(नं. 7777127डब्ल्यू अब जेसी 820064एन)	1 फरवरी 2015
हवलदार	सुभाष चन्द्र पुस्ति	(नं. 7777132एफ अब जेसी 820065डब्ल्यू)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	गुरव सुरेशा अर्जुना	(नं. 7777133के अब जेसी 820066वाई)	1 फरवरी 2015
हवलदार	पारित विठल गणपती	(नं. 7777135पी अब जेसी 820067एफ)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	दामोदर प्रधान	(नं. 7777139एल अब जेसी 820068के)	1 फरवरी 2015

हवलदार	सुरेश कुमार	(नं. 7777142एल अब जेसी 820069एम)	1 फरवरी 2015
हवलदार	चन्द्र पाल सिंह	(नं. 7777145वाई अब जेसी 820070एफ)	1 फरवरी 2015
हवलदार	अवाले सुभाष काशीनाथ	(नं. 7777086एक्स अब जेसी 820071के)	1 फरवरी 2015
हवलदार	राजेश कुमार मिश्रा	(नं. 7777131वाई अब जेसी 820072एम)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	अवतार सिंह	(नं. 7777143एन अब जेसी 820073पी)	2 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	चरणजीत कुमार	(नं. 7777148एम अब जेसी 820074एक्स)	1 फरवरी 2015
हवलदार	नन्हेलाल श्रीवास	(नं. 7777151एम अब जेसी 820075ए)	24 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	नवाब खान	(नं. 7776905के अब जेसी 820076एच)	2 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	देसाई ज़ाकिर हुसेन बाबन	(नं. 7777161डब्ल्यू अब जेसी 820077एल)	1 मार्च 2015
हवलदार	गुरव रामचन्द्र बाबन	(नं. 7777162वाई अब जेसी 820078एन)	1 मार्च 2015
हवलदार	स्वपन गुड़न	(नं. 7777164के अब जेसी 820079डब्ल्यू)	5 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	राजू कुमार दत्ता	(नं. 7777170एक्स अब जेसी 820080एल)	1 मार्च 2015
हवलदार	योगेन्द्र कुमार शर्मा	(नं. 7777177एफ अब जेसी 820081एन)	1 मार्च 2015
हवलदार	नवल कान्त पोद्दार	(नं. 7777180एफ अब जेसी 820082डब्ल्यू)	1 मार्च 2015
हवलदार	अब्दुल रसूल शैक	(नं. 7777182एम अब जेसी 820083वाई)	1 मार्च 2015
हवलदार	महेन्द्र सिंह	(नं. 7777183पी अब जेसी 820084एफ)	2 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	संजय कुमार मेर	(नं. 7777184एक्स अब जेसी 820085के)	2 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	छोटू राम जाखर	(नं. 7777186एच अब जेसी 820086एम)	1 मार्च 2015
हवलदार	अनिल त्रिपाठी	(नं. 7777205एच अब जेसी 820087पी)	1 मार्च 2015
हवलदार	मनोज के वी	(नं. 7777189डब्ल्यू अब जे. सी. 820088एक्स)	2 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	मड़ीवालप्पा कलाभवी	(नं. 7777191एम अब जेसी 820089ए)	1 मार्च 2015
हवलदार	वडीवेल पी	(नं. 7777193वाई अब जेसी 820090पी)	1 मार्च 2015
हवलदार	हरीस चन्द्र यादव	(नं. 7777198एक्स अब जेसी 820091एक्स)	1 मार्च 2015
हवलदार	संकर एम	(नं. 7777199ए अब जेसी 820094एल)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	(नं. 7777200के अब जेसी 820095एन)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	राम बचन	(नं. 7777201एम अब जेसी 820096डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	(नं. 7777202पी अब जेसी 820097वाई)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	मुन्ना कुमार पांडे	(नं. 7777203एक्स अब जेसी 820098एफ)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	सोमेश्वर कुमार सिंह	(नं. 7777204ए अब जेसी 820099के)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	देवा राम बिश्नोड़	(नं. 7777197पी अब जेसी 820100एन)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	राम निवास	(नं. 7776966एफ अब जेसी 820101डब्ल्यू)	4 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			

हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(नं. 7777174एन अब जेसी 820102वाई)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	साजिमोन एल	(नं. 7777213एफ अब जेसी 820103एफ)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	ए वेंकटेशन	(नं. 7777222एच अब जेसी 820104के)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	प्रमोद कुमार	(नं. 7777225डब्ल्यू अब जेसी 820105एम)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	राम बुझारट यादव	(नं. 7777227एफ अब जेसी 820106पी)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	रवींद्र नाथ यादव	(नं. 7777228के अब जेसी 820107एक्स)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	मनोज कुमार गुप्ता	(नं. 7777235ए अब जेसी 820108ए)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	मुखविंदर सिंह	(नं. 7777237एल अब जेसी 820109एच)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	रवीन्द्र नाथ मंडल	(नं. 7777238एन अब जेसी 820110एक्स)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	रोहन सिंह यादव	(नं. 7777239डब्ल्यू अब जेसी 820111ए)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	लीला धर	(नं. 7777241एन अब जेसी 820112एच)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	कुम्भार राजेन्द्र शिवाजी	(नं. 7777242डब्ल्यू अब जेसी 820113एल)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	हर दयाल अहिरवार	(नं. 7777244एफ अब जेसी 820114एन)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	नरेन्द्र कुमार	(नं. 7777245के अब जेसी 820115डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	महेश कुमार	(नं. 7777246एम अब जेसी 820118के)	1 मई 2015
हवलदार	राजू ई एल	(नं. 7777247पी अब जेसी 820119एम)	1 मई 2015
हवलदार	सिवा कुमार ए एम	(नं. 7777258एफ अब जेसी 820120एफ)	1 मई 2015
हवलदार	उत्तम सिंह नेगी	(नं. 7777263एम अब जेसी 820121पी)	1 मई 2015
हवलदार	सतीश कुमार	(नं. 7777265एक्स अब जेसी 820122एम)	1 मई 2015
हवलदार	सुभाष चंद	(नं. 7777261एफ अब जेसी 820123पी)	1 मई 2015
हवलदार	मनोज कुमार	(नं. 7777074एच अब जेसी 820124एक्स)	2 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	संपत ए	(नं. 7777266ए अब जेसी 820125ए)	5 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	दयालु राम बोरो	(नं. 7777267एच अब जेसी 820126एच)	1 मई 2015
हवलदार	घन श्याम उपाध्याय	(नं. 7777276के अब जेसी 820127एल)	27 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	लाल जी	(नं. 7777278पी अब जेसी 820128एन)	1 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	बसंत कुमार साहू	(नं. 7777281पी अब जेसी 820131एन)	1 जून 2015
हवलदार	सुन्दर सिंह	(नं. 7777282एक्स अब जे. सी820132डब्ल्यू)	1 जून 2015
हवलदार	मुन्ना लाल	(नं. 7777286एन अब जेसी 820133वाई)	13 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	ओम राज शर्मा	(नं. 7777290डब्ल्यू अब जेसी 820134एफ)	1 जून 2015
हवलदार	खंजोड़े लक्षु जानु	(नं. 7777291वाई अब जेसी 820135के)	1 जून 2015
हवलदार	दड़ीवाला शरमद	(नं. 7777296एक्स अब जेसी 820136एम)	1 जून 2015
हवलदार	अजय कुमार	(नं. 777303एच अब जेसी 820137पी)	1 जून 2015
हवलदार	विनोद एस	(नं. 7777304एल अब जेसी 820138एक्स)	1 जून 2015
हवलदार	राजिन्दर सिंह	(नं. 7777298एच अब जेसी 820140पी)	1 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2015 से दी जाती है)			

हवलदार	राजेश सिंह	(नं. 7777307वाई अब जेसी 820141एक्स)	1 जुलाई 2015
हवलदार	सुभाष चन्दर जाट	(नं. 7777311एफ अब जेसी 820142ए)	1 जुलाई 2015
हवलदार	पूर्णा चंद्र खड़ंगा	(नं. 7777190एल अब जेसी 820143एच)	1 जुलाई 2015
हवलदार	विजय कुमार शिद्धन्नावर	(नं. 7777270एच अब जेसी 820145एन)	1 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	दुम्पला रघु	(नं. 7777318एल अब जेसी 820146डब्ल्यू)	1 अगस्त 2015
हवलदार	एस करुप्पासामी	(नं. 7777322एन अब जेसी 820147वाई)	1 अगस्त 2015
हवलदार	पोलोस्थो कुमार बिसोय	(नं. 7777323डब्ल्यू अब जेसी 820148एफ)	1 अगस्त 2015
हवलदार	एम रेंगा सामी	(नं. 7777328पी अब जेसी 820149के)	1 अगस्त 2015
हवलदार	फतेह बहादुर यादव	(नं. 7777329एक्स अब जेसी 820150वाई)	1 अगस्त 2015
हवलदार	मनोरंजन बेहेरा	(नं. 7777331पी अब जेसी 820151एफ)	1 अगस्त 2015
हवलदार	रामधनी यादव	(नं. 7777334एच अब जेसी 820152के)	1 अगस्त 2015
हवलदार	कैलाश नाथ यादव	(नं. 7777339एफ अब जेसी 820153एम)	1 अगस्त 2015
हवलदार	दोमन लाल सिन्हा	(नं. 7777341वाई अब जेसी 820154पी)	1 अगस्त 2015
हवलदार	इन्दरजीत कुमार	(नं. 7777367एन अब जेसी 820155एक्स)	1 अगस्त 2015
हवलदार	के समिनाथन	(नं. 7777369वाई अब जेसी 820156ए)	1 अगस्त 2015
हवलदार	राम बाबू	(नं. 7777373एफ अब जेसी 820157एच)	1 अगस्त 2015
हवलदार	के धनंजयन	(नं. 7777381ए अब जेसी 820158एल)	1 अगस्त 2015
हवलदार	रोशन लाल	(नं. 7777382एच अब जेसी 820159एन)	1 अगस्त 2015
हवलदार	सुरेश डी	(नं. 7777383एल अब जेसी 820160एच)	5 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	कृष्णा नंद यादव	(नं. 7777280एम अब जेसी 820164वाई)	1 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	सूकान्ता कुमार मल्ला	(नं. 7777392एम अब जेसी 820165एफ)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	राजेश	(नं. 7777411एम अब जेसी 820166के)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	राठोड उपेन्द्र सिंह हुकुम सिंह	(नं. 7777428ए अब जेसी 820167एम)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	पी बाबू	(नं. 7777400ए अब जेसी 820168पी)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	संतोष कुमार रॉय	(नं. 7777410के अब जेसी 820169एक्स)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	शीश राम	(नं. 7777433एल अब जेसी 820170एम)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	बोड्डे सोमेश्वर नारायणप्पा	(नं. 7777441के अब जेसी 820171पी)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	अजय कुमार सिंह	(नं. 7777283ए अब जेसी 820172एक्स)	18 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	जयबीर	(नं. 7777315एक्स अब जेसी 820173ए)	6 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	राजेश कुमार राणा	(नं. 7777348एच अब जेसी 820174एच)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	बहादुर सिंह जाट	(नं. 7777360के अब जेसी 820175एल)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	जगदीश प्रसाद	(नं. 7777363एक्स अब जेसी 820176एन)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			

हवलदार	अजिताभ कुमार	(नं. 7777364ए अब जेसी 820177डब्ल्यू)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	नवसार बालासाहेब त्रिम्बक	(नं. 7777150के अब जेसी 820178वाई)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 सितम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	एस सुब्रामनी	(नं. 7777065एफ अब जेसी 820180डब्ल्यू)	1 अक्टूबर 2015
हवलदार	सतीश प्रसाद	(नं. 7777080डब्ल्यू अब जेसी 820181वाई)	21 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	राम नारायण चौधरी	(नं. 7777343के अब जेसी 820182एफ)	6 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	एल्लीपिल्ली लक्ष्मन नायडू	(नं. 7777366एल अब जेसी 820183के)	1 अक्टूबर 2015
हवलदार	अजय कुमार	(नं. 7777347ए अब जेसी 820184एम)	7 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	कृष्ण नंद पांडे	(नं. 7777279एक्स अब जेसी 820185पी)	1 अक्टूबर 2015
हवलदार	इंदराज कुमार	(नं. 7777365एच अब जेसी 820186एक्स)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	मृन्मोय सरकार	(नं. 7777393पी अब जेसी 820187ए)	4 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	गौरंगा चरण पातरा	(नं. 7777394एक्स अब जेसी 820188एच)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	अशोक कुमार यादव	(नं. 7777402एल अब जेसी 820189एल)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	राम पाल	(नं. 7777417एन अब जेसी 820190ए)	7 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	रणजीत सिंह	(नं. 7777418डब्ल्यू अब जेसी 820191एच)	17 नवम्बर 2015
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	विनोद कुमार	(नं. 7777419वाई अब जेसी 820192एल)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	शैक सुभान हुसेन	(नं. 7777427एक्स अब जेसी 820193एन)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	भोला राम गुर्जर	(नं. 7777384एन अब जेसी 820194डब्ल्यू)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	नैन पाल सिंह	(नं. 7777432एच अब जेसी 820195वाई)	10 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	एस मरियप्पन	(नं. 7777444एक्स अब जेसी 820196एफ)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	सुनील कुमार	(नं. 7777445ए अब जेसी 820197के)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	उत्तम कुमार दास	(नं. 7777446एच अब जेसी 820198एम)	10 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	दीपेन्द्र नाथ राय	(नं. 7777448एन अब जेसी 820199पी)	1 नवम्बर 2015
हवलदार	धीरज सिंह	(नं. 7777306डब्ल्यू अब जेसी 820200वाई)	5 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	मुकेश कुमार	(नं. 7777357एम अब जेसी 820201एफ)	7 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	हनुमान	(नं. 7777358एम अब जेसी 820202के)	7 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	यादव सतीश कुमार वामनराव	(नं. 7777370एन अब जेसी 820203एम)	6 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			

हवलदार	अशोक कुमार मिश्रा	(नं. 7777371डब्ल्यू अब जेसी 820204पी)	7 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	गिरिजा शंकर	(नं. 7777101एफ अब जेसी 820205एक्स)	6 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	राजीव कुमार	(नं. 7777416एल अब जेसी 820206ए)	8 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	सुनील कुमार सिंह	(नं. 7777424के अब जेसी 820207एच)	26 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	रमेश प्रसाद मंडल	(नं. 7777324वाई अब जेसी 820208एल)	1 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	पुंडलीक पोवार	(नं. 7777452डब्ल्यू अब जेसी 820209एन)	6 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	मनोज एम	(नं. 7777453वाई अब जेसी 820210एच)	1 जनवरी 2016
हवलदार	सबाले हरि भाऊ सुखदेव	(नं. 7777458एक्स अब जेसी 820211एल)	1 जनवरी 2016
हवलदार	शज कुमार के एम	(नं. 7777351एच अब जेसी 820212एन)	1 जनवरी 2016
हवलदार	साफीयुल बादशा	(नं. 7777319एन अब जेसी 820213डब्ल्यू)	1 जनवरी 2016
हवलदार	रंजीत कुमार ठाकुर	(नं. 7777462ए अब जेसी 820214वाई)	1 जनवरी 2016
हवलदार	गुरवीर सिंह	(नं. 7777467वाई अब जेसी 820215एफ)	1 जनवरी 2016
हवलदार	मनोज के जी	(नं. 7777479एन अब जेसी 820216के)	1 जनवरी 2016
हवलदार	सी मानियन	(नं. 7777489एक्स अब जेसी 820217एम)	1 जनवरी 2016
हवलदार	बिरेन्द्र कुमार तिवारी	(नं. 7777313एम अब जेसी 820218पी)	1 जनवरी 2016
हवलदार	रामवतार	(नं. 7777435डब्ल्यू अब जे. सी. 820219एक्स)	1 जनवरी 2016
हवलदार	शजी नायर के	(नं. 7777481एल अब जेसी 820220एम)	9 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	राजेश कुमार ठाकुर	(नं. 7777494एच अब जेसी 820221पी)	1 फरवरी 2016
हवलदार	गोपालजी यादव	(नं. 7777503वाई अब जेसी 820222एक्स)	1 फरवरी 2016
हवलदार	मुनसाफ अली खान	(नं. 7777507पी अब जेसी 820223ए)	1 फरवरी 2016
हवलदार	अनिल कुमार यादव	(नं. 7777508एक्स अब जेसी 820224एच)	1 फरवरी 2016
हवलदार	जितेंद्र कुमार यादव	(नं. 7777509ए अब जेसी 820225एल)	1 फरवरी 2016
हवलदार	पवन कुमार तिवारी	(नं. 7777510पी अब जेसी 820226एन)	1 फरवरी 2016
हवलदार	बजगिरी सुरेश सोपन	(नं. 7777511एक्स अब जेसी 820229एफ)	1 मार्च 2016
हवलदार	सुभाष यादव	(नं. 7777512ए अब जेसी 820231वाई)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	जान एम डी	(नं. 7777514एल अब जेसी 820232एफ)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	सुखविन्दर कुमार	(नं. 7777515एन अब जेसी 820233के)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	शेख सिलेमान भाई	(नं. 7777517वाई अब जेसी 820234एम)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	मुलानी रफीक मलंग	(नं. 7777518एफ अब जेसी 820235पी)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	बिभूति यादव	(नं. 7777519एक्स अब जेसी 820236एक्स)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	(नं. 7777520वाई अब जेसी 820237ए)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	जी सत्या नारायण	(नं. 7777522के अब जेसी 820238एच)	1 अप्रैल 2016

हवलदार	सतीश कुमार	(नं. 7777529एन अब जेसी 820239एल)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	एन श्याम किशोर सिंघा	(नं. 7777492एक्स अब जेसी 820240ए)	1 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	पर्माल सिंह	(नं. 7777536के अब जेसी 820241एच)	1 मई 2016
हवलदार	सिरज वाई	(नं. 7777537एम अब जेसी 820247के)	1 जून 2016
हवलदार	देव नारायण राम	(नं. 7777538पी अब जेसी 820248एम)	1 जून 2016
हवलदार	बोपाइयाह जी पी	(नं. 7776726के अब जेसी 820249पी)	1 मई 2014
हवलदार	एस नागराज	(नं. 7777539एक्स अब जेसी 820251एम)	1 जुलाई 2016
हवलदार	शरीफ अहमद आई	(नं. 7777524पी अब जेसी 820252पी)	1 जुलाई 2016
हवलदार	सलीम मलिक	(नं. 7777443पी अब जेसी 820253एक्स)	1 अगस्त 2016
हवलदार	बलवंत	(नं. 7777454एफ अब जेसी 820254ए)	2 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	कृष्ण ममिडी	(नं. 7777472के अब जेसी 820255एच)	1 अगस्त 2016
हवलदार	सुबोध कुमार मिश्रा	(नं. 7777502डब्ल्यू अब जेसी 820256एल)	1 अगस्त 2016
हवलदार	देवेन्द्र कुमार शर्मा	(नं. 7777423एफ अब जेसी 820257एन)	16 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	विजय पाल सिंह	(नं. 7777531एल अब जेसी 820260एन)	1 सितम्बर 2016
हवलदार	धर्मेन्द्र	(नं. 7777535एफ अब जेसी 820261एफ)	1 सितम्बर 2016
हवलदार	धन राज	(नं. 7777305एन अब जेसी 820265एम)	1 नवम्बर 2016
हवलदार	सधावेन्द्र कुमार सरस्वत	(नं. 7777540एम अब जेसी 820266पी)	1 नवम्बर 2016
हवलदार	राधे मोहन सिंह	(नं. 7777542एक्स अब जेसी 820267एक्स)	1 नवम्बर 2016
हवलदार	दीपक मेढी	(नं. 7777372वाई अब जेसी 820268ए)	26 नवम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	जवहार लाल प्रसाद	(नं. 7777543ए अब जेसी 820270एक्स)	1 दिसम्बर 2016

नायब सूबेदार (लिपिक : एस डी) के पद में

हवलदार	लीचमन राम चौधरी	(नं. 7776242के अब जेसी 819733पी)	1 जून 2012
हवलदार	राधे श्याम	(नं. 7776299 वाईअब जेसी 819734एक्स)	1 जून 2012
हवलदार	शशि भूषण शीतांशु	(नं. 7776354के अब जेसी 819725ए)	1 जुलाई 2012
हवलदार	रामअवतार बाँयल	(नं. 7776414एन अब जेसी 819736एच)	1 जुलाई 2012
हवलदार	गौरी शंकर भाडू	(नं. 7776532एफ अब जेसी 819737एल)	1 जुलाई 2012
हवलदार	पी मथियाझागन	(नं. 1487000एक्स अब जेसी 819889एम)	1 फरवरी 2014
हवलदार	के रामानुजम	(नं. 7778913एफ अब जेसी 819913एक्स)	20 मार्च 2014
हवलदार	अगवाने विठ्ठल रोहिदास	(नं. 7778980एम अब जेसी 819914ए)	1 अप्रैल 2014
हवलदार	रत्तन लाल	(नं. 7778443एफ अब जेसी 819936वाई)	8 मई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	प्रदीप पॉल	(नं. 7778760एच अब जेसी 819937एफ)	3 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	नरेश कुमार	(नं. 7779303एफ अब जेसी 819946एच)	1 जुलाई 2014
हवलदार	जसबीर सिंह	(नं. 7779706एफ अब जेसी 819947एल)	1 जुलाई 2014

हवलदार	सतीश कुमार पी के	(नं. 7779276एच अब जेसी 819948एन)	1 जुलाई 2014
हवलदार	हरी सिंह	(नं. 7779302वाई अब जे. सी.819949डब्ल्यू)	1 जुलाई 2014
हवलदार	नरेश चन्द्र पांडे	(नं. 7779645पी अब जेसी 819950एल)	1 जुलाई 2014
हवलदार	रामचन्द्र यादव	(नं. 7779659पी अब जेसी 819971एफ)	1 अगस्त 2014
हवलदार	रणबीर सिंह	(नं. 7779748एन अब जेसी 819972के)	1 अगस्त 2014
हवलदार	आदेश कुमार गंगवार	(नं. 7779749डब्ल्यू अब जे. सी.819973एम)	1 अगस्त 2014
हवलदार	जगदीश सिंह	(नं. 1486996एच अब जेसी 820014एच)	1 अक्टूबर 2014
हवलदार	मोहम्मद असलम	(नं. 7778974वाई अब जेसी 820031एच)	1 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
हवलदार	प्रमोद कुमार	(नं. 7779304के अब जेसी 820047एन)	1 फरवरी 2015
हवलदार	शशि मोहन	(नं. 7779707के अब जेसी 820092ए)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	सुरेंद्र सिंह	(नं. 7779750एल अब जेसी 820093एच)	1 अप्रैल 2015
हवलदार	अनिल कुमार बी	(नं. 1486995ए अब जेसी 820116वाई)	15 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	एन राजा	(नं. 7779845एल अब जेसी 820117एफ)	1 मई 2015
हवलदार	बिनोज एम एफ	(नं. 7779847डब्ल्यू अब जेसी 820129डब्ल्यू)	1 जून 2015
हवलदार	सुनिल कुमार एम पी	(नं. 7779857ए अब जेसी 820130एल)	1 जून 2015
हवलदार	मुनेन्द्र कुमार	(नं. 7779878डब्ल्यू अब जेसी 820139ए)	6 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	विजय कुमार यादवा	(नं. 7779885एम अब जेसी 820144एल)	1 अगस्त 2015
हवलदार	संतोष कुमार पांडे	(नं. 7779886पी अब जेसी 820161एल)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	प्रेम पॉल	(नं. 7779887एक्स अब जेसी 820162एन)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	चौगले सुनिल राव	(नं. 7779896वाई अब जेसी 820163डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2015
हवलदार	बिस्वाजित दास	(नं. 7779910ए अब जेसी 820179एफ)	7 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)			
हवलदार	स्नाहुंगुशु दास	(नं. 7779912एल अब जेसी 820228वाई)	1 मार्च 2016
हवलदार	विनोद टी एस	(नं. 7780137एल अब जेसी 820230डब्ल्यू)	1 अप्रैल 2016
हवलदार	अजित सिंह	(नं. 7780173डब्ल्यू अब जेसी 820243एन)	1 जून 2016
हवलदार	प्रकाश चन्द्र फुलेरा	(नं. 7780216ए अब जेसी 820244डब्ल्यू)	1 जून 2016
हवलदार	जंदाडे ताराचन्द	(नं. 7780238वाई अब जेसी 820245वाई)	6 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	रामवीर सिंह	(नं. 7780249एल अब जेसी 820246एफ)	1 जून 2016
हवलदार	विनोद कुमार	(नं. 7779625एफ अब जेसी 820250के)	5 जुलाई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2016 से दी जाती है)			
हवलदार	रिशी कुमार शर्मा	(नं. 7780250ए अब जेसी 820258डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2016
हवलदार	आई इबुंगोबी सिंघा	(नं. 7780263एक्स अब जेसी 820259वाई)	1 सितम्बर 2016
हवलदार	राजा किशोर नायक	(नं. 7780315वाई अब जेसी 820262वाई)	1 अक्टूबर 2016
हवलदार	अशोक कुमार	(नं. 7780316एल अब जेसी 820263एफ)	1 नवम्बर 2016
हवलदार	बलवीर सिंह यादव	(नं. 7780320एन अब जेसी 820264के)	1 नवम्बर 2016
हवलदार	सोहन लाल	(नं. 7780340एफ अब जेसी 820269एच)	1 दिसम्बर 2016

नायब सूबेदार (म्यूजिक) के रैंक में

हवलदार	लक्ष्मीधर महापात्रा	(नं. 7778028ए अब जेसी 819780एम)	20 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)			
हवलदार	निर्मल कुमार सिंह	(नं. 7780595एफ अब जेसी 820227डब्ल्यू)	11 फरवरी 2016
हवलदार	जगर नाथ राम	(नं. 7780586ए अब जेसी 820242एल)	9 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2016 से दी जाती है)			

प्रशांत राव टी. डी.
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 06, दिनांक 10 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार	मुकेश कुमार	(सं0 15468713के अब जेसी—247863डब्ल्यू)	*12 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	उममेद सिंह	(सं0 15468781एक्स अब जेसी—247884एम)	*12 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	धरम सिंह	(सं0 15469082वाई अब जेसी—247899पी)	*19 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	ककडे शिवाजी जयाजी	(सं0 15467846एन अब जेसी—247880डब्ल्यू)	*10 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	दया शंकर पाण्डे	(सं0 15468342एम अब जेसी—247907एच)	*08 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	मेन पाल	(सं0 15468417वाई अब जेसी—247902के)	*24 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	बलजिन्दर सिंह	(सं0 15467377डब्ल्यू अब जेसी—247891एच)	*09 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	दिनेश कुमार सिंह	(सं0 15467447के अब जेसी—247906ए)	01 जून 2018
दफादार	दान सिंह	(सं0 15467460एन अब जेसी—247917एम)	*12 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2018 से दी जाती है)			
दफादार	राय सिंह	(सं0 15467520एक्स अब जेसी—247923ए)	*31 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			
दफादार	ओ ब्रजेन्द्रा सिंगा	(सं0 15467687एफ अब जेसी—247854पी)	*27 अप्रैल 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	जसपाल सिंह	(सं0 15467804एफ अब जेसी—247893एन)	*09 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	जयाराज वी एस	(सं0 15466709एच अब जेसी—247861एल)	*03 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 फरवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	राजेश कुलहारी	(सं0 15466872एच अब जेसी—247908एल)	*05 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			

दफादार	दिलबाग सिंह	(सं0 15467062एम अब जेसी-247849के)	*26 अप्रैल 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	राजपूत वासुदेव सत्तार सिंह	(सं0 15467088एफ अब जेसी-247882एफ)	*28 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			
दफादार	बलकार सिंह	(सं0 15467354पी अब जेसी-247816वाई)	*24 मार्च 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	जसविन्दर सिंह	(सं0 15467372एक्स अब जेसी-247871पी)	*15 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	सुनिल कुमार,एस.एम	(सं0 15465584के अब जेसी-247834एफ)	*16 अप्रैल 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	अनिल	(सं0 15465838डब्ल्यू अब जेसी-247894डब्ल्यू)	*25 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	सुखविन्दर सिंह	(सं0 15466246वाई अब जेसी-247876एन)	*27 अप्रैल 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	जगत सिंह	(सं0 15466312डब्ल्यू अब जेसी-247912एन)	*07 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	एम पेदेया	(सं0 15466458के अब जेसी-247892एल)	*18 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	कृष्ण रेडी दक्कता	(सं0 15466582एल अब जेसी-247881वाई)	*14 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			
दफादार	अजीत कुमार सिंह	(सं0 15464543एन अब जेसी-247900वाई)	*19 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	तरुण कुमार साहू	(सं0 15464921एफ अब जेसी-247883के)	*12 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2018 से दी जाती है)			
दफादार	दविन्दर सिंह	(सं0 15465288वाई अब जेसी-247903एम)	*11 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	समीर बहादुर सिंह	(सं0 15465395ए अब जेसी-247911एल)	*05 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2018 से दी जाती है)			
दफादार	परदीप सिंह	(सं0 15465456एम अब जेसी-247789ए)	*05 मार्च 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	भोला नाथ झा	(सं0 14638596एच अब जेसी-247846डब्ल्यू)	01 मई 2018
दफादार	भुपिन्दर सिंह	(सं0 15463333एफ अब जेसी-247860एच)	*01 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	क्वहोली माहादेव धोन्डप्पा	(सं0 15464065पी अब जेसी-247889एल)	*14 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 2018 से दी जाती है)			
दफादार	गगन दीप	(सं0 15472981एल अब जेसी-247905एक्स)	*04 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	एम कालीदासन	(सं0 15472093डब्ल्यू अब जेसी-247867एम)	*06 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2018 से दी जाती है)			
दफादार	कंगजम राजेश सिंह	(सं0 15472151पी अब जेसी-247870एम)	*09 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			
दफादार	वजराला अलताफ	(सं0 15472383एन अब जेसी-247852के)	*02 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			

दफादार	जगविन्दर सिंह	(सं0 15472814पी अब जेसी-247853एम)	01 मई 2018
दफादार	आनंद कुमार सिंह	(सं0 15471793एक्स अब जेसी-247868पी)	*06 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	स्वरूप नाग	(सं0 15471896डब्ल्यू अब जेसी-247869एक्स)	*08 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			
दफादार	सुरेन्दर सिंह	(सं0 15471901डब्ल्यू अब जेसी-247886एक्स)	*12 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			
दफादार	टी थमिल सेलवन	(सं0 15471914एन अब जेसी-247865एफ)	*06 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	सुरिन्दर सिंह	(सं0 15470492एफ अब जेसी-247872एक्स)	*04 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	हरप्रीत सिंह	(सं0 15470657पी अब जेसी-247895वाई)	*31 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मार्च 2018 से दी जाती है)			
दफादार	परवीन सिंह	(सं0 15470720वाई अब जेसी-247896एफ)	*31 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मार्च 2018 से दी जाती है)			
दफादार	मेन पाल सिंह	(सं0 15470757ए अब जेसी-247915एफ)	*04 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2018 से दी जाती है)			
दफादार	जितेन्द्र कुमार	(सं0 15470867पी अब जेसी-247918पी)	*11 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	पोबित्रा सिन्हा	(सं0 15469716के अब जेसी-247921पी)	*15 जून 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जाती है)			
दफादार	प्रमोद कुमार	(सं0 15469725एल अब जेसी-247848एफ)	*23 अप्रैल 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2018 से दी जाती है)			
दफादार	नबीन डेका	(सं0 15470094ए अब जेसी-247806पी)	*15 मार्च 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार	मोहम्मद अबुल बसर मंडल	(सं0 15470282एफ अब जेसी-247904पी)	01 जून 2018
दफादार	देबा ब्रता बिसवास	(सं0 15469141ए अब जेसी-247858एल)	*02 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2018 से दी जाती है)			
दफादार/ एसकेटी	रवी कुमार एस पी	(सं0 15469150एफ अब जेसी-247901एफ)	01 जून 2018
दफादार	राजेश कुमार यादव	(सं0 15469223एच अब जेसी-247885पी)	*15 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2018 से दी जाती है)			
दफादार	जेथू सिंह राठौर	(सं0 15469579डब्ल्यू अब जेसी-247887ए)	*11 मई 2018
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है)			

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th January 2019

D(MS) SECTION

No. 01, dated 3rd December 2018—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 June 2018:—

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-38266W Lt Gen Surinder Singh, AVSM**, VSM, MECH INF

Vice

IC-35904Y Lt Gen Sarath Chand, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retired), INF

REVATI RAMAN
Under Secretary

NATIONAL CADET CORPS
MS(ANO)

No. 02, dated 4th December 2018—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University:—

Name of the Vice Chancellor(s)	Name of the Directorate	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellor
Prof Surendranath Pasupalak	Odisha	Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar	28-03-2016
Prof G Nageswara Rao	AP&T	Andhra University, Visakhapatnam	17-07-2016
Dr Ashish Motiram Paturkar	Mah	Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur	22-01-2018
Dr Tapas Bhattacharyya	--do--	Dr Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli	06-11-2015
Dr K P Viswanatha	--do--	Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri	28-12-2015
Dr B Venkateswarlu	--do--	Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani	01-02-2014
Prof N Rajendran	TNP & AN	Alagappa University, Karaikudi	05-06-2018
Prof T.V.Kattimani	M.P& CG	Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak	16-01-2014
(08 Vice Chancellors)			

AJAY KUMAR
Brig
Brig (MS)

ARMY BRANCH

No. 03, dated 5th December 2018—The President is pleased to make the following appointment :—

TERRITORIAL ARMY

To be Lieutenant

Krunal Vilas Deshbhratar	TA-43111L	Engineer (TA)	30 Jun 17
Kanhaiya Rajendraprasad Sharma	TA-43112N	Engineer (TA)	18 Sep 17
Sachin Chandrakant Dolse	TA-43113W	Engineer (TA)	01 Nov 17
Gaurav S Waghmare	TA-43114Y	Engineer (TA)	01 Nov 17
Vamshisharan Pallerla	TA-43115F	Engineer (TA)	04 Nov 16

SUDERSHAN KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 04, dated 6th December 2018—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj Manoj Kumar Devlal	TA(M)-1212	AMC TA	31 Oct 2016
------------------------	------------	--------	-------------

To be Major

Capt Sarvagya Bairva	TA-42704	Engineer (TA)	24 Jan 17
Capt Akash Deep	TA-42760	Engineer (TA)	01 Feb 18
Capt Deepak Gupta	TA-42763	Engineer (TA)	12 Apr 18

To be Capt

Lt Jaish Ram	TA-42699	(Engineer TA)	17 Dec 11
Lt Surendra Kumar Sahni	TA-42717	(Engineer TA)	16 Jul 12
Lt Rahul Sudhanshu	TA-42895	(Engineer TA)	05 Nov 17
Lt Gaurav Agrawal	TA-42897	(Engineer TA)	11 Nov 17
Lt Shirole Sagar Namdeo	TA-42900	(Engineer TA)	06 Jan 18
Lt N Viswakarthik	TA-42901	(Engineer TA)	06 Jan 18
Lt Subrata Das	TA-42902	(Engineer TA)	16 Jan 18
Lt Sanjeev Kumar Gupta	TA-42903	(Engineer TA)	06 Dec 17
Lt Himanshu Joshi	TA-42906	(Engineer TA)	06 Feb 18
Lt Dinesh Kumar	TA-42911	(Engineer TA)	24 Feb 18
Lt Amit Swami	TA-42914	(Engineer TA)	06 Mar 18
Lt Amit Gupta	TA-42952	(Engineer TA)	20 Jan 18
Lt Deepak Sadashiv Khot	TA-42953	(Engineer TA)	20 Jan 18

The president is pleased to make the following appointment/promotion (whichever is applicable).

To be Sub

TJ- No	Rank	Name	Unit	Wef
TJ-6209M	Nb Sub	Pritpal Singh	102 Inf Bn (TA) PUNJAB	08 Jul 2016
TJ-6259M	Nb Sub	Ashok kumar	-do-	22 Sep 2016
TJ-6326M	Nb Sub	Dharam Prakash	-do-	22 Oct 2016
TJ-5959N	Nb Sub	Jagdish Singh	103 Inf bn (TA) SIKH LI	30 Mar 2016
TJ-5960H	Nb Sub	Jagdish Singh	-do-	08 Apr 2016
TJ-6099X	Nb Sub	Pawan Kumar	-do-	09 Nov 2016
TJ-6225Y	Nb Sub	Manoj Kumar	-do-	03 Feb 2017
TJ-6294P	Nb Sub	Jai Shankar	-do-	03 Feb 2017
TJ-6295X	Nb Sub	Ranbir Singh	-do-	01 Jun 2017
TJ-6296P	Nb Sub	Hari Kesh	-do-	31 May 2017
TJ-6297H	Nb Sub	Satvir Singh	103 Inf Bn (TA) SIKH LI	04 Jun 2017
TJ-5925A	Nb Sub	Rajpal	112 Inf Bn (TA) DOGRA	19 Feb 2014
TJ-5926H	Nb Sub	Dhain Chand	-do-	16 Apr 2014
TJ-5965F	Nb Sub	Sher Singh	-do-	23 Oct 2014
TJ-6058N	Nb Sub	Karan Singh	-do-	16 Jun 2014
TJ-6096K	Nb Sub	Rantaj Singh Chandel	-do-	26 Nov 2014
TJ-6146K	Nb Sub	Upendra Singh	-do-	10 Jul 2015
TJ-6174M	Nb Sub	Praveen Kumar	-do-	17 Jul 2015
TJ-6208Y	Nb Sub	Kulbir Singh	-do-	23 Oct 2015
TJ-6231M	Nb Sub	Balwinder Kumar	-do-	28 Dec 2015
TJ-6245M	Nb Sub	Raj Kumar	-do-	04 Feb 2016
TJ-6249H	Nb Sub	Des Raj	-do-	22 Feb 2016
TJ-6314X	Nb Sub	Pawan Singh	-do-	30 Apr 2016
TJ-6325K	Nb Sub	Naresh Kumar	-do-	16 Jun 2016
TJ-6405F	Nb Sub	Punnu Ram	-do-	05 Jul 2016
TJ-6480L	Nb Sub	Jagmohan Lal	-do-	10 Sep 2016
TJ-6481N	Nb Sub	Kishor Lal	-do-	10 Sep 2016
TJ-6378H	Nb Sub	Jhilmil Singh	-do-	23 Jan 2017
TJ-6333H	Nb Sub	Manbir Singh	124 Inf Bn (TA) SIKH	12Jul 2014
TJ-4790X	Nb Sub	Sudershan Kumar	126 Inf Bn (TA) JAK RIF	05 Mar 2004
TJ-4852M	Nb Sub	Balvir Singh	-do-	05 Mar 2004
TJ-4856H	Nb Sub	Parshotam Lal	-do-	05 Mar 2004
TJ-4939N	Nb Sub	Som Raj	-do-	01 Sep 2004
TJ-4940W	Nb Sub	Ramesh Kumar	-do-	01 Sep 2004
TJ-4942N	Nb Sub	Satinder Singh	-do-	01 Sep 2004

TJ-5015M	Nb Sub	Rameshwar Singh	126 Inf Bn (TA) JAK RIF	30 Jun 2006
TJ-5030F	Nb Sub	Arjun Singh	-do-	18 Feb 2008
TJ-5089F	Nb Sub	Brahama Nand	-do-	05 Jun 2008
TJ-5090W	Nb Sub	Dharam Chand Joria	-do-	26 Feb 2009
TJ-5402F	Nb Sub	Devi Singh	-do-	15 Sep 2010
TJ-5403K	Nb Sub	Surender Kumar	-do-	30 Sep 2011
TJ-5411H	Nb Sub	Desh Raj	-do-	29 Oct 2012
TJ-5559F	Nb Sub	Dayal Singh	-do-	03 Jan 2013
TJ-5627K	Nb Sub	Arjun Singh	-do-	28 Jul 2013
TJ-5628M	Nb Sub	Prem Das	-do-	01 Sep 2013
TJ-5653L	Nb Sub	Racchpal Kumar	-do-	01 Jan 2014
TJ-5723Y	Nb Sub	Kabal Singh	-do-	01 Aug 2014
TJ-5855M	Nb Sub	Kishori Lal Thakur	-do-	13 Jan 2015
TJ-5890P	Nb Sub	Naresh Kumar	-do-	13 Jan 2015
TJ-5902Y	Nb Sub (RT)	Om Parkash	-do-	08 Aug 2015
TJ-6026L	Nb Sub	Surinder Singh	-do-	19 Jan 2015
TJ-6124L	Nb Sub	Chhatar Singh Chauhan	-do-	06 Oct 2015
TJ-6184A	Nb Sub	Baldev Singh	-do-	09 Oct 2015
TJ-6185A	Nb Sub	Kameshwar Singh	-do-	14 Jan 2016
TJ-6247X	Nb Sub	Gopal Dass	-do-	14 Jan 2016
TJ-6272W	Nb Sub	Mohinder Singh	-do-	30 Mar 2016
TJ-6280P	Nb Sub	Jyoti Sharma	-do-	01 Jan 2017
TJ-6357M	Nb Sub	Ravinder Singh	-do-	01 Jan 2017
TJ-6412X	Nb Sub	Mast Ram	-do-	01 Jan 2017
TJ-5604H	Nb Sub	Lachhman Singh	152 Inf Bn (TA) SIKH	02 Jun 2015
TJ-5783N	Nb Sub	Jagtar Singh	-do-	22 Aug 2015
TJ-5888X	Nb Sub	Palwinder Singh	-do-	22 Oct 2015
TJ-6018M	Nb Sub	Gulzar Singh	-do-	22 Oct 2015
TJ-6019P	Nb Sub	Ashok Kumar	-do-	05 May 2016
TJ-6020K	Nb Sub	Rajwinder Singh	-do-	16 Sep 2016
TJ-6193F	Nb Sub	Baldev Raj	-do-	21 Nov 2016
TJ-6285N	Nb Sub/Clk	Yash Paul	-do-	01 Feb 2016
TJ-6290Y	Nb Sub	Om Prakash Verma	-do-	15 Feb 2017
TJ-6100F	Nb Sub	Ranjit Kumar Singh	157 Inf Bn (TA) (H&H) SIKH	12 Sep 2016
TJ-5033P	Nb Sub	Mool Chand	158 Inf Bn (TA) (H&H) SIKH LI	19 Oct 2006
TJ-5313P	Nb Sub	Satish Kumar	-do-	24 Jun 2010
TJ-5315NNb	Sub	Rajesh Kumar Verma	-do-	06 Aug 2012
TJ-5316W	Nb Sub	Netar Pal	-do-	06 Aug 2012

TJ-5137Y	Nb Sub	PK Pattanaik	158 Inf Bn (TA) (H&H) SIKH LI	01 Sep 2012
TJ-5444N	Nb Sub	Bhupendra Pal	-do-	13 Feb 2013
TJ-5445W	Nb Sub	Rajesh Paswan	-do-	29 Dec 2014
TJ-5588W	Nb Sub	Jagdish Kumar	-do-	15 Apr 2015
TJ-6221H	Nb Sub	Satish Chandra	-do-	23 Aug 2015
TJ-6222L	Nb Sub	Kuldip Singh	-do-	28 Aug 2015
TJ-6223N	Nb Sub	Santosh Kumar	-do-	23 Aug 2015
TJ-6624W	Nb Sub	Umed Singh	-do-	24 Aug 2015
TJ-6258K	Nb Sub	Pranbir Singh	-do-	22 Dec 2015
TJ-6342K	Nb Sub	Ashok Kumar	-do-	12 Apr 2017
TJ-6462H	Nb Sub	Satnarayan	-do-	05 Jun 2017
TJ-5733H	Nb Sub	Jagadamba Prasad Shukla	111 Inf Bn (TA) KUMAON	25 Jul 2014
TJ-6555X	Nb Sub/Clk	BS Rai	-do-	16 Jan 2016
TJ-6088L	Nb Sub	Mukesh Kumar	114 Inf Bn (TA) JAT	28 Jul 2014
TJ-6130Y	Nb Sub	Shiv Kumar Singh	-do-	28 Jul 2014
TJ-6131F	Nb Sub	Amit Thapa	-do-	14 Aug 2014
TJ-6132K	Nb Sub	Ritesh Semwal	-do-	14 Aug 2014
TJ-6162F	Nb Sub	Kripa Shankar	-do-	18 Dec 2014
TJ-6163K	Nb Sub	Sahvir Singh	-do-	18 Dec 2014
TJ-6202X	Nb Sub	Mukesh Chandra Tripathi	-do-	27 Feb 2015
TJ-6203A	Nb Sub	Rakesh Kumar	-do-	22 Jul 2015
TJ-6254N	Nb Sub	Jai Prakash Sharma	-do-	01 Nov 2015
TJ-6255W	Nb Sub	Dharmendra Singh	-do-	01 Nov 2015
TJ-6257F	Nb Sub	Vrak Sen Kumar	-do-	27 Jan 2016
TJ-6343M	Nb Sub	Ramakant	-do-	03 Jun 2016
TJ-6344P	Nb Sub	Nanhe Lal Yadav	-do-	21 Nov 2016
TJ-6359X	Nb Sub	Hari Sagar	-do-	28 Nov 2016
TJ-6360N	Nb Sub	Raj Pal Singh	-do-	28 Nov 2016
TJ-6416N	Nb Sub	Dev Raj	-do-	17 Feb 2017
TJ-6421Y	Nb Sub/Clk	Vikram Singh	-do-	09 May 2016
TJ-5715A	Nb Sub	Bijay Kumar Satapathy	120 Inf Bn (TA) BIHAR	20 Aug 2015
TJ-5833N	Nb Sub	Dibyasingh Jena	-do-	06 Feb 2016
TJ-6499K	Nb Sub	Rajendra Singh	153 Inf Bn (TA) DOGRA	07 Nov 2016
TJ-6543Y	Nb Sub	Ajay Kumar Jha	-do-	16 Dec 2016
TJ-6544N	Nb Sub	Sanjay Kumar	-do-	17 Dec 2016
TJ-6548F	Nb Sub	Hoshiyar Singh	-do-	18 Mar 2017
TJ-6549K	Nb Sub	Inder Raj	-do-	20 Mar 2017
TJ-5923P	Nb Sub	Joginder Singh	155 Inf Bn (TA) JAK RIF	01 Oct 2015

TJ-5924X	Nb Sub	Jagdish Raj	155 Inf Bn (TA) JAK RIF	01 Oct 2015
TJ-5954P	Nb Sub	Kehar Singh	-do-	01 Oct 2015
TJ-6030N	Nb Sub	Joginder Lal	-do-	01 Oct 2015
TJ-6071H	Nb Sub	Kamal Kishore	-do-	20 Nov 2015
TJ-6398W	Nb Sub/Clk	Bodh Raj	-do-	22 Nov 2016
TJ-6194K	Nb Sub	Karan Singh	-do-	04 Jan 2016
TJ-6307F	Nb Sub	Ashwini Kumar	-do-	05 Aug 2016
TJ-6108N	Nb Sub	Bhojraj Navnath	101 Inf Bn (TA) MARATHA LI	04 Feb 2017
TJ-6160W	Nb Sub	Shinde Dnyandeo	-do-	04 Feb 2017
TJ-6275K	Nb Sub	Bavaskar Gajanan	-do-	30 Jan 2017
TJ-6189Y	Nb Sub	Hanuman Singh Tanwar	108 Inf Bn (TA) MAHAR	31 Oct 2015
TJ-6207W	Nb Sub	Sri Vijay Bahadur Singh	-do-	02 Nov 2015
TJ-6233X	Nb Sub	Sri Lakhan Lal Kushwaha	-do-	02 Nov 2015
TJ-6319W	Nb Sub	Sri Akhilesh Kumar Mishra	-do-	10 Jun 2016
TJ-6320L	Nb Sub	Sri Narendra Prasad Mishra	-do-	18 Jul 2016
TJ-6346A	Nb Sub	Sri Rajendra Rajput	-do-	22 Jun 2016
TJ-6419F	Nb Sub	Sri Jai Ram Pandey	-do-	09 Jul 2016
TJ-6422F	Nb Sub	Sri Pramod Kumar Balmiki	-do-	17 Jun 2016
TJ-6450N	Nb Sub	Sri Ram Lakhan Harijan	-do-	21 Oct 2016
TJ-6530L	Nb Sub	Sri Prabhakar Mane	-do-	24 Dec 2016
TJ-5968P	Nb Sub	Raymane Rudranath Maruti	109 Inf Bn (TA) MARATHA LI	23 Apr 2015
TJ-5997K	Nb Sub	Sankhagond Suresh kadappa	-do-	10 Jul 2015
TJ-6106K	Nb Sub	More Akram Babu	-do-	11 Jan 2016
TJ-6107L	Nb Sub	Biradar Malkappa Malgonda	-do-	12 Jan 2016
TJ-6195M	Nb Sub	Patil Ramesh Shripati	-do-	11 Jan 2016
TJ-6197X	Nb Sub	Patil Shivaji Sadashiv	-do-	09 Feb 2017
TJ-6219L	Nb Sub	I Mohan Raj	110 Inf Bn (TA) MADRAS	02 Nov 2015
TJ-6286W	Nb Sub	B Asokan	-do-	01 Feb 2016
TJ-6386F	Nb Sub/Clk	Santosh Kumar C	-do-	09 Jun 2016
TJ-6361P	Nb Sub	Umesh A	-do-	10 Oct 2016
TJ-6345X	Nb Sub	Jayaprakash M	-do-	24 Jul 2016
TJ-5476W	Nb Sub	Pagi Pandurang Raya	115 Inf Bn (TA) MAHAR	14 Jun 2012
TJ-5826X	Nb Sub	Ningappa Gangi	-do-	05 Jun 2013
TJ-5921K	Nb Sub	Ramappa Kolli	-do-	12 Mar 2014
TJ-5975L	Nb Sub	Irappa Havaladar	-do-	10 Nov 2014
TJ-5976L	Nb Sub	Gopal Pawar	-do-	10 Nov 2014
TJ-5984M	Nb Sub	Pavanappa Desai	-do-	01 Mar 2015
TJ-6070A	Nb Sub	Arjun Kole	-do-	05 Jul 2016

TJ-6336W	Nb Sub	Sanjay Anand	115 Inf Bn (TA) MAHAR	15 Oct 2016
TJ-6105A	Nb Sub	Satish Kumar	116 Inf Bn (TA) PARA	10 Dec 2015
TJ-6262M	Nb Sub	Devraj Singh	-do-	14 Dec 2015
TJ-6485K	Nb Sub	Raj Kumar	-do-	23 Jul 2016
TJ-6486M	Nb Sub	Kedar Yadav	-do-	23 Jul 2016
TJ-6487P	Nb Sub	Baiju VR	-do-	24 Jul 2016
TJ-6488X	Nb Sub	Vinod Kumar	-do-	20 Aug 2016
TJ-6489A	Nb Sub	Warungase Machindranath Bhaurao	-do-	23 Jul 2016
TJ-6490P	Nb Sub	Milap Singh	-do-	23 Aug 2016
TJ-6491X	Nb Sub	Warungase Rajaram Damodhar	-do-	27 Oct 2016
TJ-5488L	Nb Sub	Selvaraj P	117 Inf Bn (TA) GUARDS	01 Jul 2016
TJ-5546K	Nb Sub	Mathew PK	-do-	16 Oct 2016
TJ-5547M	Nb Sub	M Duraisamy	-do-	28 Jul 2010
TJ-5663N	Nb Sub	N Subramanian	-do-	08 Dec 2011
TJ-5798W	Nb Sub	V Ramachandran	-do-	01 Oct 2012
TJ-5799Y	Nb Sub	P Punniamoorthy	-do-	22 Oct 2013
TJ-5800H	Nb Sub	Ganesan T	-do-	22 Oct 2013
TJ-5801L	Nb Sub	A Gnanadurai	-do-	22 Oct 2013
TJ-5885K	Nb Sub	K John Kennedy	-do-	13 Feb 2014
TJ-6154H	Nb Sub	S Dhanabalan	-do-	27 Sep 2014
TJ-6044N	Nb Sub	P Chinnaraj	-do-	21 Nov 2014
TJ-6155L	Nb Sub	R Madasamy	-do-	07 Aug 2016
TJ-6269W	Nb Sub	T Gajendran	-do-	04 Dec 2015
TJ-6270L	Nb Sub	M Augustin	-do-	07 Jan 2017
TJ-6271N	Nb Sub	P Chinnaiah	-do-	07 Jan 2017
TJ-3674H	Nb Sub	Shesrao Murodiya	118 Inf Bn (TA) GRENADIERS	01 Oct 1997
TJ-3675L	Nb Sub	Chandrakant Tayde	-do-	22 Nov 1997
TJ-3923W	Nb Sub	Virendra Singh	-do-	15 May 2000
TJ-5294H	Nb Sub	Mohan Singh	-do-	07 Feb 2012
TJ-5372P	Nb Sub	Jagdish Ahir	-do-	15 Oct 2012
TJ-5556N	Nb Sub	Angira Prasad Niwas Tiwari	-do-	02 Nov 2012
TJ-5009N	Nb Sub	Mahipal Sonewane	-do-	10 Jan 2014
TJ-6069A	Nb Sub	Naval Kishor Sharma	-do-	21 Apr 2014
TJ-5080Y	Nb Sub	Sarjeet Singh	-do-	12 Jul 2014
TJ-6166X	Nb Sub	Rajesh Kumar Deg	-do-	12 Nov 2014
TJ-6167A	Nb Sub	Santosh Kumar Yede	-do-	14 Mar 2015
TJ-6213K	Nb Sub	Ramniwas Khati	-do-	26 Sep 2015
TJ-6299N	Nb Sub	Sarvan Sing	-do-	01 Sep 2016
TJ-6318N	Nb Sub/Clk	Manoj Kumar Sharma	-do-	01 Jul 2016
TJ-6315A	Nb Sub	Dasharath Lal	-do-	01 Dec 2016

TJ-4774A	Nb Sub	Rajan PV	122 Inf Bn (TA) MADRAS	13 Mar 2006
TJ-5093K	Nb Sub	Muraleedharan E	-do-	15 Aug 2016
TJ-5096X	Nb Sub	Arokyaswamy P	-do-	15 Aug 2016
TJ-5099L	Nb Sub	Govindan K	-do-	16 Nov 2009
TJ-5100P	Nb Sub	Ramchandran M	-do-	06 Jan 2010
TJ-5101X	Nb Sub	George PM	-do-	26 Dec 2010
TJ-5441A	Nb Sub	Ashokan PNP	-do-	15 Aug 2016
TJ-5442H	Nb Sub	Varghese CJ	-do-	09 May 2012
TJ-5443L	Nb Sub	Sudhir Kumar MP	-do-	09 May 2012
TJ-5551P	Nb Sub	Raveeneran P	-do-	20 May 2014
TJ-5725K	Nb Sub	Pavithran PK	-do-	06 Mar 2015
TJ-5819F	Nb Sub	Arun Kumar N	-do-	06 Mar 2015
TJ-5946W	Nb Sub	Roy Joseph	-do-	06 Mar 2015
TJ-5987A	Nb Sub	Prabhakaran EV	-do-	10 Jun 2015
TJ-6036P	Nb Sub	Shaji T	-do-	26 Sep 2015
TJ-6037X	Nb Sub	Vinod Kannothe	-do-	01 Oct 2015
TJ-6109W	Nb Sub	Karthikeyan P	-do-	12 Jul 2016
TJ-6110L	Nb Sub	Kamalakshan PV	-do-	12 Jul 2016
TJ-6321N	Nb Sub	Prakash KP	-do-	04 Nov 2016
TJ-6439P	Nb Sub	Pradeep PC	-do-	04 Nov 2016
TJ-6440K	Nb Sub	Unnikrishanan PK	-do-	04 Nov 2016
TJ-6441M	Nb Sub	Santosh VV	122 Inf Bn (TA) MADRAS	04 Nov 2016
TJ-6464N	Nb Sub	Jayaraj M	-do-	04 Nov 2016
TJ-5955X	Nb Sub	GS Parameshwar Dayal	125 Inf Bn (TA) GUARDS	01 Apr 2013
TJ-6009L	Nb Sub	Kommalapati Adeiah	-do-	06 Sep 2013
TJ-6216X	Nb Sub	Rajeshwar Reddy S	-do-	20 Jun 2015
TJ-6218H	Nb Sub	Sahadevan G	-do-	01 Nov 2015
TJ-6232P	Nb Sub	Kunapu Devadasu	-do-	01 Mar 2016
TJ-6240N	Nb Sub	E Madhava Reddy	-do-	01 Apr 2016
TJ-6241W	Nb Sub	Naresh Kumar GM	-do-	01 Dec 2016
TJ-6385Y	Nb Sub/Clk	Bhasker C	-do-	26 Apr 2016
TJ-6425Y	Nb Sub	P Jagath Reddy	-do-	01 Apr 2017
TJ-6433N	Nb Sub	Chandrala LN Kumar	-do-	10 Aug 2017
TJ-5578M	Nb Sub	Kunhikrishanan AM	154 Inf Bn (TA) BIHAR	01 Dec 2012
TJ-5579P	Nb Sub	S Ravichandran	-do-	01 Jan 2014
TJ-5580K	Nb Sub	SK Bachhan	-do-	01 Jan 2014

TJ-5581M	Nb Sub	Diwan Singh Danu	154 Inf Bn (TA) BIHAR	01 Jan 2014
TJ-5599H	Nb Sub	R C Martha	-do-	01 Jan 2014
TJ-5664X	Nb Sub	S K Mishra	-do-	03 Aug 2013
TJ-5973A	Nb Sub	Nanda Kishore Sethy	-do-	01 Sep 2014
TJ-5986X	Nb Sub	Satheesan TV	-do-	01 Jun 2015
TJ-6077Y	Nb Sub	Biju Markose	-do-	01 Jun 2015
TJ-6169L	Nb Sub	Sudarsana Patra	-do-	13 Oct 2015
TJ-6281X	Nb Sub	D K Singh	-do-	01 Aug 2016
TJ-6282A	Nb Sub	Narayanan M	-do-	01 Jan 2017
TJ-6283H	Nb Sub	Roy Joseph	-do-	01 Apr 2017
TJ-6547Y	Nb Sub/Clk	Indra Kumar Sharma	-do-	16 Dec 2016
TJ-5103H	Nb Sub	Mukesh Gaur	414 ASC BN MKTG (TA)	21 Nov 2003
TJ-4819P	Nb Sub	PN Lele	-do-	19 Nov 2001
TJ-4818M	Nb Sub	Anurag R Jadhav	-do-	16 Sep 2001
TJ-5058A	Nb Sub	Ramesh Kokane	-do-	07 Jul 2003
TJ-5950Y	Nb Sub	Bishnu Bdr Limbu	119 Inf Bn (TA) ASSAM	15 Mar 2011
TJ-5951F	Nb Sub	Laljohn	-do-	15 Mar 2011
TJ-5952K	Nb Sub	Biswajit Sinha	-do-	15 Mar 2011
TJ-6023X	Nb Sub	L Shyamal Kr Singha	-do-	27 Sep 2011
TJ-6170A	Nb Sub	A Romio Singh	-do-	21 Nov 2012
TJ-6243F	Nb Sub	Ngelchhunghnung	-do-	15 Jul 2013
TJ-6469M	Nb Sub	Nirmal Das	-do-	12 Jun 2015
TJ-5904K	Nb Sub	D Sundarya	166 Inf Bn (TA) (H&H) ASSAM	08 Nov 2010
TJ-5983K	Nb Sub	DS Parmar	-do-	20 Jun 2011
TJ-6049K	Nb Sub	Gurudev Bhuvanagiri	-do-	01 Jan 2012
TJ-6350H	Nb Sub	Babul Rajbongshi	-do-	23 Aug 2014
TJ-6358P	Nb Sub	Premeswar Das	-do-	22 Sep 2014
TJ-6382L	Nb Sub	Ganpat Prasad Yadav	-do-	05 Nov 2014
TJ-6383N	Nb Sub	Zakir Hussain Choudhary	-do-	05 Nov 2014
TJ-6435Y	Nb Sub	Keshab Patar	-do-	23 Mar 2015
TJ-6514N	Nb Sub	Narinder Singh	-do-	23 Sep 2015
TJ-6562N	Nb Sub	Manoj Prasad Yadav	-do-	11 Jan 2016
TJ-6534F	Nb Sub	Uma Shankar Yadav	111 Inf Bn (TA) KUMAON	01 Dec 2017
TJ-6555X	Nb Sub/Clk	Bivhaw Shankar Rai	-do-	16 Jan 201
TJ-6570M	Nb Sub	Tuntun Prasad Gupta	-do-	01 Mar 2018
TJ-6608L	Nb Sub	Abhay Vir Singh	-do-	01 Mar 2018

The president is Pleased to make the following appointment/promotion (whichever is applicable):—

Grant of Direct JCO Commission as Nb Sub

Now TJ No	Name	Unit	Wef
TJ-5728X	Shri Ghan Shyam	105 Inf Bn (TA) RAJ RIF	31 Jan 2009
TJ-6267L	Ex Sub Jagbir Singh	132 Inf Bn (TA) Eco Rajput	30 Dec 2016
TJ-6268N	Ex Nb Sub Karan Singh Yadav	-do-	30 Dec 2016
TJ-5892A	Ex Sub Satish Kumar	133 Inf Bn (TA) Eco DOGRA	07 Jul 2015
TJ-5893H	Ex Sub Balraj Singh	-do-	07 Jul 2015
TJ-5953M	Ex Sub Gagan Singh	-do-	07 Jul 2015
TJ-6624H	Ex Nb Sub Ashok Kumar Barua	-do-	31 May 2016
TJ-5786F	Shri Nagendra Singh	1101 Rly Engr (TA) Regt	01 May 2009
TJ-5787K	Shri Daniel Singh	-do-	01 Jul 2009
TJ-5788M	Shri Vipul Nautiyal	-do-	02 Jul 2009
TJ-5790K	Shri Ashok Kumar	-do-	01 Jul 2009
TJ-5908A	Shri Jaswant Singh	-do-	06 Sep 2010
TJ-5909H	Shri Satish Gondwal	-do-	06 Sep 2010
TJ-6238W	Shri Kanhaiya Lal Meena	-do-	16 Aug 2012
TJ-6274H	Shri Shailendra kumar Singh	-do-	25 Sep 2015
TJ-6250X	Shri Sunil Prasad Bahuguna	108 Inf Bn (TA) MAHAR	01 Aug 2013
TJ-6563W	Shri Anil Kumar	115 Inf Bn (TA) MAHAR	01 Feb 2016
TJ-5598W	Shri B Subburaman	117 Inf Bn (TA) THE GOURDS	01 Nov 2007
TJ-6594W	Shri Amendra Sharma	166 Inf Bn (TA) (H&H) ASSAM	15 Mar 2016
TJ-6625L	Ex Sub/Clk Sadasivan K	128 Inf Bn (TA) Eco Raj Rif	16 May 2016

The president is pleased to make the following appointment/promotion (whichever is applicable):—

To be Nb Sub

Army No	TJ- No	Rank	Name	Unit	Wef
10466992M	6327P	Hav	Lok Raj	102 Inf Bn (TA) PUNJAB	21 Jun 2014
10466987F	6328X	Hav	Harjinder Singh	-do-	21 Jun 2014
10466953N	6329A	Hav	Sudhir Singh	-do-	21 Jun 2014
10466956F	6415L	Hav	Tarsem Singh	-do-	15 Jan 2015
10467138H	6584M	Hav	Vikram Singh	-do-	22 Feb 2016
10467134W	6585P	Hav	Satbir Singh	-do-	22 Feb 2016
10467169M	6586X	Hav	Rajinder Pal	-do-	22 Feb 2016
10467211A	6638H	Hav	Hem Raj	-do-	14 Jul 2016
10467251F	6690L	Hav	Mahabir	-do-	24 Oct 2016
10467318P	6691N	Hav	Gajender Dutt	-do-	18 Nov 2016
10480422F	6390K	Hav	Yashveer Singh	103 Inf Bn (TA) SIKH LI	26 Nov 2014
10480450N	6411P	Hav	Surjit Singh	-do-	03 Jan 2015
10480655H	6556A	Hav	Emmanuel	-do-	13 Jan 2016

10480650K	6616K	Hav	Arun Kumar	103 Inf Bn (TA) SIKH LI	27 May 2016
10480651M	6617M	Hav	Kuldip Singh	-do-	27 May 2016
10480714K	6715L	Hav	Yash Paul Singh	-do-	30 Nov 2016
10480739W	6748X	Hav	Jagjit Singh	-do-	04 Feb 2017
10135290H	6086A	Hav	Devender Kumar	105 Inf Bn (TA) RAJ RIF	30 Sep 2011
10135289Y	6115K	Hav	Ram Kishan	-do-	21 Nov 2011
10135346P	6122A	Hav	Ajeet Singh	-do-	31 May 2012
10135347X	6136A	Hav	Gulab Singh	-do-	11 Jul 2012
10135348A	6142N	Hav	Naresh Kumar	-do-	16 Jul 2012
10135713W	6178M	Hav	Suren Kumar Majhi	-do-	17 Nov 2012
10135451L	6179P	Hav	Sher Singh	-do-	28 Dec 2012
10135777P	6291F	Hav	Virender	-do-	11 Oct 2013
10135665F	6293M	Hav	Mahesh Singh Rathore	-do-	15 Feb 2014
10135686X	6332A	Hav	Jogender Singh	-do-	06 Jul 2014
10135693N	6396L	Hav	Virender Singh	-do-	24 Nov 2014
10135702K	6397N	Hav	Mahavir Singh	-do-	24 Nov 2014
10135715F	6420W	Hav	Raj Vir Singh	-do-	23 Jan 2015
10135726N	6430A	Hav	Ramawatar	-do-	22 Feb 2015
10135759Y	6515W	Hav	Vinod Kumar	-do-	05 Jan 2015
10135767X	6516Y	Hav	Jugal Kishore	-do-	09 Sep 2015
10135830M	6587A	Hav	Anand Kumar	-do-	24 Feb 2016
10135859K	6588H	Hav	Jitender Kumar	-do-	24 Feb 2016
10135925F	6592L	Hav	Rajesh Kumar	-do-	12 Mar 2016
10135858F	6663F	Hav	Vijay Kumar Tiwari	-do-	01 Sep 2016
10135881P	6664K	Hav	Bhagwan Singh Yadav	-do-	01 Sep 2016
10135866A	6665M	Hav/Clk	Subhash Singh	-do-	05 Sep 2016
10198683Y	6557H	Hav	Satish Kumar	112 Inf Bn (TA) DOGRA	30 Dec 2015
10198686M	6576N	Hav	Resham Singh	-do-	16 Feb 2016
10198690P	6577W	Hav	Labh Singh	-do-	16 Feb 2016
10198692A	6578Y	Hav	Sanjeev Kumar	-do-	12 Feb 2016
10198715W	6579F	Hav	Vijay Kumar	-do-	11 Feb 2016
10198729W	6623A	Hav	Dalbir Singh	-do-	07 Jun 2016
10198725A	6646F	Hav	Balwinder Singh	-do-	30 Jul 2016
10198751F	6647K	Hav	Deep Kumar	-do-	30 Jul 2016
10198802K	6671A	Hav	Ravinder Singh	-do-	10 Sep 201
10198814Y	6672A	Hav	Mahan Veer	-do-	10 Sep 2016
10315116K	6126W	Hav	Mahabir Singh	124 Inf Bn (TA) SIKH	11 Jun 2012
10315316A	6165K	Hav	Raj Kumar	-do-	22 Oct 2012

10315216F	6276M	Hav	Dharampal	124 Inf Bn (TA) SIKH	21 Dec 2013
10315387F	6287Y	Hav	Parmod Kumar	-do-	26 Jan 2014
10315478L	6334L	Hav	Harbhajan Singh	-do-	12 Jul 2014
10315498X	6341F	Hav	Satish	-do-	02 Sep 2014
10315499F	6519M	Hav	Kiran Kumar	-do-	28 Oct 2015
10315571M	6538X	Hav	Harshpati	-do-	01 Dec 2015
10315493A	6539A	Hav	Trilok Chand	-do-	01 Dec 2015
10315496N	6540P	Hav	Anand Singh	-do-	01 Dec 2015
10315567K	6575L	Hav	Sokender Singh	-do-	24 Feb 2016
10315486K	6694F	Hav	Hem Raj	-do-	01 Nov 2016
10315495L	6695K	Hav	Satish Kumar	-do-	01 Nov 2016
10315502L	6696M	Hav	Rakesh Kumar	-do-	03 Nov 2016
10315509L	6697P	Hav	Deva Nand	-do-	01 Nov 2016
10315642H	6698X	Hav	Sushil Kumar	-do-	01 Nov 2016
10315617K	6727F	Hav	Satpal Kumar	-do-	02 Jan 2017
10362228P	6220A	Hav	Wakil Raj	126 Inf Bn (TA) JAK RIF	01 May 2013
10362522P	6413A	Hav	Nanak Chand	-do-	13 Jan 2015
10362530N	6414H	Hav	Hardev Singh	-do-	13 Jan 2015
10362533F	6526H	Hav	Varinder Singh	-do-	06 Oct 2015
10362539H	6527L	Hav	Sewa Singh	-do-	06 Oct 2015
10362562W	6568P	Hav	Mohinder Singh	-do-	14 Jan 2016
10362563Y	6569Y	Hav	Joginder Pal	-do-	14 Jan 2016
10362572A	6607H	Hav	Darshan Lal	-do-	23 Apr 2016
10362691W	6602K	Hav/Clk	Karan Vir Singh	-do-	12 Apr 2016
10467188X	6634M	Hav	Desh Raj	150 Inf Bn (TA) PUNJAB	17 Jun 2016
10467480M	6637A	Hav/Clk	Narinder Kumar	-do-	06 Jul 2016
10467208A	6631K	Hav	Wazir Singh	-do-	29 Dec 2016
10466608Y	6000W	Hav	Jai vir	-do-	29 Dec 2016
10315274Y	6330P	Hav	Gian Chand	152 Inf Bn (TA) SIKH	30 Jun 2014
10315528L	6444A	Hav	Vinod Kumar	-do-	30 Mar 2015
10315650F	6507X	Hav	Satnam Singh	-do-	22 Aug 2015
10315482N	6550Y	Hav	Jai Chand	-do-	01 Jan 2016
10480761F	6551F	Hav	Ratan Singh	-do-	01 Jan 2016
10315638A	6552K	Hav	Anurudha Prasad	-do-	01 Jan 2016
10315649M	6610H	Hav	Rattan Chand	-do-	01 Jun 2016
10315689N	6686H	Hav	Dhananjay Prasad	-do-	01 Nov 2016
10291244Y	6510X	Hav	Sivadasan Kottaron	158 Inf Bn (TA) SIKH LI	09 Aug 2015
10291412N	6511A	Hav	Karthikeyan M	-do-	29 Aug 2015

10480230K	6512H	Hav	Kulwant Singh	158 Inf Bn (TA) SIKH LI	29 Aug 2015
10315080W	6558L	Hav	Surender Kumar	-do-	06 Jan 2016
10315224N	6559N	Hav	Rakesh Kumar Singh	-do-	06 Jan 2016
10260477A	6650K	Hav	S K Sahu	-do-	15 Aug 2016
10291414Y	6714K	Hav	Omanakuttan	-do-	06 Dec 2016
12371535	5758P	Hav	JP Uppal	1101 Rly Engr (TA) Regt	01 Sep 2009
12085315	5773K	Hav	Vijay Kumar Uppal	-do-	01 Sep 2009
12031403	5794A	Hav	Ashok Kumar	-do-	08 Nov 2010
12024478	5856P	Hav	Sanjay Kumar Sharma	-do-	06 Sep 2010
12031425	5857X	Hav	Tilak Raj	-do-	06 Sep 2010
12367930	5858A	Hav	DS Parmar	-do-	06 Sep 2010
12367934	5859H	Hav	Hans Raj	-do-	07 Jul 2010
12367965	5860X	Hav	Avneesh Chander	-do-	08 Feb 2011
12368000	5862H	Hav	Devender Singh	-do-	07 Jul 2010
12368001	5863L	Hav	Sube Singh	-do-	06 Sep 2010
12371562	5969X	Hav	Vijay Kumar	-do-	05 Sep 2011
12367952	5970M	Hav	Sanjeev Kumar	-do-	05 Sep 2011
10260530A	6503F	Hav	Sayed Zamiur Rehman	120 Inf Bn (TA) BIHAR	20 Aug 2015
10260594L	6573A	Hav	Arakshita Khuntia	-do-	29 Jan 2016
10390361N	6500N	Hav	Sri Rakesh	151 Inf Bn (TA) JAT	20 Aug 2015
10406113K	6529W	Hav	Anil Kumar Tiwari	-do-	12 Oct 2015
10390430Y	6639L	Hav	Nagendra Prasad Mishra	-do-	19 Jul 2016
10390450M	6640A	Hav	Panch Raj Singh	-do-	19 Jul 2016
10390478M	6687L	Hav	Roop Chand Patel	-do-	10 Oct 2016
10390488W	6688N	Hav	Amit Kumar Tripathi	-do-	10 Oct 2016
10390571N	6689W	Hav	Mathyes Silvester	-do-	10 Oct 2016
10505183L	6741N	Hav/Clk	Rajeev Kumar Jha	-do-	17 Jan 2017
10390587Y	6773W	Hav	Sri Sajjan Yadav	-do-	01 Apr 2017
0274965N	6787A	Hav	Anup Singh	-do-	30 Jun 2017
10198824H	6600Y	Hav	Harjit Singh	153 Inf Bn (TA) DOGRA	04 Apr 2016
10480812K	6603M	Hav	Rajendra Prasad	-do-	01 May 2016
10480840W	6604W	Hav	Lilu Ram Jat	-do-	18 May 2016
10525122P	6605X	Hav	Serves Tiwari	-do-	01 May 2016
10525129Y	6606A	Hav	Brahma Dutt Sharma	-do-	01 May 2016
10525130N	6703X	Hav	Balindra Singh	-do-	04 Nov 2016
10525142H	6704A	Hav	Parshotam Singh	-do-	16 Nov 2016
10525156H	6778P	Hav	Ravi Singh	-do-	01 May 2017
10362519P	6353W	Hav	Om Prakash	155 Inf Bn (TA) JAK RIF	27 Aug 2014

10362584P	6407M	Hav	Paramjit Singh	155 Inf Bn (TA) JAK RIF	30 Dec 2014
10362537X	6522M	Hav	Satpal	-do-	01 Oct 2015
10362602M	6523P	Hav	Vijay Kumar	-do-	01 Oct 2015
10362623H	6524X	Hav	Narinder Singh	-do-	01 Oct 2015
10362652X	6525A	Hav	Narinder Kumar	-do-	01 Oct 2015
10362664X	6537P	Hav	Saran Das	-do-	20 Nov 2015
10362667A	6564Y	Hav	Yadav Chand	-do-	11 Jan 2016
10362749X	6654A	Hav	Rajinder Kumar	-do-	05 Aug 2016
10119980N	6108N	Hav	Bhojrao Navnath	101 Inf Bn (TA) MARATHA LI	03 May 2012
10120067Y	6160W	Hav	Shinde Dnyandeo	-do-	03 Oct 2012
10120077W	6275K	Hav	Bavaskar Gajanan	-do-	04 Dec 2013
10119999M	6072A	Hav	Salunke Ranjiv	-do-	01 Dec 2011
10120221A	6448W	Hav	Utekar Mukesh	-do-	18 Apr 2015
10120108L	6449Y	Hav	Ghadage Vajinath	-do-	18 Apr 2015
10120146F	6465W	Hav	Bhore Rajendra	-do-	12 Jun 2015
10120145Y	6574H	Hav	Ahire Sandip	-do-	10 Feb 2016
10120209H	6595Y	Hav/Clk	Naik Kiran	-do-	26 Mar 2016
10120173L	6721A	Hav	Rankhamb Venkat	-do-	09 Jan 2017
10120224N	6722H	Hav	Bhore Nandkumar	-do-	09 Jan 2017
10120232M	6723L	Hav	Ghoge Sachin	-do-	09 Jan 2017
10390371K	6531N	Hav	Sri Gajraj Singh Lodhi	108 Inf Bn (TA) MAHAR	06 Nov 2015
10390509F	6565F	Hav	Dinesh Kumar Digarse	-do-	20 Jan 2016
10390468H	6566K	Hav	Dharam Pal	-do-	16 Jan 2016
10390323H	6626N	Hav	Sri Mohan Singh	-do-	10 Jun 2016
10390469L	6627W	Hav	Mohd Rahis Khan	-do-	20 Jun 2016
10390535H	6628Y	Hav	Govind Prasad Yadav	-do-	09 Jul 2016
10390541W	6629F	Hav	Rajeev Lochan Patel	-do-	10 Jun 2016
10390542Y	6630Y	Hav	Leeladhar Kushwaha	-do-	11 Jun 2016
10390428F	6680Y	Hav	Raj Kumar Patel	-do-	21 Oct 2016
10150374Y	6196P	Hav	Mahadeo Shankar Patil	109 Inf Bn (TA) MARATHA LI	19 Feb 2013
10150698K	6310F	Hav	Bodekar Ganpat Shahu	-do-	01 Apr 2014
10150570Y	6446L	Hav	Mardane Shivaji Keshav	-do-	08 Apr 2015
10150523F	6447N	Hav	Baravakar Bhagavan Baban	-do-	08 Apr 2015
10150529H	6460X	Hav	Patil Dattatray Ananda	-do-	16 May 2015
10150552W	6482W	Hav	Patil Tanaji Hindurao	-do-	21 Jul 2015
10150586K	6614Y	Hav	Sawant Rajesh Vitthal	-do-	15 Jun 2016
10150615N	6674N	Hav	Patil Sanju Pandurang	-do-	24 Sep 2016
10150606M	6675W	Hav	Salvi Shamrao Vithoba	-do-	24 Sep 2016

10150622K	6749A	Hav	Pawar Mangesh Maruti	109 Inf Bn (TA) MARATHA LI	09 Feb 2017
10150623M	6750P	Hav	Mane Annaso Bacharam	-do-	09 Feb 2017
10150626A	6751X	Hav	Avghade Sanjay Pandurang	-do-	14 Feb 2017
10150641P	6752A	Hav	Udade Anteshwar Taterao	-do-	09 Feb 2017
10150646N	6753H	Hav	Naik Uttam Bhikaji	-do-	09 Feb 2017
10166728A	6219L	Hav	I Mohan Raj	110 Inf Bn (TA) MADRAS	08 Apr 2013
10166736Y	6286W	Hav	B Asokan	-do-	20 Jan 2014
10166944N	6386F	Hav/Clk	Santosh Kumar C	-do-	31 Oct 2014
10166803Y	6361P	Hav	Umesh A	-do-	09 Oct 2014
10166756M	6345X	Hav	Jayaprakash M	-do-	23 Jun 2016
10166929Y	6535K	Hav	N Nallamani	-do-	30 Nov 2015
10166898K	6561L	Hav	Saji Joseph	-do-	11 Nov 2016
10166951W	6699A	Hav	Vijaya Kumar PM	-do-	31 Oct 2016
10166952W	6700K	Hav	Suresh Kumar P	-do-	31 Oct 2016
10166959W	6733P	Hav	M Jotheesh Kumar	-do-	31 Dec 2016
10166964F	6734X	Hav	KV Ajesh	-do-	31 Dec 2016
10421117X	6337Y	Hav	Raju Kumbar	115 Inf Bn (TA) MAHAR	13 Jul 2014
10421247P	6338Y	Hav	Babu Patil	-do-	13 Jul 2014
10421212K	6354Y	Hav	Kempanna Patil	-do-	01 Oct 2014
10421219N	6461A	Hav	Annasaheb Patil	-do-	01 Jun 2015
10421214P	6536M	Hav	Suresh Yakkundi	-do-	29 Oct 2016
10505293A	6599P	Hav/Clk	Vikas Kumar Mishra	-do-	14 Apr 2016
10421241Y	6673L	Hav	Shekhar Patil	-do-	29 Sep 2016
10437611X	6546W	Hav	Teli Anna Kashinath	116 Inf Bn (TA) PARA	15 Dec 2015
10437547L	6553M	Hav	Shinde Vilas Dada	-do-	22 Dec 2015
10437572K	6554N	Hav	Lagad Subhash Srirang	-do-	22 Dec 2015
10437677N	6661W	Hav	Kadbhane Baban Ananda	-do-	23 Aug 2016
10437698K	6662Y	Hav	Borade Sopan Kacheshwar	-do-	23 Aug 2016
10437560P	6692W	Hav	Sheware Hiranman Namdeo	-do-	21 Oct 2016
10437719P	6693Y	Hav	Bhondage Maruti Trimbak	-do-	21 Oct 2016
10437701Y	6717X	Hav	Pagar Masu Trimbak	-do-	08 Dec 2016
10437574P	6742W	Hav	Sonawane Pramod Ganpat	-do-	19 Jan 2017
10437624P	6743Y	Hav	Tupake Vitthal Dada	-do-	01 Feb 2017
10452474F	5488L	Hav	Selvaraj P	117 Inf Bn (TA) GUARDS	23 Oct 2006
10452517L	5546K	Hav	Mathew PK	-do-	25 Apr 2007
10452502H	5547M	Hav	M Duraisamy	-do-	25 Apr 2007
10452586F	5663N	Hav	N Subramanian	-do-	25 Jul 2008
10452640K	5798W	Hav	V Ramachandran	-do-	26 Oct 2009

10452682W	5799Y	Hav	P Punniamoorthy	117 Inf Bn (TA) GUARDS	26 Oct 2009
10452577A	5800H	Hav	Ganesan T	-do-	26 Oct 2009
10452677L	5801L	Hav	A Gnanadurai	-do-	26 Oct 2009
10452623K	5885K	Hav	K John Kennedy	-do-	28 Jul 2010
10452778Y	6154H	Hav	S Dhanabalan	-do-	16 Sep 2012
10452726Y	6044N	Hav	P Chinnaraj	-do-	08 Dec 2011
10452820M	6155L	Hav	R Madasamy	-do-	05 Oct 2012
10452825L	6269W	Hav	T Gajendran	117 Inf Bn (TA) GUARDS	09 Nov 2013
10452807H	6270L	Hav	M Augustin	-do-	09 Nov 2013
10452840A	6271N	Hav	P Chinnaiah	-do-	09 Nov 2013
10452899A	6475A	Hav	M Vijayarajan	-do-	27 Jun 2015
10452903X	6476H	Hav	S James Pappu Axdrnandan	-do-	27 Jun 2015
10452905H	6477L	Hav	S Muruganandan	-do-	27 Jun 2015
10452954L	6761F	Hav	A Ramalingam	-do-	18 Feb 2017
10452968L	6762K	Hav	Venkatesan R	-do-	18 Feb 2017
10452969N	6763M	Hav	S Muthuramu	-do-	18 Feb 2017
10452974Y	6764P	Hav	Raja P	-do-	18 Feb 2017
10228267M	6339K	Hav	Pramod Kanoje	118 Inf Bn (TA) GRENADIERS	01 Jan 2017
10228274H	6384W	Hav	Mal Singh	-do-	29 Oct 2014
10228200N	6445A	Hav	Jaswant Singh Godara	-do-	01 Mar 2015
10228211A	6541X	Hav	Shiv Kumar Sharma	-do-	01 Aug 2015
10228304P	6679M	Hav	Pravin Kumar Thakre	-do-	01 Jul 2016
10228278Y	6711W	Hav	Mahendra Singh	-do-	01 Sep 2016
10228302K	6767H	Hav	Harendra Tekam	-do-	01 Jan 2017
10291447K	6518K	Hav	Satheesan P	122 Inf Bn (TA) MADRAS	26 Sep 2015
10291711M	6542A	Hav	Abhilash AK	-do-	01 Oct 2015
10291493Y	6641H	Hav	Viju CK	-do-	01 Aug 2016
10291502L	6642L	Hav	Rajan K	-do-	01 Aug 2016
10291518A	6643N	Hav	Praveen Kumar PV	-do-	01 Aug 2016
10291730X	6644W	Hav/Clk	Ramesan KK	-do-	18 Jul 2016
10291525W	6705H	Hav	Sujeesh Kumar KK	-do-	09 Nov 2016
10291528K	6706L	Hav	Biju KG	-do-	09 Nov 2016
10291536H	6707N	Hav	Sreejith KS	-do-	09 Nov 2016
10291543Y	6708W	Hav	Vinodan KV	-do-	09 Nov 2016
10291623K	6712Y	Hav	Rajesh k	-do-	01 Dec 2016
10329187W	5955X	Hav	GS Parameshwar Dayal	125 Inf Bn (TA) GUARDS	22 Mar 2011
10329244M	6009L	Hav	Kommalapati Adeiah	-do-	01 Sep 2011

10329240W	6216X	Hav	Rajeshwar Reddy S	125 Inf Bn (TA) GUARDS	08 Apr 2013
10329260K	6218H	Hav	Sahadevan G	-do-	08 Apr 2013
10329271W	6232P	Hav	Kunapu Devadasu	-do-	18 Jun 2013
10329290F	6240N	Hav	E Madhava Reddy	-do-	05 Jul 2013
10329301H	6241W	Hav	Naresh Kumar GM	-do-	05 Jul 2013
10329551K	6385Y	Hav/Clk	Bhasker C	-do-	03 Nov 2014
10329295A	6425P	Hav	P Jagath Reddy	-do-	05 Feb 2015
10329351N	6433N	Hav	Chandarala LN Kumar	-do-	25 Feb 2015
10329398Y	6533Y	Hav	B Gopal	-do-	03 Nov 2015
10329382K	6590A	Hav	L Balamasharma	-do-	01 Mar 201
10329350L	6601F	Hav	N Sreenivasulu	-do-	08 Apr 2016
10329452F	6720X	Hav	V Vikas Kumar	-do-	26 Dec 2016
10329496Y	6780M	Hav	Joga Rao Koona	-do-	22 Apr 2017
10260349H	6169L	Hav	Sudarsana Patra	154 Inf Bn (TA) BIHAR	01 Dec 2012
10260419W	6281X	Hav	D K Singh	-do-	08 Jan 2014
10291367M	6282A	Hav	Narayanan M	-do-	08 Jan 2014
10291377W	6283H	Hav	Roy Joseph	-do-	08 Jan 2014
10260461P	6284L	Hav	K C Pradhan	-do-	08 Jan 2014
10260465L	6298L	Hav	Rajakishore Rath	-do-	19 Feb 2014
10260617F	6371Y	Hav	Sudhakar Jani	-do-	19 Sep 2014
10260674H	6468K	Hav	Manoj Samal	-do-	01 Jun 2015
10260635K	6467F	Hav	Rajlal Soren	-do-	03 Jun 2015
10260605M	6513L	Hav	J P Manasing	-do-	08 Sep 2015
10228273A	6547Y	Hav/Clk	Indra Kumar Sharma	-do-	11 Dec 2015
10260753X	6649N	Hav	J N Mahanta	-do-	01 Aug 2016
10260760N	6754L	Hav	Padmalochan Nayak	-do-	08 Feb 2017
1026767X	6779X	Hav	Ramesh Kumar Singh	-do-	01 May 2017
12867034L	4521	Hav	K N Deasi	414 ASC Bn Mktg (TA)	03 Jul 1998
10245569P	6483Y	Hav	Bharat Dkhar	119 Inf Bn (TA) ASSAM	27 Jul 2015
10245573X	6484F	Hav	M Priya Kumar Singh	-do-	23 Jul 2015
10245578W	6492A	Hav	L Bhogen Singh	-do-	01 Aug 2015
10245594N	6493H	Hav	Dipen Patgiri	-do-	05 Aug 2015
10245689N	6676Y	Hav	Dilip Sinha	-do-	01 Sep 2016
10245713X	6494L	Hav/Clk	SK Pandab	-do-	01 Aug 2015
10245702N	6677F	Hav	Basudeb Dev	-do-	01 Sep 2015
10245738L	6746M	Hav	Jim Syngkly	-do-	01 Feb 2017
10245740H	6747P	Hav	Babul Kumar Nath	-do-	01 Feb 2017
10274940F	6613W	Hav/Clk	S K Singh	166 Inf Bn (TA) (H&H) ASSAM	19 May 2016

10198815F	6648M	Hav	Kaka Ram	166 Inf Bn (TA) (H&H) ASSAM	19 Aug 2016
10260515L	6652P	Hav	Sahid Mahapatra	-do-	19 Aug 2016
10260527A	6653X	Hav	Satyanarayan	-do-	19 Aug 2016
10245543A	6651M	Hav	Babul Ch Deb	-do-	20 Aug 2016
10182530L	6656L	Hav	Rajbir Singh Yadav	111 Inf Bn (TA) KUMAON	01 Aug 2016
10182531N	6657N	Hav	Rajendra Prasad	-do-	01 Aug 2016
10182570M	6769N	Hav	Ram Kumar	-do-	01 Jan 2017
10182574H	6770H	Hav	Manish Kumar	-do-	01 Jan 2017
10182631Y	6830M	Hav	Uday Pratap Singh	-do-	01 Dec 2017
10374783P	6631Y	Hav	S B Thapa	164 Inf Bn (TA) (H&H) ASSAM	15 Feb 2016
10535129M	6758F	Hav	Satyajit Patra	-do-	21 Dec 2016
10535343P	6768L	Hav	Kousik Sen	-do-	14 Mar 2017
10245796P	6781P	Hav	A K Singha	-do-	28 Apr 2017

SUDERSHAN KUMAR
Under Secretary

ARMY BRANCH
REGULAR ARMY
CORPS OF MILITARY POLICE

No. 05, dated 7th December 2018—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar Major (MP)

Sub	Ravindra Kumar Singh	(JC-819125N)	1st Jan 2014
Sub	Prakasan T	(JC-819182P)	1st Mar 2014
Sub	Mahabir Singh Negi	(JC-819187N)	1st Mar 2014
Sub	Naresh Kumar	(JC-819195M)	1st Apr 2014
Sub	Nawale Laxman Jotiram	(JC-819206N)	1st Apr 2014
Sub	Ram Dev Singh	(JC-819286W)	1st Apr 2014
Sub	Jitendra Kumar Singh	(JC-819348L)	1st Apr 2014
Sub	Rajesh Kumar Yadav	(JC-819341F)	1st Jul 2014
Sub	Jyotirmoy Nanda	(JC-819343M)	1st Sep 2014
Sub	Dharam Pal Singh	(JC-819360M)	1st Sep 2014
Sub	Raghav Ram Singh	(JC-819368Y)	1st Nov 2014
Sub	Suresh Kumar Fogat	(JC-819207W)	1st Jan 2015
Sub	Hoshiyar Singh	(JC-819259M)	1st Feb 2015
Sub	Chathu Kutty Thekkadavan	(JC-819326M)	1st May 2015
Sub	Hari Shankar Singh	(JC-819342K)	23rd May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Sub	Shish Ram Munia	(JC-819369F)	1st Jul 2015
Sub	Ramswaroop Bagaria	(JC-819346A)	1st Jul 2015
Sub	Dilip Kumar Saxena	(JC-819398W)	1st Aug 2015

Sub	Neela Kandan K	(JC-819406K)	1st Sep 2015
Sub	Swapan Kumar Das	(JC-819405F)	1st Oct 2015
Sub	Dinesh Kumar Singh	(JC-819449Y)	1st Jan 2016
Sub	Gobind Kumar Tiwari	(JC-819453F)	1st Feb 2016
Sub	M Nanda Mohan Singha	(JC-819462H)	1st Feb 2016
Sub	Surendra Pal Singh	(JC-819491X)	1st Jul 2016
Sub	Leela Ram Saini	(JC-819496W)	1st Aug 2016
Sub	Tara Chand Yadav	(JC-819498F)	1st Aug 2016
Sub	Jadhav Shankar Ramachandra	(JC-819499K)	1st Aug 2016
Sub	Satya Pal	(JC-819500N)	1st Nov 2016
Sub	Shish Ram	(JC-819505M)	1st Dec 2016

To be Subedar Major (Clerk)

Sub	Ram Pratap	(JC-818744P)	1st Feb 2014
Sub	P Jayakaran	(JC-819146K)	1st Jul 2014
Sub	Apurba Chandra Ghosh	(JC-819188W)	1st Jun 2015
Sub	Samar Pal Singh	(JC-819296A)	1st Oct 2016

To be Subedar (Mp)

Nb Sub	Godhan Singh Bisht	(JC-819506P)	1st Jan 2014
Nb Sub	J P Mishra	(JC-819508A)	1st Jan 2014
Nb Sub	Raghubansh Kumar Singh	(JC-819509H)	1st Jan 2014
Nb Sub	Virendra Singh	(JC-819514N)	1st Jan 2014
Nb Sub	Akhilesh Shukla	(JC-819515W)	1st Jan 2014
Nb Sub	Naresh Kumar	(JC-819516Y)	1st Jan 2014
Nb Sub	Omvir Singh	(JC-819517F)	1st Jan 2014
Nb Sub	Dileep Kumar V	(JC-819518K)	1st Jan 2014
Nb Sub	Tarsem Lal	(JC-819519M)	1st Jan 2014
Nb Sub	Abhijeet Kumar	(JC-819520F)	1st Jan 2014
Nb Sub	Suresh Chand Singh	(JC-819521K)	1st Jan 2014
Nb Sub	Abinash Singh	(JC-819528N)	1st Jan 2014
Nb Sub	Harendra S Chauhan	(JC-819527L)	1st Jan 2014
Nb Sub	Nanda Ram	(JC-819529W)	1st Feb 2014
Nb Sub	Purushotaman P	(JC-819530L)	1st Feb 2014
Nb Sub	KH Kurshna Bahi BB	(JC-819531N)	1st Feb 2014
Nb Sub	Vimal Prakash Singh	(JC-819532W)	1st Feb 2014
Nb Sub	Kuldip Singh	(JC-819533Y)	1st Feb 2014
Nb Sub	S Shankar Kademani	(JC-819534F)	1st Feb 2014
Nb Sub	Mahendra Singh Yadav	(JC-819537P)	1st Feb 2014
Nb Sub	Sarup Singh	(JC-819538X)	1st Feb 2014
Nb Sub	Permendra Kumar	(JC-819539A)	1st Feb 2014

Nb Sub	Raji G	(JC-819540P)	1st Feb 2014
Nb Sub	SK Upadhyay	(JC-819536M)	1st Feb 2014
Nb Sub	Bhaga Ram Devara	(JC-819541X)	1st Mar 2014
Nb Sub	Radhe Shyam Pathak	(JC-819542A)	1st Mar 2014
Nb Sub	Gee Varghese U	(JC-819543H)	1st Mar 2014
Nb Sub	Ghan Shyam Singh	(JC-819544L)	1st Mar 2014
Nb Sub	Surakesal Reddy	(JC-819545N)	1st Mar 2014
Nb Sub	Mange Ram	(JC-819546W)	1st Mar 2014
Nb Sub	Mukesh Kumar	(JC-819547Y)	1st Mar 2014
Nb Sub	Malkhan Singh	(JC-819548F)	1st Mar 2014
Nb Sub	Mohan Kumar B S	(JC-819553M)	1st Mar 2014
Nb Sub	Safiur Rahman	(JC-819554P)	18thMar 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Kamal Singh	(JC-819555X)	1st Apr 2014
Nb Sub	Raj Kumar Cheehi	(JC-819556A)	1st Apr 2014
Nb Sub	S Kali Goundan	(JC-819557H)	1st Apr 2014
Nb Sub	Kuna Sreenivasa Rao	(JC-819558L)	1st Apr 2014
Nb Sub	K P Tripathi	(JC-819559N)	7th Apr 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	S K Sabrati	(JC-819560H)	1st Apr 2014
Nb Sub	Ramdular Singh	(JC-819561L)	4thApr 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	S K Chaturvedi	(JC-819562N)	1st Apr 2014
Nb Sub	Patel Gama Shyam Dev	(JC-819563W)	3rd Apr 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	M Venkat Reddy	(JC-819567M)	1st May 2014
Nb Sub	Raj Kumar Pandit	(JC-819568P)	1st May 2014
Nb Sub	A Narayana Swamy	(JC-819569X)	1st May 2014
Nb Sub	Ram Pal	(JC-819570M)	1st May 2014
Nb Sub	B Hema Chandra Reddy	(JC-819571P)	1st May 2014
Nb Sub	Omkar Nath Mishra	(JC-819572X)	1st May 2014
Nb Sub	Manoj Kumar	(JC-819573A)	1st May 2014
Nb Sub	Rohtas Singh	(JC-819577W)	1st May 2014
Nb Sub	Haridwar Ray	(JC-819578Y)	5thMay 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 May 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Dilip Singh Khati	(JC-819581Y)	1st May 2014
Nb Sub	Delaiyya	(JC-819583K)	1st May 2014
Nb Sub	Alauddin Miya	(JC-819584M)	6th Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Sanjay Kumar	(JC-819585P)	1st Jun 2014
Nb Sub	N Prasad Trivedi	(JC-819586X)	1st Jun 2014

Nb Sub	Sri Ram Yadwa	(JC-819587A)	2nd Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Swami Nath Gupta	(JC-819589L)	1st Jun 2014
Nb Sub	Biman Chandra Roy	(JC-819590A)	1st Jun 2014
Nb Sub	A K Dubey	(JC-819591H)	1st Jun 2014
Nb Sub	Surendra Singh	(JC-819595Y)	30th Jun 2014
Nb Sub	Dineshan KV	(JC-819596F)	1st Jul 2014
Nb Sub	Bhagmal	(JC-819598M)	1st Jul 2014
Nb Sub	Sita Ram	(JC-819600Y)	1st Jul 2014
Nb Sub	Amresh Kumar	(JC-819602K)	1st Jul 2014
Nb Sub	Chavda J Bhagwan	(JC-819603M)	7th Jul 2014
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ganga Sagar Singh	(JC-819601F)	1st Jul 2014
Nb Sub	Y J K Dalpat Sinh	(JC-819599P)	1st Jul 2014
Nb Sub	Balesh Kumar	(JC-819597K)	1st Jul 2014
Nb Sub	Vijay Prasad	(JC-819604P)	1st Jul 2014
Nb Sub	A K Sharma	(JC-819605X)	1st Jul 2014
Nb Sub	N B Veera Reddy	(JC-819608L)	1st Jul 2014
Nb Sub	Manmohan Ram Sharma	(JC-819609N)	7th Jul 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Birendra Kumar	(JC-819610H)	10th Jul 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Virendra Singh	(JC-819611L)	10th Jul 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Raj Mani	(JC-819612N)	2th Aug 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Jaswinder Singh	(JC-819613W)	1st Aug 2014
Nb Sub	Satheesan T	(JC-819614Y)	1st Aug 2014
Nb Sub	Dhanasekar S	(JC-819615F)	1st Aug 2014
Nb Sub	Bajrang Singh S	(JC-819617M)	1st Aug 2014
Nb Sub	Upen Kalita	(JC-819618P)	1st Aug 2014
Nb Sub	Prem Dutt	(JC-819624H)	1st Aug 2014
Nb Sub	Gaikwad Pandurang A	(JC-819616K)	1st Aug 2014
Nb Sub	Sadik Khan	(JC-819619X)	1st Aug 2014
Nb Sub	Rakhal Chandra Kole	(JC-819620M)	21st Aug 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Brij Nandan Mishra	(JC-819623A)	1st Aug 2014
Nb Sub	Prabhakar Chaturvedi	(JC-819625L)	1st Aug 2014
Nb Sub	Krishna Kumar Mishra	(JC-819626N)	23th Aug 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Manoj Kumar Singh	(JC-819627W)	1st Sep 2014

Nb Sub	Shyam Pal Singh	(JC-819628Y)	1st Sep 2014
Nb Sub	Bir Bahadur Yadava	(JC-819629F)	1st Sep 2014
Nb Sub	Ram Anuj Pandey	(JC-819632F)	1st Sep 2014
Nb Sub	R Thirupathi	(JC-819634M)	1st Sep 2014
Nb Sub	Jai Narain Thakur	(JC-819635P)	1st Sep 2014
Nb Sub	Aryendra Pal Singh	(JC-819637A)	1st Sep 2014
Nb Sub	D P Chaubey	(JC-819638H)	9thSep 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Jabar Singh	(JC-819641H)	1st Sep 2014
Nb Sub	Kshetra Mohan Hota	(JC-819642L)	1st Sep 2014
Nb Sub	Mahender Kumar	(JC-819643N)	1st Sep 2014
Nb Sub	Laxman Singh	(JC-819630W)	11thSep 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Mahant Kumar Namdeo	(JC-819639L)	1st Sep 2014
Nb Sub	Bhanwar Lal	(JC-819633K)	1st Sep 2014
Nb Sub	Dilip Kumar Ray	(JC-819645Y)	1st Sep 2014
Nb Sub	Bhuvaneshwar Pathak	(JC-819640A)	1st Sep 2014
Nb Sub	Sujit Kumar Nath	(JC-819644W)	1st Sep 2014
Nb Sub	Ram Kesh	(JC-819646F)	1st Sep 2014
Nb Sub	Rohtash	(JC-819636X)	1st Sep 2014
Nb Sub	V Santhana Krishnan	(JC-819535K)	2nd Sep 2014
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Shiv Janam Mishra	(JC-819647K)	1st Oct 2014
Nb Sub	Prem Kumar T	(JC-819648M)	1st Oct 2014
Nb Sub	Prasanta Kumar Nayak	(JC-819649P)	1st Oct 2014
Nb Sub	Ram Binod Sharma	(JC-819650K)	1st Oct 2014
Nb Sub	Reji Joseph	(JC-819651M)	1st Oct 2014
Nb Sub	Thimmaiah CG	(JC-819652P)	1st Oct 2014
Nb Sub	Lakeswar Baruah	(JC-819653X)	1st Oct 2014
Nb Sub	Dharam Pal Singh	(JC-819654A)	1st Nov 2014
Nb Sub	Gopu C	(JC-819655H)	1st Nov 2014
Nb Sub	Polavarapu Sreehari	(JC-819656L)	1st Nov 2014
Nb Sub	Raghunath Sahu	(JC-819657N)	1st Nov 2014
Nb Sub	Radha Charan Sharma	(JC-819658W)	1st Dec 2014
Nb Sub	Raja Ram Yadav	(JC-819659Y)	1st Dec 2014
Nb Sub	Krishna Kumar Upadhyaya	(JC-819660N)	1st Dec 2014
Nb Sub	Jai Kumar Singh	(JC-819661W)	9th Dec 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Udai Pratap	(JC-819666P)	1st Dec 2014
Nb Sub	Gajraj Singh	(JC-819662Y)	1st Dec 2014
Nb Sub	Jai Prakash Shukla	(JC-819664K)	1st Dec 2014

Nb Sub	Akhilesh Kumar Singh	(JC-819665M)	1st Dec 2014
Nb Sub	Sanjeevan PV	(JC-819667X)	1st Dec 2014
Nb Sub	Syom Pal Singh	(JC-819668A)	15th Dec 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Sri Raja Ram	(JC-819669H)	1st Dec 2014
Nb Sub	Birendra Kumar Singh	(JC-819670X)	1st Dec 2014
Nb Sub	Krishan Kumar	(JC-819671A)	1st Jan 2015
Nb Sub	Ram Chander	(JC-819672H)	1st Jan 2015
Nb Sub	Pradip Kumar Mandal	(JC-819673L)	5th Jan 2015
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Manoj Kumar Singh	(JC-819674N)	1st Jan 2015
Nb Sub	Adarsh Kumar	(JC-819675W)	1st Jan 2015
Nb Sub	Bhanwar Singh Rajput	(JC-819676Y)	1st Jan 2015
Nb Sub	Patil Jiva Bhai Badar Bhai	(JC-819678K)	1st Jan 2015
Nb Sub	Muppala Siva Rao	(JC-819679M)	29th Jan 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Arurander Kumar Dhar Dubey	(JC-819680F)	6th Jan 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Dulal Roy Choudhury	(JC-819683P)	1st Jan 2015
Nb Sub	Sham Rao Kokatkar	(JC-819684X)	1st Jan 2015
Nb Sub	Janardan Prasad Singh	(JC-819686H)	1st Jan 2015
Nb Sub	Sajeev V	(JC-819687L)	1st Jan 2015
Nb Sub	Patel Fatesinh Bodabhai	(JC-819685A)	1st Jan 2015
Nb Sub	Jai Kumar	(JC-819677F)	12th Jan 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Deena Dayalan C	(JC-819688N)	1st Feb 2015
Nb Sub	Raja Kasab Multani	(JC-819695K)	1st Feb 2015
Nb Sub	Arjun Singh	(JC-819690L)	1st Feb 2015
Nb Sub	Mahaveer Singh	(JC-819691N)	1st Feb 2015
Nb Sub	Ram Niwas	(JC-819694F)	1st Feb 2015
Nb Sub	Moti Lal	(JC-819696M)	1st Feb 2015
Nb Sub	Sarvesh Kumar	(JC-819704A)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Rajendra Kumar Prajapati	(JC-819705H)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Guljari Lal Sahu	(JC-819717X)	1st Feb 2015
Nb Sub	Talagapu Vasudev	(JC-819719H)	1st Feb 2015
Nb Sub	Ram Pratap	(JC-819723L)	1st Feb 2015
Nb Sub	Rasmi Ranjan Kar	(JC-819724N)	1st Feb 2015

Nb Sub	Anil Kumar V	(JC-819728K)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	M Edu Kondalu	(JC-819697P)	1st Feb 2015
Nb Sub	Ram Pal Singh	(JC-819699A)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Puran Singh	(JC-819707N)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ummmed Singh	(JC-819706L)	1st Feb 2015
Nb Sub	Thakur Prasad	(JC-819710N)	1st Feb 2015
Nb Sub	Hiramani Prasad	(JC-819712Y)	1st Feb 2015
Nb Sub	Jatprabhu Singh Ratan Singh	(JC-819722H)	1st Feb 2015
Nb Sub	Vidya Bhushan Tripathi	(JC-819701M)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Rohtash Yadav	(JC-819702P)	3rd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Sukhbir Singh	(JC-819703X)	1st Feb 2015
Nb Sub	Radha Krishna Pillai	(JC-819711W)	10th Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Balwinder Singh	(JC-819718A)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Siya Ram	(JC-819721A)	1st Feb 2015
Nb Sub	Anil Kumar	(JC-819713F)	1st Feb 2015
Nb Sub	Sureshan PP	(JC-819729M)	1st Mar 2015
Nb Sub	Jai Prakash Singh	(JC-819730F)	1st Mar 2015
Nb Sub	Nimay Chandra Roy	(JC-819732M)	1st Mar 2015
Nb Sub	Chitranjan Sharma	(JC-819738N)	1st Mar 2015
Nb Sub	Dilip Kumar Singh	(JC-819739W)	2nd Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Kanwar Pal	(JC-819740L)	1st May 2015
Nb Sub	Ram Chandra Mishra	(JC-819741N)	1st Mar 2015
Nb Sub	Lakshmanan Koyatan	(JC-819742W)	2nd Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ashok Kumar	(JC-819745K)	1st Mar 2015
Nb Sub	Kishori Kumar Nayak	(JC-819746M)	1st Mar 2015
Nb Sub	Sudhanshu Shakher	(JC-819747P)	1st Mar 2015
Nb Sub	Ravindra Singh	(JC-819751X)	1st Mar 2015
Nb Sub	Shesh Nath Yadava	(JC-819753H)	2nd Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Rupendra Kumar Singh	(JC-819754L)	2nd Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Devendra Kumar Singh	(JC-819755N)	1st Apr 2015

Nb Sub	Anjani Kumar Yadaw	(JC-819759K)	1st Apr 2015
Nb Sub	MD Javed Akhtar	(JC-819760Y)	1st Apr 2015
Nb Sub	Ashok Kumar	(JC-819765X)	1st Apr 2015
Nb Sub	Vijay Kumar	(JC-819770H)	1st Apr 2015
Nb Sub	Pradeep Kumar Singh	(JC-819777M)	1st Apr 2015
Nb Sub	Dinkar Thakur	(JC-819767H)	1st Apr 2015
Nb Sub	Thangavelu K	(JC-819768L)	1st Apr 2015
Nb Sub	MC Jayachandra	(JC-819769N)	1st Apr 2015
Nb Sub	Lakshami Prasad	(JC-819774Y)	10th Apr 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Amulya Sarkar	(JC-819775F)	1st Apr 2015
Nb Sub	Raman Kumar Choudhary	(JC-819776K)	1st Apr 2015
Nb Sub	Hyder Baig	(JC-819779X)	16th Apr 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Sanjay Kumar	(JC-819787W)	1st Apr 2015
Nb Sub	Subhash Chand	(JC-819791Y)	1st Apr 2015
Nb Sub	Mahammad Jamal	(JC-819792F)	1st Apr 2015
Nb Sub	Laxman Singh Panwar	(JC-819778P)	15th Apr 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Manoj Kumar Arya	(JC-819773W)	1st Apr 2015
Nb Sub	Pramod Kumar Rai	(JC-819788Y)	1st Apr 2015
Nb Sub	Devendra Singh Dewori	(JC-819789F)	1st Apr 2015
Nb Sub	Surender Singh	(JC-819790W)	1st Apr 2015
Nb Sub	Vijay Singh	(JC-819793K)	1st May 2015
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Barot Arvind Bhai Jashu Bhai	(JC-819794W)	1st May 2015
Nb Sub	Satyendra Kumar	(JC-819795P)	1st May 2015
Nb Sub	Vinod Kumar Sharma	(JC-819802A)	1st May 2015
Nb Sub	Shiv Singh Gurjar	(JC-819803H)	1st May 2015
Nb Sub	Ram Narayan	(JC-819805N)	1st May 2015
Nb Sub	Ravindran KV	(JC-819806W)	2nd May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Satyvir Singh	(JC-819807Y)	1st May 2015
Nb Sub	Shyam Prakash Pandey	(JC-819808F)	1st May 2015
Nb Sub	Shanker Sharma	(JC-819812K)	16th May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Inderjit Singh	(JC-819804L)	15th May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Arbind Kumar Mishra	(JC-819813M)	1st Jun 2015
Nb Sub	Mani Ram	(JC-819814P)	1st Jun 2015

Nb Sub	Ajay Kumar Pathak	(JC-819815X)	1st Jun 2015
Nb Sub	Surendran MB	(JC-819816A)	1st Jun 2015
Nb Sub	Sukha Ram Bangra	(JC-819817H)	2nd Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Amar Singh	(JC-819819N)	1st Jun 2015
Nb Sub	Satender Kumar	(JC-819820H)	1st Jul 2015
Nb Sub	Dhanvir Singh	(JC-819766A)	2nd Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Mahender Singh	(JC-819821L)	1st Jul 2015
Nb Sub	N Venkateswara Rao	(JC-819822N)	1st Jul 2015
Nb Sub	Biswajit Das	(JC-819823W)	5th Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ziaul Karim	(JC-819825P)	1st Aug 2015
Nb Sub	Jayarajan KV	(JC-819826K)	1st Aug 2015
Nb Sub	Jabbar Khan Sambharia	(JC-819829X)	1st Aug 2015
Nb Sub	Welson PJ	(JC-819831P)	1st Aug 2015
Nb Sub	Manoj Kumar Kumawat	(JC-819834H)	8th Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Yadav Sultan Singh Ram Narayan	(JC-819836N)	1st Aug 2015
Nb Sub	Pradip Kumar Das	(JC-819828P)	1st Aug 2015
Nb Sub	Prasanta Kumar Panda	(JC-819830M)	3rd Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Pravash Kumar Roy	(JC-819835L)	1st Aug 2015
Nb Sub	Raju PP	(JC-819824Y)	1st Aug 2015
Nb Sub	Sarvaiya Mahendra Sinh Bhoj Raj Sinh	(JC-819797A)	14th Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Jiban Kumar Mondal	(JC-819796K)	1st Aug 2015
Nb Sub	Lalit Mohan	(JC-819827M)	1st Aug 2015
Nb Sub	Rajamanikam J	(JC-819832X)	8th Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Braj Nandan Prasad Patel	(JC-819837W)	8th Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Bijit Kumar Borah	(JC-819838Y)	1st Sep 2015
Nb Sub	S Murugesan	(JC-819840W)	15th Sep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Subhash Singh	(JC-819841Y)	1st Sep 2015
Nb Sub	Om Dutt Sharma	(JC-819842F)	1st Sep 2015
Nb Sub	Brijesh Kumar Dubey	(JC-819843K)	1st Sep 2015
Nb Sub	Murari Prasad Yadav	(JC-819844M)	1st Sep 2015
Nb Sub	Arun Kumar Maity	(JC-819845P)	1st Sep 2015

Nb Sub	Mohan Lal	(JC-819848H)	1st Sep 2015
Nb Sub	Khot Prakash Manohar	(JC-819849L)	1st Sep 2015
Nb Sub	Sushil Kumar	(JC-819852L)	1st Sep 2015
Nb Sub	Biju PS	(JC-819854W)	1st Sep 2015
Nb Sub	Ajit Kumar Mishra	(JC-819846X)	1st Sep 2015
Nb Sub	Pawan Kumar	(JC-819851H)	1st Sep 2015
Nb Sub	Vindhyachal Singh Kushwaha	(JC-819847A)	1st Sep 2015
Nb Sub	Rajesh Kumar	(JC-819855Y)	28th Sep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 23 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Baria Takhat Sinh Chandra Sinh	(JC-819856F)	1st Oct 2015
Nb Sub	Anil Kumar NK	(JC-819857K)	1st Oct 2015
Nb Sub	Salender Singh	(JC-819858M)	1st Oct 2015
Nb Sub	Devendra Kumar Upadhyay	(JC-819859P)	1st Oct 2015
Nb Sub	Mohan Kumar Singh	(JC-819860K)	1st Oct 2015
Nb Sub	Manoj Kumar Singh	(JC-819861M)	1st Oct 2015
Nb Sub	Ranjit Kumar Singh	(JC-819862P)	2nd Nov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Munendra Naryan Singh	(JC-819863X)	1st Nov 2015
Nb Sub	MD Obaidul Islam	(JC-819864A)	1st Nov 2015
Nb Sub	Ashok Kumar Mehta	(JC-819865H)	2nd Nov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ram Jeet Yadava	(JC-819867N)	1st Nov 2015
Nb Sub	Indra Kamal Tamuli	(JC-819868W)	1st Nov 2015
Nb Sub	Umesh Singh	(JC-819870N)	1st Nov 2015
Nb Sub	Satyendra Kumar	(JC-819871W)	1st Nov 2015
Nb Sub	Birendra Prasad	(JC-819873F)	1st Nov 2015
Nb Sub	Satendra Singh Negi	(JC-819874K)	1st Nov 2015
Nb Sub	Amar Kumar Singh	(JC-819869Y)	1st Nov 2015
Nb Sub	Devendra Singh	(JC-819872Y)	1st Nov 2015
Nb Sub	Ram Awatar Mishra	(JC-819875M)	1st Nov 2015
Nb Sub	Pradeep Kumar Parida	(JC-819866L)	1st Nov 2015
Nb Sub	Girdhari Lal Thakur	(JC-819876P)	1st Dec 2015
Nb Sub	Nishad Ghanshyam Gangaram	(JC-819877X)	1st Dec 2015
Nb Sub	Ravindra Pai	(JC-819878A)	1st Dec 2015
Nb Sub	Prathapan K	(JC-819879H)	1st Dec 2015
Nb Sub	Ashok Kumar	(JC-819881A)	1st Dec 2015
Nb Sub	Gigi VJ	(JC-819882H)	1st Dec 2015
Nb Sub	Ambika Prasad Tiwari	(JC-819883L)	10thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			

Nb Sub	Bishun Ram Nath	(JC-819880X)	14th Dec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Dayanand	(JC-819884N)	1st Jan 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 26 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Kishan Singh	(JC-819886Y)	1st Jan 2016
Nb Sub	Mrityunjoy Chowdhury	(JC-819887F)	1st Jan 2016
Nb Sub	Jagnarayan Das	(JC-819888K)	1st Jan 2016
Nb Sub	Shrideo Yadav	(JC-819890F)	1st Jan 2016
Nb Sub	Ramadhar Choudhary	(JC-819891K)	1st Jan 2016
Nb Sub	Ranveer Singh	(JC-819892M)	1st Jan 2016
Nb Sub	Premananda Sarkar	(JC-819893P)	1st Jan 2016
Nb Sub	Ram Mani Dubey	(JC-819894X)	1st Jan 2016
Nb Sub	Vijayan KV	(JC-819895A)	1st Jan 2016
Nb Sub	Bhupinder Singh	(JC-819896H)	1st Jan 2016
Nb Sub	M Prem Kumar Singh	(JC-819885W)	1st Jan 2016
Nb Sub	Rajiva Kumar	(JC-819897L)	7th Jan 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Tirth Raj Yadav	(JC-819898N)	1st Feb 2016
Nb Sub	Chandra Bhan Yadava	(JC-819900A)	1st Feb 2016
Nb Sub	Rajesh Kumar Singh	(JC-819901H)	1st Feb 2016
Nb Sub	Gorakh Nath Yadava	(JC-819902L)	1st Feb 2016
Nb Sub	MV Cheriyan	(JC-819903N)	1st Mar 2016
Nb Sub	Chhabi Nath Singh Yadav	(JC-819899W)	10th Feb 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	K C Dinesh	(JC-819904W)	1st Apr 2016
Nb Sub	Govind Kishor	(JC-819905Y)	1st Apr 2016
Nb Sub	Shyam Singh Jat	(JC-819907K)	1st Apr 2016
Nb Sub	Satendra Kumar	(JC-819908M)	6th Apr 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Mouniji Pandey	(JC-819910K)	1st Apr 2016
Nb Sub	Rajesh Kumar Jha	(JC-819909P)	1st Apr 2016
Nb Sub	Pandhare Ram Tukaram	(JC-819911M)	1st Apr 2016
Nb Sub	D Arokia Samy	(JC-819912P)	1st Apr 2016
Nb Sub	Shiv Sagar	(JC-819906F)	13th Apr 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Chivate Sanjay Gurunath	(JC-819915H)	1st May 2016
Nb Sub	Vitthal Gugaratti	(JC-819916L)	1st May 2016
Nb Sub	A Balamurugan	(JC-819917N)	1st Jun 2016
Nb Sub	Gouri Danamaiah	(JC-819918W)	8th Jul 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Mejanur Rahman	(JC-819919Y)	1st Jul 2016

Nb Sub	Shashipal Singh	(JC-819920N)	1st Aug 2016
Nb Sub	Narayan Banerjee	(JC-819921W)	1st Aug 2016
Nb Sub	Venkatesan B	(JC-819922Y)	9th Aug 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ram Chandra	(JC-819923F)	1st Aug 2016
Nb Sub	Sushil Chandra De	(JC-819924K)	1st Aug 2016
Nb Sub	Kuldeep Singh	(JC-819925M)	1st Sep 2016
Nb Sub	Mundhe Suryakant Nago Rao	(JC-819926P)	1st Nov 2016
Nb Sub	Munindra Kalita	(JC-819927X)	1st Nov 2016
Nb Sub	M S Shekhawat	(JC-819929H)	1st Nov 2016
Nb Sub	Ajay Kumar Singh	(JC-819928A)	1st Nov 2016
Nb Sub	Hiranmoy Mandal	(JC-819930X)	1st Dec 2016

To be Subedar (Musician)

Nb Sub	Laxmidhar Mahapatra	(JC-819780M)	18th Nov 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allces)			

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub	Vijayendra Kurup R	(JC-819682M)	1st Feb 2014
Nb Sub	RP Yadav	(JC-819692W)	1st Apr 2014
Nb Sub	SC Sharma	(JC-819693Y)	21st May 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 May 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Ramesh Chandra	(JC-819700K)	1st Jun 2014
Nb Sub	Chetnya Rao Singh	(JC-819708W)	1st Jul 2014
Nb Sub	Sona Lal Sah	(JC-819709Y)	1st Jul 2014
Nb Sub	Alok Kumar Maiti	(JC-819714K)	1st Jul 2014
Nb Sub	Dhananjay Daimary	(JC-819716P)	1st Jul 2014
Nb Sub	Ramakant Yadav	(JC-819720X)	1st Aug 2014
Nb Sub	Kishan Singh	(JC-819725W)	1st Aug 2014
Nb Sub	Patil Suresh Barku	(JC-819726Y)	1st Aug 2014
Nb Sub	Shankarlal Patidar	(JC-819727F)	6th Oct 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Lichhmana Ram Choudhary	(JC-819733P)	1st Jan 2015
Nb Sub	Radhey Shyam	(JC-819734X)	1st Feb 2015
Nb Sub	Shashi Bhushan Shitanshu	(JC-819735A)	1st Apr 2015
Nb Sub	Ramsvtar Boyal	(JC-819736H)	12th May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Gouri Shankar Bhadu	(JC-819737L)	1st Apr 2015
Nb Sub	Kunwar Singh	(JC-819744F)	1st May 2015
Nb Sub	Rajesh Kumar Bajpai	(JC-819750P)	24th Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			

Nb Sub	N Arul Raj	(JC-819752A)	13th Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Vijay Pal Nagar	(JC-819758F)	1st Jul 2015
Nb Sub	Surender Singh	(JC-819761F)	1st Aug 2015
Nb Sub	Mathura Prasad Patel	(JC-819762K)	1st Sep 2015
Nb Sub	Balbeer Mahala	(JC-819763M)	1st Sep 2015
Nb Sub	Bolade Dipak Krishna	(JC-819764P)	1st Sep 2015
Nb Sub	Veda Nand Yadav	(JC-819771L)	1st Oct 2015
Nb Sub	Ashok Kumar Gauda	(JC-819772N)	1st Mar 2016
Nb Sub	Chandra Bhushan Gupta	(JC-819781P)	1st Apr 2016
Nb Sub	Pradeep Kumar Singh	(JC-819782X)	1st Jun 2016
Nb Sub	Ashok Kumar Yadav	(JC-819738A)	4th Jun 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	A Pushpa Raj	(JC-819785L)	8th Jul 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Rakesh Kumar Tripathi	(JC-819784H)	21st Jun 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Gulab Singh	(JC-819786N)	1st Jul 2016
Nb Sub	Pradeep Kumar Ahlawat	(JC-819798H)	1st Sep 2016
Nb Sub	Debashis Sen	(JC-819799L)	1st Sep 2016
Nb Sub	Bahoran Singh	(JC-819800P)	3rd Oct 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allces)			
Nb Sub	Khenat Kiran D	(JC-819801X)	1st Nov 2016
Nb Sub	More Mangesh Kashiram	(JC-819810Y)	1st Dec 2016

To be Naib Subedar (MP)

Hav	Anil Kumar V	(7775714H now JC-819728K)	02nd Apr 2012
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allces)			
Hav	Sureshan PP	(7775829W now JC-819729M)	01st Apr 2012
Hav	Jai Prakash Singh	(7775704X now JC-819730F)	01st Apr 2012
Hav	Ram Gopal Sharma	(7775739P now JC-819731K)	01st Apr 2012
Hav	Nimay Chandra Roy	(7775756P now JC-819732M)	01st May 2012
Hav	Chitaranjan Sharma	(7775795N now JC-819738N)	01st Jul 2012
Hav	Dilip Kumar Singh	(7775871P now JC-819739W)	01st Jul 2012
Hav	Kanwar Pal	(7775889L now JC-819740L)	01st Jul 2012
Hav	Ramchandra Mishra	(7775741M now JC-819741N)	01st Aug 2012
Hav	Lakshmanan Koyatan	(7775830L now JC-819742W)	01st Aug 2012
Hav	Patel Bhupendra KCB	(7775786M now JC-819743Y)	01st Aug 2012
Hav	Ashok Kumar	(7775891H now JC-819745K)	1st Sep 2012
Hav	Kishor Kumar Nayak	(7775895Y now JC-819746M)	1st Sep 2012
Hav	Sudhanshu Shakher	(7775901F now JC-819747P)	1st Sep 2012
Hav	Birendra Prasad	(7776431N now JC-819873F)	1st Jan 2014
Hav	Satendra Singh Negi	(7776434F now JC-819874K)	1st Jan 2014

Hav	Ram Awatar Mishra	(7776436M now JC-819875M)	1st Jan 2014
Hav	Girdhari Lal Thakur	(7776351W now JC-819876P)	1st Jan 2014
Hav	Nishad Ghanshyam Gangaram	(7776367F now JC-819877X)	1st Jan 2014
Hav	Ravindra Pai	(7776385K now JC-819878A)	1st Jan 2014
Hav	Prathapan K	(7776428N now JC-819879H)	1st Jan 2014
Hav	Bishnu Ram Nath	(7776456A now JC-819880X)	1st Jan 2014
Hav	Ashok Kumar	(7776470M now JC-819881A)	1st Jan 2014
Hav	Gigi VJ	(7776478Y now JC-819882H)	8th Jan 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Ambika Prasad Tiwari	(7776540A now JC-819883L)	1st Jan 2014
Hav	Dayanand	(7776546F now JC-819884N)	1st Jan 2014
Hav	M Prem Kumar Singh	(7776535P now JC-819885W)	1st Jan 2014
Hav	Kishan Singh	(7776576Y now JC-819886Y)	1st Jan 2014
Hav	Mritynujoy Chowdhury	(7776582M now JC-819887F)	3rd Jan 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Jagnarayan Das	(7776588N now JC-819888K)	1st Jan 2014
Hav	Shrideo Yadav	(7776602P now JC-819890F)	1st Jan 2014
Hav	Ramdhari Choudhary	(7776603F now JC-819891K)	1st Feb 2014
Hav	Ranveer Singh	(7776404K now JC-819892M)	1st Feb 2014
Hav	Premananda Sarkar	(7776581K now JC-819893P)	1st Feb 2014
Hav	Ram Mani Dubey	(7776593Y now JC-819894X)	1st Feb 2014
Hav	Vijayan KV	(7776628K now JC-819895A)	1st Feb 2014
Hav	Bhupinder Singh	(7776633P now JC-819896H)	1st Feb 2014
Hav	Rajiva Kumar	(7776636H now JC-819897L)	1st Feb 2014
Hav	Tirth Raj Yadav	(7776640L now JC-819898N)	1st Feb 2014
Hav	Chhabhi Nath Singh Yadav	(7776694M now JC-819899W)	1st Feb 2014
Hav	Chandra Bhan Yadava	(7776695P now JC-819900A)	1st Feb 2014
Hav	Rajesh Kumar Singh	(7776701X now JC-819901H)	1st Mar 2014
Hav	Gorakh Nath Yadava	(7776692F now JC-819902L)	1st Mar 2014
Hav	MV Cheriyan	(7776594F now JC-819903L)	1st Mar 2014
Hav	KC Dinesh	(7776637L now JC-819904W)	1st Mar 2014
Hav	Govind Kishor	(7776662K now JC-819905Y)	1st Mar 2014
Hav	Shiv Sagar	(7776664P now JC-819906F)	1st Mar 2014
Hav	Shyam Singh Jat	(7776665X now JC-819907K)	1st Mar 2014
Hav	Satendra Kumar	(7776709K now JC-819908M)	18th Nov 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajesh Kumar Jha	(7776676K now JC-819909P)	1st Mar 2014
Hav	Mouniji Pandey	(7776710Y now JC-819910K)	1st Mar 2014
Hav	Pandhare Ram Tukaram	(7776686N now JC-819911M)	1st Mar 2014
Hav	D Arokia Samy	(7776719N now JC-819912P)	1st Mar 2014
Hav	C Sanjay Gurunath	(7776728P now JC-819915H)	1st Apr 2014

Hav	Vitthal Gugaratti	(7776741Y now JC-819916L)	1st Apr 2014
Hav	A Balamurugan	(7776747A now JC-819917N)	1st Apr 2014
Hav	Gouri Danamaiah	(7776758M now JC-819918W)	1st Apr 2014
Hav	Mejanur Rahman	(7776766L now JC-819919Y)	1st Apr 2014
Hav	Sashi Pal Singh	(7776767N now JC-819920N)	1st Apr 2014
Hav	Narayan Banerjee	(7776768W now JC-819921W)	1st Apr 2014
Hav	Venkatesan B	(7776769Y now JC-819922Y)	1st Apr 2014
Hav	Ram Chandra	(7776771W now JC-819923F)	1st Apr 2014
Hav	Sushil Chandra De	(7776773F now JC-819924K)	1st Apr 2014
Hav	Kuldeep Singh	(8033033H now JC-819925M)	1st May 2014
Hav	M Suryakant Nag Rao	(7776783L now JC-819926P)	1st May 2014
Hav	Munindra Kalita	(7776777X now JC-819927X)	1st May 2014
Hav	Ajay Kumar Singh	(7776379W now JC-819928A)	1st May 2014
Hav	Mohan Singh Shekhawat	(7776234L now JC-819929H)	1st May 2014
Hav	Hiranmoy Mandal	(7776796H now JC-819930X)	1st May 2014
Hav	Sunil Kumar Singh Dalal	(7776798N now JC-819931A)	1st May 2014
Hav	Zala Balram Singh RS	(7776808M now JC-819932H)	1st May 2014
Hav	Anil Kumar	(7776820N now JC-819933L)	1st May 2014
Hav	Ishwar Singh	(7776822Y now JC-819934N)	1st May 2014
Hav	C Munirathinam	(7776829H now JC-819935W)	1st May 2014
Hav	M Kumar Saraswat	(7776667H now JC-819938K)	3rd Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Jonnarapu R Reddy	(7776757K now JC-819939M)	2nd Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Bhalekar Sandipan S	(7776832H now JC-819940F)	2nd Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Satheesh Kumar S	(7776836Y now JC-819941K)	1st Jun 2014
Hav	S Sankara Srinivasa Rao G	(7776840F now JC-819942M)	1st Jun 2014
Hav	Rajesh Kumar Singh	(7776856M now JC-819943P)	3rd Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Patel Mahesh Bhai DB	(7776774K now JC-819944X)	1st Jun 2014
Hav	Rajender Prasad	(7776539L now JC-819945A)	30th Jun 2014
Hav	Sushil Bhandary	(7776843P now JC-819951N)	1st Jul 2014
Hav	Jagadish Suthar	(7776854F now JC-819952W)	1st Jul 2014
Hav	Jitendra Kumar Bana	(7776865N now JC-819953Y)	1st Jul 2014
Hav	A Mohan Raj	(7776868F now JC-819954F)	1st Jul 2014
Hav	Nand K Viswakarma	(7776875X now JC-819955K)	1st Jul 2014
Hav	Hanuman Ram	(7776884Y now JC-819956M)	1st Jul 2014
Hav	Ajit Kumar Mandal	(7776881L now JC-819957P)	1st Jul 2014
Hav	Surada Lakshmana Rao	(7776842M now JC-819958X)	1st Jul 2014
Hav	Raghuvir Singh	(7776873M now JC-819959A)	1st Jul 2014

Hav	Dilip Kumar Baxla	(7776894H now JC-819960P)	1st Jul 2014
Hav	Vaddina Ram Rao	(7776897W now JC-819961X)	1st Jul 2014
Hav	Sanjiv Kumar	(7776898Y now JC-819962A)	1st Jul 2014
Hav	Manikandhan P	(7776831A now JC-819963H)	1st Jul 2014
Hav	Yashvir Singh	(7776082P now JC-819964L)	1st Jul 2014
Hav	Navin Chandra	(7776902W now JC-819965N)	1st Jul 2014
Hav	Rama Kant Singh	(7776911X now JC-819966W)	1st Jul 2014
Hav	Ashok Kumar Singh	(7776913H now JC-819967Y)	13thJul 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Mahendr Yadaw	(7776914L now JC-819968F)	1st Jul 2014
Hav	Kamala Singh	(7776915N now JC-819969K)	1st Jul 2014
Hav	Aghav Aba Pandurang	(7776916W now JC-819970Y)	8thJul 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Gambhir Dana Bhai Haja Bhai	(7776937M now JC-819974P)	1st Aug 2014
Hav	Ratan Lal	(7776920Y now JC-819975X)	1st Aug 2014
Hav	Santosh Kumar	(7776941P now JC-819976A)	1st Aug 2014
Hav	Mataroo Yadav	(7776928L now JC-819977H)	1st Aug 2014
Hav	Sujoy Ghosh	(7776943A now JC-819978L)	1st Aug 2014
Hav	Nand Kirshor Singh	(7776940M now JC-819979N)	1st Aug 2014
Hav	Mwnthigiri Narzary	(7776852W now JC-819980H)	1st Aug 2014
Hav	Biju M Abraham	(7776951Y now JC-819981L)	1st Aug 2014
Hav	Rajendra Singh Chauhan	(7776952F now JC-819982N)	1st Aug 2014
Hav	Shaji Cheniyantiyil Parayikkandi	(7776959L now JC-819983W)	1st Aug 2014
Hav	Sudananda P	(7776960A now JC-819984Y)	1st Aug 2014
Hav	Santosh Kumar Pathak	(7776967K now JC-819985F)	1st Aug 2014
Hav	Yogendra Prasad	(7776972P now JC-819986K)	1st Aug 2014
Hav	Mintu Kumar Samanta	(7776977N now JC-819987M)	1st Sep 2014
Hav	Sunil Kumar Yadav	(7776980N now JC-819988P)	1st Sep 2014
Hav	Balattar Singh Yadav	(7776981W now JC-819989X)	1st Sep 2014
Hav	Nirmal Kumar	(7776876A now JC-819990M)	1st Sep 2014
Hav	Ravinder Kumar	(7776895L now JC-819991P)	1st Sep 2014
Hav	Uma Shankar Yadav	(7776918F now JC-819992X)	1st Sep 2014
Hav	Sekhawat Bhawani Singh Bhagirath Singh	(7776983F now JC-819993A)	1st Sep 2014
Hav	Ranbir Prasad Singh	(7776987X now JC-819994H)	1st Sep 2014
Hav	Lal Bahadur Yadav	(7776988A now JC-819995L)	1st Sep 2014
Hav	Munirathinam K	(7776949F now JC-819996N)	1st Sep 2014
Hav	Bijender Singh	(7779828L now JC-819997W)	1st Sep 2014
Hav	Hari Prakash Yadav	(7776639W now JC-819998Y)	9thSep 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Sanjay Kumar Samal	(7776994N now JC-819999F)	1st Sep 2014
Hav	R P Santhana Krishnan	(7777002Y now JC-820000H)	1st Sep 2014

Hav	Om Prakash Prasad	(7777003F now JC-820001L)	1st Sep 2014
Hav	Nand Lal Ram	(7777008A now JC-820002N)	1st Sep 2014
Hav	Yeduru Rama Krishna	(7777011A now JC-820003W)	1st Sep 2014
Hav	Saina Puram Laxma Reddy	(7777013L now JC-820004Y)	1st Sep 2014
Hav	Om Prakash	(7777014N now JC-820005F)	1st Sep 2014
Hav	Ashok Kumar Yadav	(7777017F now JC-820006K)	1st Sep 2014
Hav	B Hari	(7776989H now JC-820007M)	13thOct 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	J Jothie	(7777024X now JC-820008P)	1st Oct 2014
Hav	Birdi Lal Meena	(7777025A now JC-820009X)	1st Oct 2014
Hav	Narendra Kumar	(7777026H now JC-820010M)	1st Oct 2014
Hav	Manoj Kumar Pandey	(7777029W now JC-820011P)	1st Oct 2014
Hav	Masih Horo	(7777030L now JC-820012X)	26th Nov 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Jagadish Chander	(7777031M now JC-820013A)	1st Oct 2014
Hav	Mahendra Upadhyay	(7777033Y now JC-820015L)	1st Nov 2014
Hav	Kamlesh Prasad Mishra	(7776699L now JC-820016N)	21st Nov 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Prakash Ranjan Rai	(7776587L now JC-820017W)	1st Nov 2014
Hav	Arun Kumar Upadhyay	(7777009H now JC-820018Y)	1st Nov 2014
Hav	Krishna Kant Ojha	(7777006P now JC-820019F)	3rdDec 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Ramjee Singh	(7776346L now JC-820020W)	1st Dec 2014
Hav	Chandra Sekharan A	(7777023P now JC-820021Y)	1st Dec 2014
Hav	R C Madhusoodanan Pillai	(7777038X now JC-820022F)	1st Dec 2014
Hav	Dibakar Das	(7777042A now JC-820023K)	1st Dec 2014
Hav	Ramesh S	(7777045N now JC-820024M)	1st Dec 2014
Hav	Rajendra Singh	(7777049K now JC-820025P)	1st Dec 2014
Hav	Debabrata Das	(7777055X now JC-820026X)	1st Dec 2014
Hav	Raju Sharma	(7777057H now JC-820027A)	1st Dec 2014
Hav	Jitendra Sharma	(7777063W now JC-820028H)	1st Dec 2014
Hav	Monoj Kumar Thakur	(7777067M now JC-820029L)	1st Dec 2014
Hav	Rajesh Kumar	(7777070M now JC-820030A)	1st Dec 2014
Hav	Ganga Datt Melkani	(7777072X now JC-820032L)	1stJan 2015
Hav	Pratap Horo	(7777076M now JC-820033N)	1st Jan 2015
Hav	Pabitra Kumar Bhowmiek	(7777078Y now JC-820034W)	1st Jan 2015
Hav	Amarjit Thapar	(7777083K now JC-820035Y)	1st Jan 2015
Hav	Ramesh Chand	(7777046W now JC-820036F)	1st Jan 2015
Hav	Sanjay Kumar Ray	(7777094W now JC-820037L)	1st Jan 2015
Hav	Vyas Singh	(7777095Y now JC-820038M)	1st Jan 2015
Hav	Jay Prakash Mishra	(7776435K now JC-820039P)	1st Jan 2015

Hav	Suresh Kumar	(7776954M now JC-820040K)	1st Jan 2015
Hav	Kishore Rai	(7777020F now JC-820041M)	1st Jan 2015
Hav	Suprakash Bera	(7777056A now JC-820042P)	1st Jan 2015
Hav	V Ramu	(7777064Y now JC-820043X)	1st Jan 2015
Hav	Arun Barthwal	(7777048F now JC-820044A)	1st Jan 2015
Hav	Beeram Singh	(7777097K now JC-820045H)	1st Jan 2015
Hav	Mrityunjay Debey	(7777098M now JC-820046L)	7thJan 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajendra Kumar Kushwaha	(7777104P now JC-820048W)	1st Feb 2015
Hav	Ram Raja Yadava	(7777100Y now JC-820049Y)	1st Feb 2015
Hav	Krishna Kumar M	(7777109M now JC-820050N)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Pradeep Kumar Singh	(7777110H now JC-820051W)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	M Raja Sekhar Babu	(7777111L now JC-820052Y)	1st Feb 2015
Hav	Manoj Kumar Tiwari	(7777113W now JC-820053F)	1st Feb 2015
Hav	Kashmir Singh	(7777114Y now JC-820054K)	1st Feb 2015
Hav	Md Lokman Hakim Khan	(7777115F now JC-820055M)	1st Feb 2015
Hav	N Krishnan	(7777116K now JC-820056P)	1st Feb 2015
Hav	TM Rajeevakshan	(7777118P now JC-820057X)	1st Feb 2015
Hav	Pawan Kumar	(7777119X now JC-820058A)	3rd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Maksud Ali	(7777121P now JC-820059H)	10thFeb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Suresh Kumar Samal	(7777123A now JC-820060X)	1st Feb 2015
Hav	Barhate Nitin Nathu	(7777124H now JC-820061A)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Diwakar Kumar Singh	(7777125L now JC-820062H)	25thFeb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Saravan Singh Yadav	(7777126N now JC-820063L)	1st Feb 2015
Hav	Mahesh Yadava	(7777127W now JC-820064N)	1st Feb 2015
Hav	Subash Chandra Prusty	(7777132F now JC-820065W)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Gurav Suresha Arjuna	(7777133K now JC-820066Y)	1st Feb 2015
Hav	Parit Vithal Ganapathi	(7777135P now JC-820067F)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Damodar Pradhan	(7777139L now JC-820068K)	1st Feb 2015
Hav	Suresh Kumar	(7777142L now JC-820069M)	1st Feb 2015
Hav	Chandra Pal Singh	(7777145Y now JC-820070F)	1st Feb 2015
Hav	Awale Subhash Kashi Nath	(7777086X now JC-820071K)	1st Feb 2015
Hav	Rajesh Kumar Mishra	(7777131Y now JC-820072M)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			

Hav	Avtar Singh	(7777143N now JC-820073P)	2nd Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Charanjit Kumar	(7777148M now JC-820074X)	1st Feb 2015
Hav	Nanhelal Shrivastava	(7777151M now JC-820075A)	24th Feb 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Nawab Khan	(7776905K now JC-820076H)	2nd Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Desai Zakir Husen Baban	(7777161W now JC-820077L)	1st Mar 2015
Hav	Gurav Ramchandra Baban	(7777162Y now JC-820078N)	1st Mar 2015
Hav	Swapan Guin	(7777164K now JC-820079W)	5th Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Raju Kumar Dutta	(7777170X now JC-820080L)	1st Mar 2015
Hav	Yogendra Kumar Sharma	(7777177F now JC-820081N)	1st Mar 2015
Hav	Nawal Kant Poddar	(7777180F now JC-820082W)	1st Mar 2015
Hav	Abdul Rasool Shaik	(7777182M now JC-820083Y)	1st Mar 2015
Hav	Mahender Singh	(7777183P now JC-820084F)	2nd Mar 2015
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Sanjay Kumar Mer	(7777184X now JC-820085K)	2nd Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Chhotu Ram Jakhar	(7777186H now JC-820086M)	1st Mar 2015
Hav	Anil Tripathi	(7777205H now JC-820087P)	1st Mar 2015
Hav	Manoj KV	(7777189W now JC-820088X)	5th Mar 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Madiwalappa Kalabhavi	(7777191M now JC-820089A)	1st Mar 2015
Hav	Vadivel P	(7777193Y now JC-820090P)	1st Mar 2015
Hav	Haris Chandra Yadav	(7777198X now JC-820091X)	1st Mar 2015
Hav	Sankar M	(7777199A now JC-820094L)	1st Apr 2015
Hav	Dinesh Kumar Singh	(7777200K now JC-820095N)	1st Apr 2015
Hav	Ram Bachan	(7777201M now JC-820096W)	1st Apr 2015
Hav	Dharmendra Pratap Singh	(7777202P now JC-820097Y)	1st Apr 2015
Hav	Munna Kumar Pandey	(7777203X now JC-820098F)	1st Apr 2015
Hav	Someshwar Kumar Singh	(7777204A now JC-820099K)	1st Apr 2015
Hav	Deva Ram Bishnoi	(7777197P now JC-820100N)	1st Apr 2015
Hav	Ram Niwas	(7776966F now JC-820101W)	4th Apr 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajendra Singh	(7777174N now JC-820102Y)	1st Apr 2015
Hav	Sajimon L	(7777213F now JC-820103F)	1st Apr 2015
Hav	A Venkatesan	(7777222H now JC-820104K)	1st Apr 2015
Hav	Pramod Kumar	(7777225W now JC-820105M)	1st Apr 2015
Hav	Ram Bujharat Yadav	(7777227F now JC-820106P)	1st Apr 2015
Hav	Ravindra Nath Yadav	(7777228K now JC-820107X)	1st Apr 2015

Hav	Manoj Kumar Gupta	(7777235A now JC-820108A)	1st Apr 2015
Hav	Mukhvinder Singh	(7777237L now JC-820109H)	1st Apr 2015
Hav	Ravindra Nath Mondal	(7777238N now JC-820110X)	1st Apr 2015
Hav	Rohan Singh Yadav	(7777239W now JC-820111A)	1st Apr 2015
Hav	Lila Dhar	(7777241N now JC-820112H)	1st Apr 2015
Hav	Kumbhar Rajendra Shivaji	(7777242W now JC-820113L)	1st Apr 2015
Hav	Har Dayal Ahirwar	(7777244F now JC-820114N)	1st Apr 2015
Hav	Narendra Kumar	(7777245K now JC-820115W)	1st Apr 2015
Hav	Maresh Kumar	(7777246M now JC-820118K)	1st May 2015
Hav	Raju EL	(7777247P now JC-820119M)	1st May 2015
Hav	Siva Kumar AM	(7777258F now JC-820120F)	1st May 2015
Hav	Uttam Singh	(7777263M now JC-820121K)	1st May 2015
Hav	Satish Kumar	(7777265X now JC-820122M)	1st May 2015
Hav	Subhash Chand	(7777261F now JC-820123P)	1st May 2015
Hav	Manoj Kumar	(7777074H now JC-820124X)	2nd May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Sampath A	(7777266A now JC-820125A)	5th May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Dayalu Ram Boro	(7777267H now JC-820126H)	1st May 2015
Hav	Ghan Shyam Upadhyay	(7777276K now JC-820127L)	27th May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Lal Jee	(7777278P now JC-820128N)	1st Jun 2015
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Basanta Kumar Sahu	(7777281P now JC-820131N)	1st Jun 2015
Hav	Sunder Singh	(7777282X now JC-820132W)	1st Jun 2015
Hav	Munna Lal	(7777286N now JC-820133Y)	13th Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Om Raj Sharma	(7777290W now JC-820134F)	1st Jun 2015
Hav	Khanjode Laxu Janu	(7777291Y now JC-820135K)	1st Jun 2015
Hav	Dadivala Sharmad	(7777296X now JC-820136M)	1st Jun 2015
Hav	Ajay Kumar	(7777303H now JC-820137P)	1st Jun 2015
Hav	Vinod S	(7777304L now JC-820138X)	1st Jun 2015
Hav	Rajinder Singh	(7777298H now JC-820140P)	1st Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajesh Singh	(7777307Y now JC-820141X)	1st Jul 2015
Hav	Subhash Chander Jat	(7777311F now JC-820142A)	1st Jul 2015
Hav	Purna Chandra Khadanga	(7777190L now JC-820143H)	1st Jul 2015
Hav	Vijay Kumar S	(7777270H now JC-820145N)	1st Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Dumpala Raghu	(7777318L now JC-820146W)	1st Aug 2015
Hav	S Karuppasamy	(7777322N now JC-820147Y)	1st Aug 2015

Hav	Polostho Kumar Bisoyi	(7777323W now JC-820148F)	1st Aug 2015
Hav	M Renga Samy	(7777328P now JC-820149K)	1st Aug 2015
Hav	Fateha Bahadur Yadava	(7777329X now JC-820150Y)	1st Aug 2015
Hav	Manoranjana Behera	(7777331P now JC-820151F)	1st Aug 2015
Hav	Ramdhani Yadav	(7777334H now JC-820152K)	1st Aug 2015
Hav	Kailash Nath Yadav	(7777339F now JC-820153M)	1st Aug 2015
Hav	Doman Lal Sinha	(7777341Y now JC-820154P)	1st Aug 2015
Hav	Inderjeet Kumar	(7777367N now JC-820155X)	1st Aug 2015
Hav	KSaminathan	(7777369Y now JC-820156A)	1st Aug 2015
Hav	Ram Babu	(7777373F now JC-820157H)	1st Aug 2015
Hav	K Dhananjayan	(7777381A now JC-820158L)	1st Aug 2015
Hav	Roshan Lal	(7777382H now JC-820159L)	1st Aug 2015
Hav	Suresh D	(7777383L now JC-820160H)	5thAug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Krishna Nand Yadav	(7777280M now JC-820164Y)	1stSep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Sukanta Kumar Malla	(7777392M now JC-820165F)	1st Sep 2015
Hav	Rajesh	(7777411M now JC-820166K)	1st Sep 2015
Hav	Rathod Upendra Singh Hukam Singh	(7777428A now JC-820167M)	1st Sep 2015
Hav	P Babu	(7777400A now JC-820168P)	1st Sep 2015
Hav	Santosh Kumar Roy	(7777400A now JC-820169X)	1st Sep 2015
Hav	Shish Ram	(7777433L now JC-820170M)	1st Sep 2015
Hav	Bodkhe Someshwar Narayanappa	(7777441K now JC-820171P)	1st Sep 2015
Hav	Ajay Kumar Singh	(7777283A now JC-820172X)	18thSep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Jaibir	(7777315X now JC-820173A)	6th Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajesh Kumar Rana	(7777348H now JC-820174H)	17thSep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Bahadur Singh Jat	(7777360K now JC-820175L)	17thSep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Jagdish Prasad	(7777363X now JC-820176N)	18thSep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Ajitabh Kumar	(7777364A now JC-820177W)	24thSep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Navsar Balasaheb Trimbak	(7777150K now JC-820178Y)	29th Sep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Sep 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	S Subramani	(7777065F now JC-820180W)	1st Oct 2015
Hav	Satish Prasad	(7777080W now JC-820181Y)	21st Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Ram Narayan Choudhary	(7777343K now JC-820182F)	6th Nov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)			

Hav	Ellipilli Lakshun Naidu	(7777366L now JC-820183K)	1st Oct 2015
Hav	Ajay Kumar	(7777347A now JC-820184M)	7th Nov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Krishna Nand Pandey	(7777279X now JC-820185P)	1st Oct 2015
Hav	Indraj Kumar	(7777365H now JC-820186X)	1st Nov 2015
Hav	Mrinmoy Sarkar	(7777393P now JC-820187A)	4thNov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Gouranga Charan Patra	(7777394X now JC-820188H)	1st Nov 2015
Hav	Ashok Kumar Yadav	(7777402L now JC-820189L)	1st Nov 2015
Hav	Ram Pal	(7777417N now JC-820190A)	7thNov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Ran Jeet Singh	(7777418W now JC-820191H)	17thNov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Vinod Kumar	(7777419Y now JC-820192L)	1st Nov 2015
Hav	Shaikh Subhan Husen	(7777427X now JC-820193N)	1st Nov 2015
Hav	Bhola Ram Gurjar	(7777384N now JC-820194W)	1st Nov 2015
Hav	Nain Pal Singh	(7777432H now JC-820195Y)	10th Nov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	S Mariappan	(7777444X now JC-820196F)	1st Nov 2015
Hav	Sunil Kumar	(7777445A now JC-820197K)	1st Nov 2015
Hav	Uttam Kumar Das	(7777446H now JC-820198M)	10thNov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Dipendra Nath Ray	(7777448N now JC-820199P)	1st Nov 2015
Hav	Dhiraj Singh	(7777306W now JC-820200Y)	5thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Mukesh Kumar	(7777357K now JC-820201F)	7thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Hanuman	(7777358M now JC-820202K)	7th Dec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Yadav Satish Kumar Wamanrao	(7777370N now JC-820203M)	6thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Ashok Kumar Mishra	(7777371W now JC-820204P)	7thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Girja Shankar	(7777101F now JC-820205X)	6thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajeev Kumar	(7777416L now JC-820206A)	8th Dec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Sunil Kumar Singh	(7777424K now JC-820207K)	26thDec 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Ramesh Prasad Mandal	(7777324Y now JC-820208L)	1st Jan 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 2015 without effect on pay and allces)			

Hav	Pundaleek Pawar	(7777452W now JC-820209N)	6th Jan 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Manoj M	(7777453Y now JC-820210H)	1st Jan 2016
Hav	Sabale Hari Bhau Sukhadeo	(7777458X now JC-820211L)	1st Jan 2016
Hav	Shaj Kumar KM	(7777351H now JC-820212N)	1st Jan 2016
Hav	Saiful Badsha	(7777319N now JC-820213W)	1st Jan 2016
Hav	Ranjit Kumar Thakur	(7777462A now JC-820214Y)	1st Jan 2016
Hav	Gurveer Singh	(7777467Y now JC-820215F)	1st Jan 2016
Hav	Manoj KG	(7777479N now JC-820216K)	1st Jan 2016
Hav	C Manian	(7777489X now JC-820217M)	1st Jan 2016
Hav	Birendra Kumar Tiwari	(7777313M now JC-820218P)	1st Jan 2016
Hav	Ramawatar Goojar	(7777435W now JC-820219X)	1st Jan 2016
Hav	Shaji Nair K	(7777481L now JC-820220M)	9th Jan 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Rajesh Kumar Thakur	(7777494H now JC-820221P)	1st Feb 2016
Hav	Gopaljee Yadav	(7777503Y now JC-820222X)	1st Feb 2016
Hav	Munsaf Ali Khan	(7777507P now JC-820223A)	1st Feb 2016
Hav	Anil Kumar Yadav	(7777508X now JC-820224H)	1st Feb 2016
Hav	Jitendra Kumar Yadav	(7777509A now JC-820225L)	1st Feb 2016
Hav	Pawan Kumar Tiwari	(7777510P now JC-820226N)	1st Feb 2016
Hav	Bajgiri Suresh Sopan	(7777511X now JC-820229F)	1st Mar 2016
Hav	Subhash Yadav	(7777512A now JC-820231Y)	1st Apr 2016
Hav	Jan MD	(7777514L now JC-820232F)	1st Apr 2016
Hav	Sukhvinder Kumar	(7777515N now JC-820233K)	1st Apr 2016
Hav	Shekh Sileman Bhai	(7777517Y now JC-820234M)	1st Apr 2016
Hav	Mulani Raphik Malang	(7777518F now JC-820235P)	1st Apr 2016
Hav	Bibhuti Yadav	(7777519X now JC-820236X)	1st Apr 2016
Hav	Pramod Kumar Singh	(7777520Y now JC-820237A)	1st Apr 2016
Hav	G Satya Narayan	(7777522K now JC-820238H)	1st Apr 2016
Hav	Satish Kumar	(7777529N now JC-820239L)	1st Apr 2016
Hav	N Shyam Kishor Singha	(7777492X now JC-820240A)	1st May 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Parmal Singh	(7777536K now JC-820241H)	1st May 2016
Hav	Siraj Y	(7777537M now JC-820247K)	1st Jun 2016
Hav	Dev Narayan Ram	(7777538P now JC-820248M)	1st Jun 2016
Hav	Bopaiah GP	(7776726K now JC-820249P)	1st May 2014
Hav	S Nagaraj	(7777539X now JC-820251M)	1st Jul 2016
Hav	Shareef Ahamed	(7777524P now JC-820252P)	1st Jul 2016
Hav	Salim Malik	(7777443P now JC-820253X)	1st Aug 2016
Hav	Balwant	(7777454F now JC-820254A)	2nd Aug 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			

Hav	Krishna Mamidi	(7777472K now JC-820255H)	1st Aug 2016
Hav	Subodh Kumar Mishra	(7777502W now JC-820256L)	1st Aug 2016
Hav	Devendra Kumar Sharma	(7777423F now JC-820257N)	16th Aug 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Vijay Pal Singh	(7777531L now JC-820260N)	1st Sep 2016
Hav	Dharmender	(7777535F now JC-820261W)	1st Sep 2016
Hav	Dhan Raj	(7777305N now JC-820265M)	1st Nov 2016
Hav	Sadhavendra Kumar Saraswat	(7777540M now JC-820266P)	1st Nov 2016
Hav	Radhey Mohan Singh	(7777542X now JC-820267X)	1st Nov 2016
Hav	Dipak Medhi	(7777372Y now JC-820268A)	26th Nov 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Jawahar Lal Prasad	(7777543A now JC-820270X)	1st Dec 2016

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav	Lichhmana Ram Chodhary	(7776242K Now JC-819733P)	1st Jun 2012
Hav	Radhey Shyam	(7776299Y Now JC-819734X)	1st Jun 2012
Hav	SB Shitanshu	(7776354K Now JC-819725A)	1st Jul 2012
Hav	Ramavtar Boyal	(7776414N Now JC-819736H)	1st Jul 2012
Hav	Gouri Shankar Bhadu	(7776532F Now JC-819737L)	1st Jul 2012
Hav	P Mathiyazhagan	(1487000X now JC-819889M)	1st Feb 2014
Hav	K Ramanuzam	(7778913F now JC-819913X)	20th Mar 2014
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Mar 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	A V Rohidas	(7778980M now JC-819914A)	1st Apr 2014
Hav	Rattan Lal	(7778443F now JC-819936Y)	8th May 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 May 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Pradip Paul	(7778760H now JC-819937F)	3rd Jun 2014*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jun 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Naresh Kumar	(7779303F now JC-819946H)	1st Jul 2014
Hav	Jasbir Singh	(7779706F now JC-819947L)	1st Jul 2014
Hav	Satheesh Kumar P K	(7779276H now JC-819948N)	1st Jul 2014
Hav	Hari Singh	(7779302Y now JC-819949W)	1st Jul 2014
Hav	Naresh Chandra Pandey	(7779645P now JC-819950L)	1st Jul 2014
Hav	Ramchander Yadav	(7779659P now JC-819971F)	1st Aug 2014
Hav	Ranbir Singh	(7779748N now JC-819972K)	1st Aug 2014
Hav	Adesh Kumar Gangwar	(7779749W now JC-819973M)	1st Aug 2014
Hav	Jagdish Singh	(1486996H now JC-820014H)	1st Oct 2014
Hav	Mohd Aslam	(7778974Y now JC-820031H)	1st Jan 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allces)			
Hav	Pramod Kumar	(7779304K now JC-820047N)	1st Feb 2015
Hav	Shashi Mohan	(7779707K now JC-820092A)	1st Apr 2015

Hav	Surender Singh	(7779750L now JC-820093H)	1st Apr 2015
Hav	Anil Kumar B	(1486995A now JC-820116Y)	15th Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Apr 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	N Raja	(7779845L now JC-820117F)	1st May 2015
Hav	Binoj MF	(7779847W now JC-820129W)	1st Jun 2015
Hav	Sunil Kumar MP	(7779857A now JC-820130L)	1st Jun 2015
Hav	Munendra Kumar	(7779878W now JC-820139A)	6thJul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Vijay Kumar Yadava	(7779885M now JC-820144L)	1st Aug 2015
Hav	Santosh Kumar Pandey	(7779886P now JC-820161L)	1st Sep 2015
Hav	Prem Paul	(7779887X now JC-820162N)	1st Sep 2015
Hav	Chaugule Sunil Rao	(7779896Y now JC-820163W)	1st Sep 2015
Hav	Biswajit Das	(7779910A now JC-820179F)	7thOct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2015 without effect on pay and allces)			
Hav	Snahungshu Das	(7779912L now JC-820228Y)	1st Mar 2016
Hav	Vinod TS	(7780137L now JC-820230W)	1st Apr 2016
Hav	Ajit Singh	(7780173W now JC-820243N)	1st Jun 2016
Hav	Prakash Chandra Fulera	(7780216A now JC-820244W)	1st Jun 2016
Hav	Jamdade Tarachand Aba	(7780238Y now JC-820245Y)	6th Jun 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Ramveer Singh	(7780249L now JC-820246F)	1st Jun 2016
Hav	Vinod Kumar	(7779625F now JC-820250K)	5thJul 2016*
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jul 2016 without effect on pay and allces)			
Hav	Rishi Kumar Sharma	(7780250A now JC-820258W)	1st Sep 2016
Hav	I Ibungobi Singha	(7780263X now JC-820259Y)	1st Sep 2016
Hav	Raja Kishore Nayak	(7780315Y now JC-820262Y)	1st Oct 2016
Hav	Ashok Kumar	(7780316L now JC-820263F)	1st Nov 2016
Hav	Balvir Singh Yadav	(7780320N now JC-820264K)	1st Nov 2016
Hav	Sohan Lal	(7780340F now JC-820269H)	1st Dec 2016

To be Naib Subedar (Musician)

Hav	Laxmidhar Mahapatra	(7778028A now JC-819780M)	20th Mar 2013 *
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2012 without effect on pay and allces)			
Hav	Nirmal Kumar Singh	(7780595F now JC-820227W)	11th Feb 2016
Hav	Jagar Nath Ram	(7780586A now JC-820242L)	9th May 2016 *
*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 1 May 2016 without effect on pay and allces)			

PRASHANTH RAO T.D.
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 06, dated 10th December 2018—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY
ARMED CORPS RECORDS

To be Nb RIS

- DFR(OPRAFV) MUKESH KUMAR (No 15468713K Now JC247863W) *12/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) UMMED SINGH (No 15468781X Now JC247884M) *12/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) DHARAM SINGH (No 15469082Y Now JC247899P) *19/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) KAKDE SHIVAJI JAYAJI (No 15467846N Now JC247880W) *10/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) DAYA SHANKAR PANDAY (No 15468342M Now JC247907H) *08/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) MAIN PAL (No 15468417Y Now JC247902K) *24/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) BALJINDER SINGH (No 15467377W Now JC247891H) *09/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) DINESH KUMAR SINGH (No 15467447K Now JC247906A) 01/06/2018
- DFR (DVRAFV) DAN SINGH (No 15467460N Now JC247917M) *12/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/06/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) RAI SINGH (No 15467520X Now JC247923A) *31/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 28/04/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) O.BRAJENDRA SINGHA (No 15467687F Now JC247854P) *27/04/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) JASPAL SINGH (No 15467804F Now JC247893N) *09/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) JAYARAJ VS (No 15466709H Now JC247861L) *03/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 27/02/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) RAJESH KULHARI (No 15466872H Now JC247908L) *05/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) DILBAG SINGH (No 15467062M Now JC247849K) *26/04/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) RAJPUT VASUDEO SATTAR SINGH (No 15467088F Now JC247882F) *28/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) BALKAR SINGH (No 15467354P Now JC247816Y) *24/03/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) JASWINDER SINGH (No 15467372X Now JC247871P) *15/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) SUNIL KUMAR, SM (No 15465584K Now JC247834F) *16/04/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) ANIL (No 15465838W Now JC247894W) *25/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)

- DFR (DVRAFV) SUKHWINDER SINGH (No 15466246Y Now JC247876N) *27/04/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) JAGAT SINGH (No 15466312W Now JC247912N) *05/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) M PEDDAIAH (No 15466458K Now JC247892L) *18/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) KRISHNA REDDY DAKKATA (No 15466582L Now JC247881Y) *14/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) AJEET KUMAR SINGH (No 15464543N Now JC247900Y) *19/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) TARUN KUMAR SAHU (No 15464921F Now JC247883K) *12/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/03/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) DAVINDER SINGH (No 15465288Y Now JC247903M) *11/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 04/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) SAMIR BAHADUR SINGH (No 15465395A Now JC247911L) *05/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/06/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) PARDEEP SINGH (No 15465456M Now JC247789A) *05/03/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) BHOLA NATH JHA (No 14638596H Now JC247846W) 01/05/2018
- DFR (DVRAFV) BHUPINDER SINGH (No 15463333F Now JC247860H) *01/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) KOVHOLI MAHADEV DHONDAPA (No 15464065P Now JC247889L) *14/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 14/03/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) GAGAN DEEP (No 15472981L Now JC247905X) *04/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/02/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) M KALIDHASAN (No 15472093W Now JC247867M) *06/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/03/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) KANGJAM RAJESH SINGH (No 15472151P Now JC247870M) *09/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) VAJRALA ALTHAF (No 15472383N Now JC247852K) *02/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) JAGWINDER SINGH (No 15472814P Now JC247853M) 01/05/2018
- DFR (DVRAFV) ANAND KUMAR SINGH (No 15471793X Now JC247868P) *06/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 19/02/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (OPRAFV) SWARUP NAG (No 15471896W Now JC247869X) *08/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) SURENDER SINGH (No 15471901W Now JC247886X) *12/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) T THAMIL SELVAN (No 15471914N Now JC247865F) *06/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (GNRAFV) SURINDER SINGH (No 15470492F Now JC247872X) *04/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) HARPREET SINGH (No 15470657P Now JC247895Y) *31/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 28/03/2018 without effect on pay and allowances)
- DFR (DVRAFV) PARVEEN SINGH (No 15470720Y Now JC247896F) *31/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 28/03/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (GNRAFV) MAIN PAL SINGH (No 15470757A Now JC247915F) *04/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/06/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (OPRAFV) JITENDRA KUMAR (No 15470867P Now JC247918P) *11/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (DVRAFV) POBITRA SINHA (No 15469716K Now JC247921P) *15/06/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2017 without effect on pay and allowances)

DFR (DVRAFV) PRAMOD KUMAR (No 15469725L Now JC247848F) *23/04/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 08/03/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (OPRAFV) NABIN DEKA (No 15470094A Now JC247806P) *15/03/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (DVRAFV) MD ABUL BASAR MONDAL (No 15470282F Now JC247904P) 01/06/2018

DFR (DVRAFV) DEBA BRATA BISWAS (No 15469141A Now JC247858L) *02/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 24/01/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (SKT) RAVI KUMAR SP (No 15469150F Now JC247901F) 01/06/2018

DFR (DVRAFV) RAJESH KUMAR YADAV (No 15469223H Now JC247885P) *15/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/05/2018 without effect on pay and allowances)

DFR (DVRAFV) JETHU SINGH RATHORE (No 15469579W Now JC247887A) *11/05/2018
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/04/2018 without effect on pay and allowances)

ANURAG SHARMA
Under Secretary